

ALL INDIA MOCK TEST

Sample Paper - 3

DURATION : 180 Minutes

MARKS : 720

Topic Covered

Physics	: FULL SYLLABUS : 45 Questions
Chemistry	: FULL SYLLABUS : 45 Questions
Biology	: FULL SYLLABUS : 90 Questions

Please read the instructions carefully :

1. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4 marks**. For each correct response, the candidate will get **4 marks**. For each incorrect response, **one mark** will be deducted. The maximum marks are **720**.
2. Use **Blue/Black Ball Point Pen** only for writing particulars on this page/marking responses.
3. Rough work is to be done on the space provided in the Test Booklet only.
4. **On completion of the test, the candidate must handover the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
5. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your roll no. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
6. Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and no question is missing.
7. Each candidate must show on demand his/her Admission Card to the Invigilator.
8. If any student is found to have occupied the seat of another student, both the students shall be removed from the examination and shall have to accept any other penalty imposed upon them.
9. No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.
10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet twice.
11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the Board.
13. The candidates will write the Correct Test ID Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

Name of the Student (In CAPITALS) : _____


Candidate ID : _____

Candidate Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

TOPIC : FULL SYLLABUS

1. द्रव्यमान m_2 को एक समान डोरी से लटकाया गया है जिसका दूसरा सिरा द्रव्यमान m_1 से जुड़ा हुआ है। एक डोरी m_1 को जमीन से जोड़ती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस डोरी में तनाव है



- | | |
|------------|--------------------|
| (1) शून्य | (2) m_1g |
| (3) m_2g | (4) $(m_2 - m_1)g$ |

2. 500 हर्ट्ज आवृत्ति की एक प्रगामी तरंग 360 मी/से. के वेग से चल कर रही है। 60° कलांतर वाले दो बिंदु एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं?

(1) 0.42 m
(2) 0.32 m
(3) 0.22 m
(4) 0.12 m


3. बल $F = 6\hat{i} - 8\hat{j} + 10\hat{k}$, की क्रिया के तहत पिण्ड 1 m/s^2 का त्वरण प्राप्त करता है। इस पिण्ड का द्रव्यमान होना चाहिए

 - (1) $10\sqrt{2} \text{ kg}$
 - (2) 15 kg
 - (3) $2\sqrt{2} \text{ kg}$
 - (4) 30 kg

4. लम्बाई I, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा यंग मापांक Y वाली एक पतली स्टील की छड़ को दो स्थिर आधारों के बीच में जकड़ा गया है। यदि इसे इस प्रकार गर्म किया जाए कि इसका तापमान ΔT बढ़ जाये तथा लम्बाई में परिवर्तन शून्य हो, तो छड़ पर लगाया गया ऊर्जीय संपीड़न बल है

(1) $\frac{AY}{\alpha \Delta T}$ (2) $AY\alpha \Delta T$
 (3) $|AY\alpha \Delta T$ (4) $\frac{|AY|}{\alpha \Delta T}$

1. Mass m_2 is hanged using a uniform string whose other end is attached to a mass m_1 . A string connects m_1 to ground as shown in figure. Tension in this string is



- (1) zero
 - (2) m_1g
 - (3) m_2g
 - (4) $(m_2 - m_1)g$

2. A progressive wave of frequency 500 Hz is travelling with velocity of 360 m/s. How far apart are two points 60° out of phase?

- (1) 0.42 m
 - (2) 0.32 m
 - (3) 0.22 m
 - (4) 0.12 m

3. A body under the action of a force $F = 6\hat{i} - 8\hat{j} + 10\hat{k}$, acquires an acceleration of 1 m/s^2 . The mass of this body must be



- (1) $10\sqrt{2}$ kg
 - (2) 15 kg
 - (3) $2\sqrt{2}$ kg
 - (4) 30 kg


4. A thin steel rod of length l , area of cross section A and Young's modulus Y is clamped between two fixed supports. If it is heated such that its temperature increases by ΔT and its change in length is zero, then the thermal compressive force exerted on the rod is


(1) $\frac{AY}{\alpha \Delta T}$ (2) $AY\alpha \Delta T$
 (3) $|AY\alpha \Delta T$ (4) $\frac{|AY|}{\alpha \Delta T}$

5. द्रव्यमान M का एक कण समान द्रव्यमान और त्रिज्या a वाले गोलाकार खोल के केन्द्र पर स्थित है। केन्द्र से $a/2$ दूरी पर स्थित बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षमता होगी
- $-\frac{4GM}{a}$
 - $-\frac{3GM}{a}$
 - $-\frac{2GM}{a}$
 - $-\frac{GM}{a}$
6. एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ 60° के कोण पर 20 ms^{-1} वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी गति (m/s में) होगी
- $5\sqrt{3}$
 - $10\sqrt{3}$
 - $15\sqrt{3}$
 - $20\sqrt{3}$
7. सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयाम है
- $[M^{-2} L^2 T^{-1}]$
 - $[M^{-1} L^3 T^{-2}]$
 - $[M^{-2} L^3 T^{-2}]$
 - $[ML^2 T^{-1}]$
8. दबाव p पर एक परमाणविक गैस, जिसका आयतन V है, समतापी रूप से $2V$ आयतन तक फैलती है और फिर रुद्धोष्म रूप से $16V$ आयतन तक फैलती है। गैस का अंतिम दाब है ($\gamma = \frac{5}{3}$ लें)
- $p/64$
 - $30 p$
 - $70 p$
 - $18 p$
9. निम्नलिखित में से कौन सा विमीय स्थिरांक है?
- सापेक्ष घनत्व
 - तनाव
 - अपवर्तनांक
 - गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक
5. A particle of mass M is situated at the centre of a spherical shell of same mass and radius a . The gravitational potential at a point situated at $a/2$ distance from the centre will be
- $-\frac{4GM}{a}$
 - $-\frac{3GM}{a}$
 - $-\frac{2GM}{a}$
 - $-\frac{GM}{a}$
6. A ball is projected with a velocity 20 ms^{-1} , at an angle of 60° with the vertical direction. Its speed (in m/s) at the highest point of its trajectory will be
- $5\sqrt{3}$
 - $10\sqrt{3}$
 - $15\sqrt{3}$
 - $20\sqrt{3}$
7. The dimensions of universal gravitational constant is
- $[M^{-2} L^2 T^{-1}]$
 - $[M^{-1} L^3 T^{-2}]$
 - $[M^{-2} L^3 T^{-2}]$
 - $[ML^2 T^{-1}]$
8. A monoatomic gas at a pressure p , having a volume V expands isothermally to a volume $2V$ and then adiabatically to a volume $16V$. The final pressure of the gas is (take $\gamma = \frac{5}{3}$)
- $p/64$
 - $30 p$
 - $70 p$
 - $18 p$
9. Which of the following is a dimensional constant?
- Relative density
 - Strain
 - Refractive index
 - Gravitational constant

- 10.** एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब वह अपनी अधिकतम ऊँचाई के आधे भाग पर पहुंच जाती है, तो उसकी गति 10 m/s सेकेण्ड हो जाती है। गेंद कितनी ऊँचाई तक उठती है?
- 20 m
 - 10 m
 - 5 m
 - 15 m
- 11.** नीचे दो कथन दिए गए हैं
- कथन - I : यदि किसी वर्नियर कैलिपर का 8वाँ वर्नियर स्केल डिवीजन उसके 7वें मुख्य स्केल डिवीजन के साथ मेल खाता है, तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.125 मिमी है। ($\text{MSD} = 1\text{mm}$)
- कथन - II : उपरोक्त वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके, किसी वस्तु के व्यास का माप 0.12 मिमी हो सकता है।
- दोनों कथन I एवं II असत्य हैं
 - कथन I सत्य है पर कथन II असत्य है
 - कथन II सत्य है पर कथन I असत्य है
 - दोनों कथन I एवं II सत्य हैं
- 12.** एक कन्वेयर बेल्ट पर $2M$ किलोग्राम/सेकेण्ड की दर से रेत गिर रही है। बेल्ट को निरंतर गति v मीटर/सेकेण्ड के साथ चलाने के लिए आवश्यक बल (न्यूटन में) होगा
- $2Mv$
 - Mv
 - $2M/v$
 - $v/2M$
- 13.** g , R और G के पदों में द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा? ($R =$ पृथ्वी की त्रिज्या)
- $g \frac{R^2}{G}$
 - $G \frac{R}{g}$
 - $g^2 \frac{R}{G}$
 - $G \frac{R^2}{g}$
- 14.** एक फ्लाइव्हील 840 घूर्णन/मिनट की गति से घूम रहा है और 11 रेडियन/ s^2 की निरंतर दर से धीमा हो रहा है। फ्लाइव्हील को रुकाने में कितना समय लगेगा?
- 8 s
 - 5 s
 - 2 s
 - 10 s
- 10.** A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 m/s , when it has reached one-half of its maximum height. How high does the ball rise?
- 20 m
 - 10 m
 - 5 m
 - 15 m
- 11.** Given below are two statements
- Statement - I : If 8th vernier scale division of a vernier caliper coincide with its 7th main scale division, then the least count of the vernier caliper is 0.125 mm . ($\text{MSD} = 1\text{mm}$)
- Statement - II : Using above vernier caliper, the measurement of diameter of an object can be 0.12 mm .
- Both statements I and II are incorrect
 - Statement I is correct and statement II is incorrect
 - Statement II is correct and statement I is incorrect
 - Both Statements I and II are correct
- 12.** Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of $2M \text{ kg/s}$. The force (in newton) necessary to keep the belt moving with a constant velocity $v \text{ m/s}$ will be
- $2Mv$
 - Mv
 - $2M/v$
 - $v/2M$
- 13.** What will be the formula of the mass in terms of g , R and G ? ($R =$ radius of the earth)
- $g \frac{R^2}{G}$
 - $G \frac{R}{g}$
 - $g^2 \frac{R}{G}$
 - $G \frac{R^2}{g}$
- 14.** A flywheel rotating at 840 rpm slows down at a constant rate of 11 rad s^{-2} . The time required to stop the flywheel is
- 8 s
 - 5 s
 - 2 s
 - 10 s


- | | |
|--|--|
| <p>15. एक प्रक्षेप्य को प्रारंभिक गति $v = (p\hat{i} + q\hat{j})$ मी./से. के साथ फेंका गया है। यदि प्रक्षेप्य की परास इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई की दोगुनी है, तो</p> <p>(1) $q = p$
 (2) $q = 2p$
 (3) $p = 2q$
 (4) $q = 4p$</p> | <p>15. A projectile is thrown with an initial velocity of $v = (p\hat{i} + q\hat{j})$ m/s. If the range of the projectile is double the maximum height reached by it, then</p> <p>(1) $q = p$
 (2) $q = 2p$
 (3) $p = 2q$
 (4) $q = 4p$</p> |
| <p>16. एक स्प्रिंग को 12 N के बल से 6 cm खींचा जाता है। जब 2 kg द्रव्यमान को इसके द्वारा निलंबित किया जाता है, तो दोलनों की समयावधि (सेकण्ड में) है</p> <p>(1) 6.008
 (2) 6.28
 (3) 0.628
 (4) 0.0628</p> | <p>16. A spring is stretched by 6 cm by a force 12 N. The time period (in s) of the oscillations when a mass of 2 kg is suspended by it is</p> <p>(1) 6.008
 (2) 6.28
 (3) 0.628
 (4) 0.0628</p> |
| <p>17. चुंबकीय आघूर्ण $50\hat{i}\text{A-m}^2$ वाला एक चुंबक X-अक्ष के अनुदिश रखा गया है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र $B = (0.5\hat{i} + 3.0\hat{j})\text{T}$ है। चुंबक पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण है</p> <p>(1) $175\hat{k}\text{N-m}$
 (2) $150\hat{k}\text{N-m}$
 (3) $75\hat{k}\text{N-m}$
 (4) $25\sqrt{37}\hat{k}\text{N-m}$</p> | <p>17. A magnet of magnetic moment $50\hat{i}\text{A-m}^2$ placed along X-axis, where magnetic field is $B = (0.5\hat{i} + 3.0\hat{j})\text{T}$. The torque acting on magnet is</p> <p>(1) $175\hat{k}\text{N-m}$
 (2) $150\hat{k}\text{N-m}$
 (3) $75\hat{k}\text{N-m}$
 (4) $25\sqrt{37}\hat{k}\text{N-m}$</p> |
| <p>18. एक लंबी परिनालिका में 1000 चक्कर हैं। जब इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो परिनालिका के प्रत्येक चक्कर से लिंक किया गया चुंबकीय फ्लक्स $4 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ है। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है</p> <p>(1) 2 H
 (2) 4 H
 (3) 1 H
 (4) 3 H</p> | <p>18. A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 A flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is $4 \times 10^{-3} \text{ Wb}$. The self-inductance of the solenoid is</p> <p>(1) 2 H
 (2) 4 H
 (3) 1 H
 (4) 3 H</p> |
| <p>19. सर्किट में, A और B के बीच विभवांतर है</p> | <p>19. In the circuit, the potential difference between A and B is</p> |
|  |  |
| <p>(1) 6 V
 (2) 1 V
 (3) 3 V
 (4) 2 V</p> | <p>(1) 6 V
 (2) 1 V
 (3) 3 V
 (4) 2 V</p> |






- 20.** एक छोटा द्रव्यमान O के चारों ओर a आयाम और T आवर्तकाल के साथ रैखिक सरल आवर्त गति कर रहा है। O से $T/8$ समय के बाद इसका विस्थापन है
- $\frac{a}{8}$
 - $\frac{a}{2}$
 - $\frac{a}{\sqrt{2}}$
 - $\frac{a}{2\sqrt{2}}$
- 21.** एक संधारित्र $10\mu C$ आवेश को एक बैटरी के साथ जोड़ने पर संग्रह करता है। जब प्लेट के बीच का अंतराल एक परावैद्युत से भरा जाता है, तो बैटरी से $20\mu C$ आवेश प्रवाहित होता है। परावैद्युत का परावैद्युतांक है
- $K = 2$
 - $K = 3$
 - $K = 4$
 - $K = 1$
- 22.** एक मध्यम में यात्रा करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की सापेक्ष चुंबकत्व 1.3 और सापेक्ष परावर्तन 2.14 है। उस मध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की गति होगी
- $13.6 \times 10^6 \text{ m/s}$
 - $1.8 \times 10^6 \text{ m/s}$
 - $3.6 \times 10^8 \text{ m/s}$
 - $1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$
- 23.** एक प्रयोग में, 10 सेमी फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस एक उत्तल दर्पण के सामने एक ऑप्टिकल बैंच पर समानांतर रखा गया है, जो इससे 2.66 सेमी की दूरी पर है। पाया गया है कि वस्तु और इसकी छवि समान है। यदि वस्तु को लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है
- 5 cm
 - 7 cm
 - 8 cm
 - 10 cm
- 24.** 5 सेमी त्रिज्या वाला एक खोखला धातु का गोला ऐसे प्रभावित है कि इसकी सतह पर विभव 10 वोल्ट है। गोले के केन्द्र पर विभव होगा
- 10 V
 - 0.2 V
 - 5 V
 - शून्य
- 20.** A small mass executes linear SHM about O with amplitude a and period T . Its displacement from O at time $T/8$ after passing through O is
- $\frac{a}{8}$
 - $\frac{a}{2}$
 - $\frac{a}{\sqrt{2}}$
 - $\frac{a}{2\sqrt{2}}$
- 21.** A capacitor stores $10\mu C$ charge when connected across a battery. When the gap between the plates is filled with a dielectric, a charge of $20\mu C$ flows through the battery. Find the dielectric constant of the dielectric.
- $K = 2$
 - $K = 3$
 - $K = 4$
 - $K = 1$
- 22.** The electromagnetic wave travelling in a medium has relative permeability 1.3 and relative permittivity 2.14. The speed of EM wave in that medium will be
- $13.6 \times 10^6 \text{ m/s}$
 - $1.8 \times 10^6 \text{ m/s}$
 - $3.6 \times 10^8 \text{ m/s}$
 - $1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$
- 23.** In an experiment, a convex lens of focal length 10 cm is placed co-axially on an optical bench in front of a convex mirror at a distance 2.66 cm from it. It is found that object and its image coincide. If the object is placed at a distance of 25 cm from the lens, then the focal length of the convex mirror is
- 5 cm
 - 7 cm
 - 8 cm
 - 10 cm
- 24.** A hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 V. The potential at the centre of the sphere will be
- 10 V
 - 0.2 V
 - 5 V
 - zero

25. R प्रतिरोध के एक तार को एक वर्ग ABCD बनाने के लिये जोड़ा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। E और C के बीच प्रभावी प्रतिरोध है (E, भुजा CD का मध्य बिंदु है)



- (1) R
 - (2) $\frac{1}{16}R$
 - (3) $\frac{7}{64}R$
 - (4) $\frac{3}{4}R$
26. एक वैकल्पिक वोल्टेज E (वोल्ट में) = $200\sqrt{2}\sin(100t)$ को एक $1\mu F$ कैपेसिटर को एक AC अमीटर के माध्यम से जोड़ा गया है। अमीटर की पाठ्यक्रम होगी
- (1) 80 mA
 - (2) 40 mA
 - (3) 20 mA
 - (4) 10 mA
27. p-n जंक्शन में विभव ग्राचीर 0.3 V है। आवश्यक धारा 6 mA है। जंक्शन के साथ श्रेणी को 200Ω प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो सेल के लिये आवश्यक विद्युत वाहक बल है
- (1) 1.5 V
 - (2) 2 V
 - (3) 3 V
 - (4) 5 V
28. हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 V है। हाइड्रोजन परमाणु को एकवर्णीय विकिरण से उत्तेजित किया गया है, जिसकी फोटॉन ऊर्जा 12.1 eV है। बोहर के सिद्धांत के अनुसार, हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएँ होंगी
- (1) दो
 - (2) तीन
 - (3) एक
 - (4) छह

25. A wire of resistance R is bent to form a square ABCD as shown in the figure. The effective resistance between E and C is (E is mid-point of arm CD)




- (1) R
 - (2) $\frac{1}{16}R$
 - (3) $\frac{7}{64}R$
 - (4) $\frac{3}{4}R$
26. An alternating voltage E (in volts) = $200\sqrt{2}\sin(100t)$ is connected to a $1\mu F$ capacitor through an AC ammeter. The reading of the ammeter will be
- (1) 80 mA
 - (2) 40 mA
 - (3) 20 mA
 - (4) 10 mA
27. The barrier potential in a p-n junction is 0.3 V. The current required is 6 mA. The emf of the cell required for use in the circuit, if a resistance of 200Ω is connected in series with junction is
- (1) 1.5 V
 - (2) 2 V
 - (3) 3 V
 - (4) 5 V
28. Ionisation potential of hydrogen atom is 13.6 V. Hydrogen atom in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 eV. According to Bohr's theory, the spectral lines emitted by hydrogen will be
- (1) two
 - (2) three
 - (3) one
 - (4) six


- 29.** 0.12 मीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस एक वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है जो वस्तु के आकार का तीन गुना है। वस्तु और लेंस के बीच दूरी ज्ञात कीजिए।
- 0.12 m
 - 0.24 m
 - 0.08 m
 - 0.04 m
- 30.** कथन - I : लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को उल्लंघित करता है।
- कथन - II : प्रेरित emf हमेशा चुम्बकीय फलक्स के परिवर्तन को विरोध करता है, जो इसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार है।
- दोनों कथन I एवं II असत्य है
 - कथन I सत्य है पर कथन II असत्य है
 - कथन II सत्य है पर कथन I असत्य है
 - दोनों कथन I एवं II सत्य है
- 31.** 25 वॉट और 100 वॉट की दो बल्बों को क्रमशः प्रत्येक 220 वोल्ट पर रेट किया गया है, जो 440 वोल्ट की आपूर्ति के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है। कौन सी बल्ब पर्यूज होगी?
- 40 वॉट
 - 25 वॉट
 - दोनों (1) और (2)
 - इनमें से कोई नहीं
- 32.** 200 ग्राम पर एक ठोस गेंद 20°C तापमान पर 80°C तापमान वाले समान मात्रा के पानी में गिरा दिया गया है। परिणामी तापमान 60°C है। इसका मतलब है कि ठोस की विशिष्ट ऊष्मा है
- पानी का चार गुना
 - पानी का दो गुना
 - पानी का आधा
 - पानी का एक चौथाई
- 33.** एक वोल्टमीटर जब एक समानांतर प्लेट संधारित्र जिसके बीच में वायु है के साथ जोड़ा गया है, तो यह 4 वोल्ट पढ़ता है। जब एक परावैद्युत प्लेट के बीच में डाल देते हैं तो वोल्टमीटर 2 वोल्ट पढ़ता है। उस पदार्थ का परावैद्युतांक है।
- 0.5
 - 2
 - 8
 - 10
- 29.** A convex lens of focal length 0.12 m produces a virtual image which is thrice the size of the object. Find the distance between the object and the lens.
- 0.12 m
 - 0.24 m
 - 0.08 m
 - 0.04 m
- 30.** Statement - I : Lenz's law violates the principle of conservation of energy.
- Statement - II : Induced emf always opposes the change in magnetic flux responsible for its production.
- Both statements I and II are incorrect
 - Statement I is correct and statement II is incorrect
 - Statement II is correct and statement I is incorrect
 - Both Statements I and II are correct
- 31.** If two bulbs of power 25 W and 100 W, respectively each rated at 220 V are connected in series with supply of 440 V. Which bulb will fuse?
- 40 W
 - 25 W
 - Both (1) and (2)
 - None of these
- 32.** 200 g of a solid ball at 20°C is dropped in an equal amount of water at 80°C . The resulting temperature is 60°C . This means that specific heat of solid is
- four times of water
 - twice of water
 - one-half of water
 - one-fourth of water
- 33.** A voltmeter reads 4 V when connected to a parallel plate capacitor with air as a dielectric. When a dielectric slab is introduced between plates for the same configuration, voltmeter reads 2 V. What is the dielectric constant of the material?
- 0.5
 - 2
 - 8
 - 10

- 34.** मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि के साथ, दो लगातार ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा का अंतर
- स्थाई रहता है
 - बढ़ता है
 - घटता है
 - कभी बढ़ता है और कभी घटता है
- 35.** चित्र में दिखाए गए विभवांतर V का वर्गमाध्यमूल मान है
-
- (1) V_0
(2) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$
(3) $\frac{V_0}{2}$
(4) $\frac{V_0}{\sqrt{3}}$
- 36.** दो मुक्त समानांतर तार विपरीत दिशा में धारा ले रहे हैं
- एक दूसरे को आकर्षित करते हैं
 - एक दूसरे को प्रतिसारण करते हैं
 - न तो आकर्षित होते हैं और न ही प्रतिसारण करते हैं
 - एक दूसरे के लंबवत होने के लिये घूम जाते हैं
- 37.** विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा 15 keV के आसपास है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग का हिस्सा है?
- पराबैंगनी किरणें
 - γ -किरणें
 - अवरक्त किरणें
 - X-किरणें
- 38.** चाँद की सतह से 200 किलोमीटर ऊपर एक परमाणु बम विस्फोट हुआ। चाँद पर विस्फोट की ध्वनि
- विस्फोट के समान समय में सुनी जाएगी।
 - विस्फोट के बाद सुनी जाएगी।
 - विस्फोट देखने से पहले सुनी जाएगी।
 - कभी नहीं सुनी जाएगी।
- 34.** With the increase in principal quantum number, the energy difference between the two successive energy levels
- remains constant
 - increases
 - decreases
 - sometimes increases and sometimes decreases
- 35.** The rms value of potential difference V shown in the figure is
-
- (1) V_0
(2) $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$
(3) $\frac{V_0}{2}$
(4) $\frac{V_0}{\sqrt{3}}$
- 36.** Two free parallel wires carrying currents in opposite direction,
- attract each other.
 - repel each other.
 - neither attract nor repel.
 - get rotated to be perpendicular to each other.
- 37.** The energy of the electromagnetic waves is of the order of 15 keV . To which part of the spectrum, does it belong?
- Ultraviolet rays
 - γ -rays
 - Infrared rays
 - X-rays
- 38.** A nuclear bomb exploded 200 km above the surface of moon. The sound of explosion on the moon
- will be heard at the same time.
 - will be heard after explosion.
 - will be heard before the explosion is seen.
 - will not be heard at all.

43. जैसा कि नीचे दिखाया गया है 'R' लंबाई की द्रव्यमान रहित डोरी वाले एक लोलक A को ऊर्ध्वाधर से 60° से छोड़ा जाता है। यह आधे द्रव्यमान के एक अन्य बॉब B से टकाराता है जो केंद्र में घर्षण रहित मेज पर रखा हुआ है। प्रत्यास्थ टक्कर मानते हुए टक्कर के बाद बॉब A के वेग का परिमाण होगा। (गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g ले)



- (1) $\frac{1}{3}\sqrt{Rg}$
- (2) \sqrt{Rg}
- (3) $\frac{4}{3}\sqrt{Rg}$
- (4) $\frac{2}{3}\sqrt{Rg}$



ऊपर परिपथ में प्रदर्शित तुल्य तर्क द्वारा है।

- (1) OR द्वारा
- (2) NOT द्वारा
- (3) AND द्वारा
- (4) NAND द्वारा


45. नीचे दो कथन दिए गए हैं एक को अभिकथन (A) के रूप में अंकित किया गया है और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

अभिकथन (A) : 30 और 170 के बीच द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियर्स बंधन ऊर्ध्व व्यावहारिक रूप से परमाणु संख्या A से स्वतंत्र पाई जाती है।


कारण (R) : परमाणु बल लंबी दूरी का होता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

- (1) अभिकथन सही है, कारण सही है; कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
- (2) अभिकथन सही है, कारण सही है; कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) अभिकथन सही है, कारण गलत है।
- (4) अभिकथन गलत है, कारण गलत है।

43. As shown below, bob A of a pendulum having massless string of length 'R' is released from 60° to the vertical. It hits another bob B of half the mass that is at rest on a friction less table in the centre. Assuming elastic collision, the magnitude of the velocity of bob A after the collision will be (take g as acceleration due to gravity)



- (1) $\frac{1}{3}\sqrt{Rg}$
- (2) \sqrt{Rg}
- (3) $\frac{4}{3}\sqrt{Rg}$
- (4) $\frac{2}{3}\sqrt{Rg}$



For the circuit shown above, equivalent GATE is:

- (1) OR gate
- (2) NOT gate
- (3) AND gate
- (4) NAND gate

45. Given below are two statements. One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) : The binding energy per nucleon is found to be practically independent of the atomic number A, for nuclei with mass numbers between 30 and 170.

Reason (R) : Nuclear force is long range. In the light of the above statements,

choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A) is false but (R) is true
- (2) (A) is true but (R) is false
- (3) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (4) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

TOPIC : FULL SYLLABUS

Atomic Masses : H=1, He=4, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, P=31, S=32, Cl=35.5, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=63.5, Br=80, Ag=108, I=127, Ba=137, Au=197, Pb=207

46. नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

कथन (A) :


दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स की सान्द्रता में कमी के साथ मोलर चालकता बढ़ती है।

कारण (R) :

तनुता के कारण आयनों की संख्या बढ़ती है और प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें :

- (1) कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।
- (2) कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) कथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है।
- (4) दोनों कथन (A) और कारण (R) असत्य हैं।



- (1) n-ब्यूटेन
- (2) n-हेक्सेन
- (3) 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन
- (4) नियोपेन्टेन

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I:

नेफ्थलीन एक एरोमैटिक यौगिक है और 10π इलेक्ट्रॉन रखता है।

कथन II :

पिरीडीन हेट्रोसाईकिलिक एरोमैटिक यौगिक है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

46. Given below are two statements: one is labelled as Assertion(A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion(A) :


Molar conductivity increases with decrease in concentration for weak electrolytes.

Reason (R) :

No. of ions increases and No. of ions per unit volume decreases due to dilution.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

- (1) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
- (2) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).
- (3) Assertion (A) is true but Reason (R) is false.
- (4) Both Assertion (A) and Reason (R) are false



- (1) n- butane
- (2) n-hexane
- (3) 2,3-dimethyle butane
- (4) neopentane

48. Given below are two statements :

Statement I:

Nephthalene is an aromatic compound and has 10π electrons.

Statement II :

Pyridine is an heterocyclic aromatic compound .

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
- (4) Both Statement I and Statement II are correct.


- 49.** राउल्ट के नियम से नकारात्मक विचलन दर्शाने वाला मिश्रण है:
- हेक्सेन + हेप्टेन
 - बैंजीन + टाल्वीन
 - जल + एथेनॉल
 - नाइट्रिक अम्ल + जल
- 50.** NaOH के साथ चार अम्ल A, B, C और D के उदासीनीकरण की एन्थेलपी क्रमशः -10.5, -13.7, -5.9 और -12.7 kcal eq⁻¹ है। A, B, C और D में प्रबल अम्ल है :
- C
 - A
 - D
 - B
- 51.** कॉलम I में दिए गए यौगिकों को कॉलम II में उनके द्वारा दी गई अभिक्रियाओं के नाम से मिलान करं और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें :
- | कॉलम I | कॉलम II |
|------------------|-----------------------------|
| a. फिनाल | (i) एटार्ड |
| b. एसीटिक अम्ल | (ii) कैनीजारो |
| c. फार्मेलिडहाइड | (iii) रीमर-टीमैन |
| d. टाल्वीन | (iv) हेल वाल्हार्ड जेलिस्की |
- a(iii), b(i), c(ii), d(iv)
 - a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
 - a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
 - a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
- 52.** निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में उत्पाद (D) की पहचान करें:
-
- 53.** निम्नलिखित में से क्रमशः प्रबल अपचायक और आक्सीकारक है:
- Ce⁴⁺ और Eu²⁺
 - Eu²⁺ और Ce⁴⁺
 - Ce³⁺ और Ce⁴⁺
 - Ce⁴⁺ और Tb⁴⁺
- 49. A mixture showing negative deviation from Raoult's law is:**
- Hexane + Heptane
 - Benzene + Toluene
 - Water + Ethanol
 - Nitric acid + Water
- 50. Enthalpy of neutralisation of four acids A, B, C and D with NaOH are -10.5, -13.7, -5.9 and -12.7 kcal eq⁻¹ respectively. Out of A, B, C and D the strongest acid is:**
- C
 - A
 - D
 - B
- 51. Match the compounds given in column I with the name reactions given by them in column II and select the correct option given below:**
- | Column I | Column II |
|-----------------|----------------------------|
| a. Phenol | (i) Etard |
| b. Acetic acid | (ii) Cannizzaro |
| c. Formaldehyde | (iii) Reimer-Tiemann |
| d. Toluene | (iv) Hell-Volhard Zelinsky |
- a(iii), b(i), c(ii), d(iv)
 - a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
 - a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
 - a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
- 52. Identify the product (D) in the following reaction sequence:**
-
- 53. Strong reducing and oxidizing agents among the following, respectively, are :**
- Ce⁴⁺ and Eu²⁺
 - Eu²⁺ and Ce⁴⁺
 - Ce³⁺ and Ce⁴⁺
 - Ce⁴⁺ and Tb⁴⁺

<p>54. नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।</p> <p>कथन (A) :</p> <p>Mn³⁺/Mn²⁺ युग्म के लिए, E° मान Cr³⁺/Cr²⁺ या Fe³⁺/Fe²⁺ के E° मान की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक है।</p> <p>कारण (R) :</p> <p>Cr और Fe की तुलना में Mn में तीसरी आयनीकरण ऊर्जा का मान अधिक होता है।</p> <p>उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें :</p> <ol style="list-style-type: none"> कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। कथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है। दोनों कथन (A) और कारण (R) असत्य हैं। <p>55. नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।</p> <p>कथन (A) :</p> <p>p-ब्लॉक में, जब समूह में नीचे जाते हैं तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिरता बढ़ जाती है।</p> <p>कारण (R) :</p> <p>d-ब्लॉक में, जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिरता बढ़ जाती है।</p> <p>उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें :</p> <ol style="list-style-type: none"> कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। कथन (A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है। दोनों कथन (A) और कारण (R) असत्य हैं। <p>56. निम्न में से कौन प्रकृति में आन्तरिक आर्बिटल संकरित आयन व प्रतिचुम्बकीय दोनों है</p> <ol style="list-style-type: none"> [Cr(NH₃)₆]³⁺ [Co(NH₃)₆]³⁺ [Ni(NH₃)₆]²⁺ [Zn(NH₃)₆]²⁺ <p>57. सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें 95% H₂SO₄ भार युक्त है जिसका घनत्व (d = 1.834 g cm⁻³) है मोलरता होगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.44 M 8.88 M 13.32 M 17.78 M 	<p>54. Given below are two statements: one is labelled as Assertion(A) and the other is labelled as Reason (R).</p> <p>Assertion(A) :</p> <p>E° value for Mn³⁺/Mn²⁺ couple is much more positive than that of E° value for Cr³⁺/Cr²⁺ or Fe³⁺/Fe²⁺.</p> <p>Reason (R) :</p> <p>Mn have very high value of 3rd ionization energy in comparison to Cr and Fe.</p> <p>In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:</p> <ol style="list-style-type: none"> Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A). Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A). Assertion (A) is true but Reason (R) is false. Both Assertion (A) and Reason (R) are false <p>55. Given below are two statements: one is labelled as Assertion(A) and the other is labelled as Reason (R).</p> <p>Assertion(A) :</p> <p>In p-block, when we move down in group, stability of highest oxidation state decreases.</p> <p>Reason (R) :</p> <p>In d-block, when we move down in group, stability of highest oxidation state increases.</p> <p>In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:</p> <ol style="list-style-type: none"> Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A). Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A). Assertion (A) is true but Reason (R) is false. Both Assertion (A) and Reason (R) are false <p>56. Which one of the following is an inner orbital complex as well as diamagnetic in nature :</p> <ol style="list-style-type: none"> [Cr(NH₃)₆]³⁺ [Co(NH₃)₆]³⁺ [Ni(NH₃)₆]²⁺ [Zn(NH₃)₆]²⁺ <p>57. The molarity of concentrated sulphuric acid (d = 1.834 g cm⁻³) containing 95% of H₂SO₄ by mass is</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.44 M 8.88 M 13.32 M 17.78 M
---	---

<p>63. $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$, $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$, $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$-स्पीसीज में Ni की संकरण क्रमशः है :</p>	<p>63. Among $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$, $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$, $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$-species, the hybridisation states of the Ni is, respectively: (At. no. of Ni = 28) :</p>
<p>(1) sp^3, dsp^2, dsp^2 (2) sp^3, dsp^2, sp^3 (3) sp^3, sp^3, dsp^2 (4) dsp^2, sp^3, sp</p>	<p>(1) sp^3, dsp^2, dsp^2 (2) sp^3, dsp^2, sp^3 (3) sp^3, sp^3, dsp^2 (4) dsp^2, sp^3, sp</p>
<p>64. यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 25 है तो तत्व के डाइवैलैन्ट आयन के लिए चुम्बकीय आघूर्ण होगा :</p> <p>(1) 3.92 BM (2) 5.92 BM (3) 2.92 BM (4) 8.92 BM</p>	<p>64. Calculate the magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution. If its atomic number is 25 :</p> <p>(1) 3.92 BM (2) 5.92 BM (3) 2.92 BM (4) 8.92 BM</p>
<p>65. 10 g प्रति dm^3 यूरिया (m.w. = 60) का विलयन एक 5% अवाष्पशील विलेय के विलयन से समपरासरणी है। अवाष्पशील विलेय का अणुभार होगा :</p> <p>(1) 250 g mol^{-1} (2) 300 g mol^{-1} (3) 350 g mol^{-1} (4) 200 g mol^{-1}</p>	<p>65. A solution containing 10 g per dm^3 of urea (m.w. = 60) is isotonic with a 5% solution of a non-volatile solute. The molecular mass of this non-volatile solute is :</p> <p>(1) 250 g mol^{-1} (2) 300 g mol^{-1} (3) 350 g mol^{-1} (4) 200 g mol^{-1}</p>
<p>66. वह यौगिक जो नीला रंग नाइट्रोजन के लिए लेसाइग्ने परीक्षण नहीं देता है :</p> <p>(1) एनीलीन (2) ग्लाइसीन (3) हाइड्राजीन (4) यूरिया</p>	<p>66. The compound that does not give a blue colour in Lassaigne's test for nitrogen is :</p> <p>(1) Aniline (2) Glycine (3) Hydrazine (4) Urea</p>
<p>67. फेस और मर - समावयवता प्रदर्शित करने वाला सह संयोजक यौगिक है :</p> <p>(1) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2 \text{Cl}_2]$ (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3 (\text{NO}_2)_3]$ (3) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4 \text{Cl}_2]^+$ (4) $[\text{Co Cl}_2 (\text{en})_2]$</p>	<p>67. The complex that can show fac - and Mer - isomer is :</p> <p>(1) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2 \text{Cl}_2]$ (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3 (\text{NO}_2)_3]$ (3) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4 \text{Cl}_2]^+$ (4) $[\text{Co Cl}_2 (\text{en})_2]$</p>
<p>68. इलेक्ट्रोड क्षमता के लिए $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}^+_{(\text{aq})}$ और $\text{Cu}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$, +0.15 V और +0.50 V क्रमशः है। $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ}$ का मान होगा :</p> <p>(1) 0.50 V (2) 0.325 V (3) 0.650 V (4) 0.150 V</p>	<p>68. The electrode potential for $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}^+_{(\text{aq})}$ and $\text{Cu}^+_{(\text{aq})} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$ are +0.15 V and +0.50 V respectively. The value of $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ}$ will be :</p> <p>(1) 0.50 V (2) 0.325 V (3) 0.650 V (4) 0.150 V</p>

<p>69. लवण M_2X_3 की विलेयता y मोल डेसीमीटर$^{-3}$ है। लवण हेतु विलेयता गुणनफल है :</p>	<p>69. Solubility of a salt M_2X_3 in y mol dm$^{-3}$. The solubility product of the salt will be:</p>
<p>(1) $6y^4$ (2) $64y^4$ (3) $36y^5$ (4) $108y^5$</p>	<p>(1) $6y^4$ (2) $64y^4$ (3) $36y^5$ (4) $108y^5$</p>
<p>70. दिए गए समीकरणों से अभिक्रिया $C_{\text{graphite}} + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$ हेतु 298 K पर $\Delta_f H^\circ$ का मान होगा : $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2(g)$: $\Delta_f H^\circ = -393.5 \text{ kJ/mol}$</p>	<p>70. Given $C_{\text{graphite}} + O_2 \rightarrow CO_2(g)$: $\Delta_f H^\circ = -393.5 \text{ kJ/mol}$</p>
$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta_f H^\circ = -285.8 \text{ kJ/mol}$ $CO_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow CH_4(g) + 2O_2(g)$: $\Delta_f H^\circ = +890.3 \text{ kJ mol}^{-1}$	$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta_f H^\circ = -285.8 \text{ kJ/mol}$ $CO_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow CH_4(g) + 2O_2(g)$: $\Delta_f H^\circ = +890.3 \text{ kJ mol}^{-1}$
<p>दिए समीरकण के आधार पर 298 K पर अभिक्रिया $\Delta_f H^\circ$ है</p> $C_{\text{(graphite)}} + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$ <ul style="list-style-type: none"> (1) $+144.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ (2) $-74.8 \text{ kJ mol}^{-1}$ (3) $-144.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ (4) $+74.8 \text{ kJ mol}^{-1}$ 	<p>Based on the above thermochemical equations, the value of $\Delta_f H^\circ$ at 298 K for the reaction $C_{\text{(graphite)}} + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$ will be :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) $+144.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ (2) $-74.8 \text{ kJ mol}^{-1}$ (3) $-144.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ (4) $+74.8 \text{ kJ mol}^{-1}$
<p>71. आयन के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है :</p> <ul style="list-style-type: none"> I. $CH_3 - \overset{+}{CH} - CH_3$ II. $CH_3 - \overset{+}{CH} - OCH_3$ III. $CH_3 - \overset{+}{CH} - COCH_3$ <ul style="list-style-type: none"> (1) I > II > III (2) III > II > I (3) II > III > I (4) II > I > III 	<p>71. The decreasing order of the stability of the ions</p> <ul style="list-style-type: none"> I. $CH_3 - \overset{+}{CH} - CH_3$ II. $CH_3 - \overset{+}{CH} - OCH_3$ III. $CH_3 - \overset{+}{CH} - COCH_3$ <ul style="list-style-type: none"> (1) I > II > III (2) III > II > I (3) II > III > I (4) II > I > III

72. दिये यौगिक का IUPAC नाम है :



- (1) 2-नाइट्रो-4-हाइड्रोक्सीमेथिल-5-एमीनो बैंजलिडहाइड
- (2) 5-एमीनो-4-हाइड्रोक्सीमेथिल-1-2-नाइट्रो बैंजलिडहाइड
- (3) 4-एमीनो-2-फर्मार्मिल-5-हाइड्रोक्सीमेथिल-नाइट्रो बैंजीन
- (4) 3-एमीनो-4-हाइड्रोक्सीमेथिल-1-5-नाइट्रो बैंजलिडहाइड

73. अणुओं की अधिकतम संख्या होगी :

- (1) CH_4 के 1.6 ग्राम में
- (2) CH_4 के 16 ग्राम में
- (3) CH_4 के 16 मोल में
- (4) CH_4 के 16 मिली.ग्राम में

74. प्रथम कोटि की अभिक्रिया 87.5 प्रतिशत पूर्ण होने में कितनी अर्द्धआयु पार कर लेगी?

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

75. यदि दी गयी अभिक्रिया हेतु E° सेल का मान ऋणात्मक है तो ΔG° व K_{eq} में सही सम्बन्ध है :

- (1) $\Delta G^\circ > 0$, $K_{\text{eq}} < 1$
- (2) $\Delta G^\circ > 0$, $K_{\text{eq}} > 0$
- (3) $\Delta G^\circ < 0$, $K_{\text{eq}} > 1$
- (4) $\Delta G^\circ < 0$, $K_{\text{eq}} < 1$


76. निम्नलिखित में से किस संकुल आयन में केन्द्रीय धातु आयन sp^3d^2 संकरण अवस्था में पाया जाता है।

- (1) $[\text{CoF}_6]^{3-}$
- (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
- (3) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
- (4) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

77. तीन अल्प विलेय लवण M_2X , MX व MX_3 के विलेयता गुणनफल समान है तो उनकी विलेयता का क्रम है :

- (1) $\text{MX}_3 > \text{MX} > \text{M}_2\text{X}$
- (2) $\text{MX} > \text{MX}_3 > \text{M}_2\text{X}$
- (3) $\text{MX} > \text{M}_2\text{X} > \text{MX}_3$
- (4) $\text{MX}_3 > \text{M}_2\text{X} > \text{MX}$

72. The IUPAC name of the following compounds is :



- (1) 2-nitro-4-hydroxymethyl-5-aminobenzaldehyde
- (2) 5-amino-4-hydroxymethyl-1-2-nitrobenzaldehyde
- (3) 4-amino-2-formyl-5-hydroxymethyl-nitrobenzene
- (4) 3-amino-4-hydroxymethyl-1-5-nitrobenzaldehyde

73. The maximum number of molecules are in :

- (1) 1.6 g of CH_4
- (2) 16 g of CH_4
- (3) 16 moles of CH_4
- (4) 16 mg of CH_4

74. In how many half lives a first order reaction is completed 87.5%.

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

75. If the E° cell for a given reaction has a negative value, which of the following gives the correct relationships for the value of ΔG° and K_{eq} :

- (1) $\Delta G^\circ > 0$, $K_{\text{eq}} < 1$
- (2) $\Delta G^\circ > 0$, $K_{\text{eq}} > 0$
- (3) $\Delta G^\circ < 0$, $K_{\text{eq}} > 1$
- (4) $\Delta G^\circ < 0$, $K_{\text{eq}} < 1$

76. In which of the following complex ion, the central metal ion is in a state of sp^3d^2 hybridisation :

- (1) $[\text{CoF}_6]^{3-}$
- (2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
- (3) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
- (4) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

77. Three sparingly soluble salts M_2X , MX and MX_3 have same value of solubility product. Their solubilities follows the order :

- (1) $\text{MX}_3 > \text{MX} > \text{M}_2\text{X}$
- (2) $\text{MX} > \text{MX}_3 > \text{M}_2\text{X}$
- (3) $\text{MX} > \text{M}_2\text{X} > \text{MX}_3$
- (4) $\text{MX}_3 > \text{M}_2\text{X} > \text{MX}$


<p>78. यौगिक A प्रबल आक्सीकारक है जो प्रकृति में उभयधर्मी है। ये लेड संग्रहित बैटरी का हिस्सा है। यौगिक A है :</p>	<p>78. Compound A used as strong oxidising agent is amphoteric in nature. It is the part of lead storage batteries. Compound A is :</p>																				
<ul style="list-style-type: none"> (1) PbO_2 (2) PbO (3) PbSO_4 (4) Pb_3O_4 	<ul style="list-style-type: none"> (1) PbO_2 (2) PbO (3) PbSO_4 (4) Pb_3O_4 																				
<p>79. सूची- I को सूची-II के साथ सुमेलित करें :</p>	<p>79. Match list- I with list-II</p>																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">सूची- I</th> <th style="text-align: center;">सूची- II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(A) $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$</td> <td style="text-align: center;">(i) 5.92 B.M.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(B) $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$</td> <td style="text-align: center;">(ii) 1.73 B.M.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(C) $[\text{FeF}_6]^{3-}$</td> <td style="text-align: center;">(iii) 0 B.M.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(D) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-}$</td> <td style="text-align: center;">(iv) 2.82 B.M.</td> </tr> </tbody> </table>	सूची- I	सूची- II	(A) $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$	(i) 5.92 B.M.	(B) $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$	(ii) 1.73 B.M.	(C) $[\text{FeF}_6]^{3-}$	(iii) 0 B.M.	(D) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-}$	(iv) 2.82 B.M.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">List- I</th> <th style="text-align: center;">List- II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(A) $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$</td> <td style="text-align: center;">(i) 5.92 B.M.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(B) $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$</td> <td style="text-align: center;">(ii) 1.73 B.M.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(C) $[\text{FeF}_6]^{3-}$</td> <td style="text-align: center;">(iii) 0 B.M.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(D) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-}$</td> <td style="text-align: center;">(iv) 2.82 B.M.</td> </tr> </tbody> </table>	List- I	List- II	(A) $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$	(i) 5.92 B.M.	(B) $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$	(ii) 1.73 B.M.	(C) $[\text{FeF}_6]^{3-}$	(iii) 0 B.M.	(D) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-}$	(iv) 2.82 B.M.
सूची- I	सूची- II																				
(A) $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$	(i) 5.92 B.M.																				
(B) $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$	(ii) 1.73 B.M.																				
(C) $[\text{FeF}_6]^{3-}$	(iii) 0 B.M.																				
(D) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-}$	(iv) 2.82 B.M.																				
List- I	List- II																				
(A) $[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-}$	(i) 5.92 B.M.																				
(B) $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$	(ii) 1.73 B.M.																				
(C) $[\text{FeF}_6]^{3-}$	(iii) 0 B.M.																				
(D) $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-}$	(iv) 2.82 B.M.																				
<p>दिये गये विकल्पों में सही उत्तर चुनिए :</p>	<p>Choose the correct answer from the options given below:</p>																				
<ul style="list-style-type: none"> (1) A-(iv), (B)-(iii), (C)- (i), (D)-(ii) (2) A-(iv), (B)-(iii), (C)- (ii), (D)-(i) (3) A-(iii), (B)-(iv), (C)- (i), (D)-(ii) (4) A-(i), (B)-(iii), (C)- (ii), (D)-(iv) 	<ul style="list-style-type: none"> (1) A-(iv), (B)-(iii), (C)- (i), (D)-(ii) (2) A-(iv), (B)-(iii), (C)- (ii), (D)-(i) (3) A-(iii), (B)-(iv), (C)- (i), (D)-(ii) (4) A-(i), (B)-(iii), (C)- (ii), (D)-(iv) 																				
<p>80. कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन रेडाक्स अभिक्रिया है :</p>	<p>80. Which of the following reaction is disproportionation redox reaction :</p>																				
<ul style="list-style-type: none"> (1) $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{g})$ (2) $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{s}) \rightarrow 2\text{PbO}(\text{g}) + 2\text{NO}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g})$ (3) $\text{NaH}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{NaOH}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ (4) $2\text{NO}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{NO}_2^-(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 	<ul style="list-style-type: none"> (1) $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{g})$ (2) $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{s}) \rightarrow 2\text{PbO}(\text{g}) + 2\text{NO}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g})$ (3) $\text{NaH}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{NaOH}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ (4) $2\text{NO}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{NO}_2^-(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 																				
<p>81. सही मिलान करें</p>	<p>81. Match List I and List II and pick out correct matching from a given choices :</p>																				
<p>लिस्ट I (यौगिक) लिस्ट II (संरचना)</p>	<p>List I (Compound) List II (Structure)</p>																				
<ul style="list-style-type: none"> a. ClF_3 b. PCl_5 c. IF_5 d. CCl_4 e. XeF_4 	<ul style="list-style-type: none"> i. वर्ग समतल ii. समचुण्डलीय iii. त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय iv. वर्ग द्विपिरामिडीय v. T-आकार 																				
<ul style="list-style-type: none"> (1) a-v, b-iv, c-iii, d-i, e-ii (2) a-v, b-iii, c-iv, d-ii, e-i (3) a-iv, b-iii, c-v, d-ii, e-i (4) a-iii, b-iv, c-i, d-v, e-i 	<ul style="list-style-type: none"> (1) a-v, b-iv, c-iii, d-i, e-ii (2) a-v, b-iii, c-iv, d-ii, e-i (3) a-iv, b-iii, c-v, d-ii, e-i (4) a-iii, b-iv, c-i, d-v, e-i 																				

82. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ अभिक्रिया के लिए

अगर $\frac{d[NH_3]}{dt} = 3 \times 10^{-4}$ मोल ली⁻¹ $\frac{-d[N_2]}{dt}$ का मान होगा:

- (1) 4×10^{-4} mol L⁻¹ s⁻¹
- (2) 6×10^{-4} mol L⁻¹ s⁻¹
- (3) 1.5×10^{-4} mol L⁻¹ s⁻¹
- (4) 3×10^{-4} mol L⁻¹ s⁻¹

83. अभिक्रिया में :



निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है :

- (1) $CH_3 - CH - CH_3 + CH_3CH_2OH$
|
CH₃
- (2) $CH_3 - CH - CH_2OH + CH_3CH_3$
|
CH₃
- (3) $CH_3 - CH - CH_2OH + CH_3CH_2I$
|
CH₃
- (4) $CH_3 - CH - CH_2 - I + CH_3CH_2OH$
|
CH₃

84. इस क्रिया के लिए सही सम्बन्ध है :



$$(1) \frac{d[Br_2]}{dt} = \frac{4d[H_2O]}{dt}$$

$$(2) -\frac{d[Br^-]}{dt} = \frac{-5}{6} \frac{d[H^+]}{dt}$$

$$(3) -\frac{d[H^+]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[Br_2]}{dt}$$

$$(4) -\frac{d[BrO_3^-]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[H_2O]}{dt}$$

85. कथन-I : कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तनु घोल से हाइड्रोजन मुक्त करता है।

कथन-II : विद्युत रसायनिक श्रृखंला में हाइड्रोजन तांबे से नीचे है।


- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

82. For the reaction, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, if :

$\frac{d[NH_3]}{dt} = 3 \times 10^{-4}$ mol L⁻¹, the value of $\frac{-d[N_2]}{dt}$ would be :

- (1) 4×10^{-4} mol L⁻¹ s⁻¹
- (2) 6×10^{-4} mol L⁻¹ s⁻¹
- (3) 1.5×10^{-4} mol L⁻¹ s⁻¹
- (4) 3×10^{-4} mol L⁻¹ s⁻¹

83. In the reaction :



which of the following compounds will be formed

- (1) $CH_3 - CH - CH_3 + CH_3CH_2OH$
|
CH₃
- (2) $CH_3 - CH - CH_2OH + CH_3CH_3$
|
CH₃
- (3) $CH_3 - CH - CH_2OH + CH_3CH_2I$
|
CH₃
- (4) $CH_3 - CH - CH_2 - I + CH_3CH_2OH$
|
CH₃

84. For reaction



The correct relation is :

$$(1) \frac{d[Br_2]}{dt} = \frac{4d[H_2O]}{dt}$$

$$(2) -\frac{d[Br^-]}{dt} = \frac{-5}{6} \frac{d[H^+]}{dt}$$

$$(3) -\frac{d[H^+]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[Br_2]}{dt}$$

$$(4) -\frac{d[BrO_3^-]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[H_2O]}{dt}$$

85. Statement-I : Copper liberates hydrogen from a dilute solution of hydrochloric acid

Statement-II : Hydrogen is below copper in the electrochemical series.

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect
- (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect
- (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
- (4) Both Statement I and Statement II are correct.



86. KMnO_4 ऑक्सिलिक अम्ल के साथ समीकरण अनुसार अभिक्रिया करता है :
- $$2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$$
- यहां, 0.1 M KMnO_4 का 20 mL बराबर है :
- 120 mL का 0.25 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
 - 150 mL का 0.1 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
 - 50 mL का 0.1 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
 - 50 mL का 0.2 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
87. यदि साम्यावस्था पर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रिक आक्साइड गैस की सान्द्रता 3.0×10^{-3} M, 4.2×10^{-3} M और 2.8×10^{-3} M क्रमशः हैं। बन्द पात्र में निम्न अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का मान होगा :
- $$\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$$
- 1.732
 - 0.622
 - 0.335
 - 0.104
88. Λ_m^∞ , NaCl , HCl और NaA के लिए क्रमशः 126.4, 425.9 और $100.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ यदि 0.001 M HA की चालकता $5 \times 10^{-5} \text{ Scm}^{-1}$ है, तो HA के विघटन की डिग्री क्या है?
- 0.25
 - 0.50
 - 0.75
 - 0.125
89. कॉलम I को कॉलम II से मिलाए और दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने
- | कॉलम I | कॉलम II |
|-----------------------------|--------------------------|
| A. 3d-संक्रमण शृंखला | 1. सिरियम ($Z = 58$) |
| B. 4d-संक्रमण शृंखला | 2. एकिटनियम ($Z = 89$) |
| C. 4f-आंतरिक संक्रमण शृंखला | 3. जिंक ($Z = 30$) |
| D. 5f-आंतरिक संक्रमण शृंखला | 4. येट्रियम ($Z = 39$) |
- Code**
- | A | B | C | D |
|-------|---|---|---|
| (1) 1 | 2 | 3 | 4 |
| (2) 1 | 2 | 4 | 3 |
| (3) 3 | 4 | 2 | 1 |
| (4) 3 | 4 | 1 | 2 |
90. साबुन उद्योग में ग्लिसरॉल को स्पैट लाई से अलग किया जा सकता है :
- क्रोमैटोग्राफी
 - उर्ध्वपातन
 - आर्शिक आसवन
 - कम दबाव में आसवन
86. KMnO_4 reacts with oxalic acid according to the equation,
- $$2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$$
- Here, 20 mL of 0.1 M KMnO_4 is equivalent to :
- 120 mL of 0.25 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
 - 150 mL of 0.1 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
 - 50 mL of 0.1 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
 - 50 mL of 0.2 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
87. At equilibrium, the concentration of $\text{N}_2 = 3.0 \times 10^{-3}$ M, $\text{O}_2 = 4.2 \times 10^{-3}$ M and $\text{NO} = 2.8 \times 10^{-3}$ M in a sealed vessel at 800 K. Value of K_c will be :
- $$\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$$
- 1.732
 - 0.622
 - 0.335
 - 0.104
88. Λ_m^∞ for NaCl , HCl and NaA are 126.4, 425.9 and $100.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively. If the conductivity of 0.001 M HA is $5 \times 10^{-5} \text{ Scm}^{-1}$, degree of dissociation of HA is
- 0.25
 - 0.50
 - 0.75
 - 0.125
89. Match the Column I with Column II and select the correct answer using given codes.
- | Column I | Column II |
|-------------------------------|--------------------------|
| A. 3d-transition series | 1. Cerium ($Z = 58$) |
| B. 4d-transition series | 2. Actinium ($Z = 89$) |
| C. 4f-inner transition series | 3. Zinc ($Z = 30$) |
| D. 5f-inner transition series | 4. Yttrium ($Z = 39$) |
- Code**
- | A | B | C | D |
|-------|---|---|---|
| (1) 1 | 2 | 3 | 4 |
| (2) 1 | 2 | 4 | 3 |
| (3) 3 | 4 | 2 | 1 |
| (4) 3 | 4 | 1 | 2 |
90. Glycerol can be separated from spent-lye in soap industry by :
- chromatography
 - sublimation
 - fractional distillation
 - distillation under reduced pressure

TOPIC : FULL SYLLABUS

91. सूची -I के साथ सूची-II को सुमेलित करें:

सूची -I	सूची -II
a. सिड्ड्रस	(i) टेरिडोफाइट
b. एडिएन्टम	(ii) जिम्नोस्पर्म
c. स्फेगनम	(iii) लिवरवर्ट
d. मारकेन्शिया	(iv) मॉस

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें

a	b	c	d
(1) (ii)	(iii)	(i)	(iv)
(2) (iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3) (ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4) (iii)	(iv)	(ii)	(i)

92. प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद है:

- (1) ATP, NADPH और O₂
- (2) ATP, NADPH, O₂ और H₂O
- (3) ATP, NADPH , और H₂O
- (4) ATP, NADPH , और CO₂

93. अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था I में, गुणसूत्र के एक साथ युग्मन और साइनेप्सिस घटित होता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था के दौरान होती है :

- (1) पैकीटीन
- (2) डिप्लोटीन
- (3) लेप्टोटीन
- (4) जाइगोटीन

94. पुष्प में पुमंग के सम्बन्ध में सही कथनों की पहचान करें:

- a. अप्रजायी पुंकेशर स्टेमिनोड कहलाता है।
- b. जब पुंकेशर पेटल्स से जुड़ता है। ये इपीपेटल्स कहलाते हैं।
- c. मोनोएडेल्फस गुड्हल में देखा जाता है।
- d. पॉलीएडेल्फस मटर में देखी जाती है।
- e. सरसों में तन्तु की लम्बाई में विभिन्नता देखने को मिलती है।

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें

- (1) केवल (a), (c), (d) और (e)
- (2) केवल (a) , (b), (c) और (e)
- (3) केवल (a) , (b) और (c)
- (4) केवल (b) , (c) और (d)

91. Match List -I with List-II :

List - I	List - II
a. Cedrus	(i) Pteridophyte
b. Adiantum	(ii) Gymnosperm
c. Sphagnum	(iii) Liverwort
d. Marchantia	(iv) Moss

Choose the correct answer from the options given below:

a	b	c	d
(1) (ii)	(iii)	(i)	(iv)
(2) (iii)	(i)	(iv)	(ii)
(3) (ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4) (iii)	(iv)	(ii)	(i)

92. The products of light reaction in photosynthesis are :

- (1) ATP, NADPH and O₂
- (2) ATP, NADPH, O₂ and H₂O
- (3) ATP, NADPH , and H₂O
- (4) ATP, NADPH , and CO₂

93. In prophase I of Meiosis, chromosomes start pairing together and synapsis takes place. This process occurs during which of the following stage:

- (1) Pachytene
- (2) Diplotene
- (3) Leptotene
- (4) Zygote

94. Identify the correct statements related to the androecium in the flower

- a. The sterile stamens are called staminodes
- b. When stamens are attached to petals they are called epipetalous
- c. Monoadelphous is seen in China-rose
- d. Polyadelphous is seen in Pea
- e. Variation in the length of filaments is seen in Mustard

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) (a), (c), (d) and (e) only
- (2) (a) , (b), (c) and (e) only
- (3) (a) , (b) and (c) only
- (4) (b) , (c) and (d) only

<p>95. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसाध्य विसरण के लिए गलत है ?</p> <p>(1) डिल्ली की विशेष प्रोटीन्स इस प्रक्रिया में सहायता करती है।</p> <p>(2) अणुओं का चलन सान्द्रता प्रवणता के ही दिशा में पाया जाता है।</p> <p>(3) अणुओं का चलन सान्द्रता प्रवणता के विपरीत पाया जाता है।</p> <p>(4) ATP इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है।</p> <p>96. ह्यूमस के गुणों के सन्दर्भ में सही कथन के समूह की पहचान करें:</p> <p>(a) सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए अत्याधिक प्रतिरोधी होता है</p> <p>(b) गहरे—रंग के एमॉरफस पदार्थ</p> <p>(c) अपरद खाद्य श्रृंखला का अन्तिम उत्पाद</p> <p>(d) पोषक तत्वों का भण्डार</p> <p>(e) अपघटन में बहुत तेजी से जाता है।</p> <p>दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें</p> <p>(1) केवल (a), (b) और (d)</p> <p>(2) केवल (a),(b) and (e)</p> <p>(3) केवल (a) और (b)</p> <p>(4) केवल (b) , (c) और (a)</p> <p>97. बहुप्रभाविता के सन्दर्भ में सही कथन का चयन करें:</p> <p>(a) एक जीन को बहुप्रभावी कहेंगे अगर यह एक से ज्यादा विशेषक को प्रभावित करती है।</p> <p>(b) फिनाइलकीटोन्यूरिया एक बहुप्रभाविता का उदाहरण है।</p> <p>(c) एक अवस्था जहाँ एक के पास बहुत सारे एलील्स होते हैं बहुप्रभाविता कहलाती है।</p> <p>(d) एक विशेषक को बहुप्रभावी कहा जाता है अगर बहुत सारे जीन को यह नियन्त्रित करता है।</p> <p>दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें</p> <p>(1) केवल (a) और (b)</p> <p>(2) केवल (a) और (d)</p> <p>(3) केवल (a), (b) और (c)</p> <p>(4) केवल (b) ,(c) और (d)</p>	<p>95. Which of the following statements about facilitated diffusion is incorrect :</p> <p>(1) Special proteins of the membrane help in this process</p> <p>(2) Movement of molecule are the occurs along the concentration gradient</p> <p>(3) Movement of molecule are the occurs against the concentration gradient</p> <p>(4) ATP is not required for this process</p> <p>96. Identify the correct set of statements with regard to properties of humus</p> <p>(a) Highly resistant to microbial action</p> <p>(b) Dark-colored amorphous substance</p> <p>(c) End product of detritus food chain</p> <p>(d) Reservoir of nutrients</p> <p>(e) Undergoes decomposition very fast</p> <p>Choose the correct answer from the options given below:</p> <p>(1) (a), (b) and (d) only</p> <p>(2) (a),(b) and (e) only</p> <p>(3) (a) and (b) only</p> <p>(4) (b) , (c) and (a)</p> <p>97. Select the correct statements with respect to pleiotropism</p> <p>(a) A gene is said to be pleiotropy if it affects more than one trait</p> <p>(b) Phenylketonuria is an example of pleiotropy</p> <p>(c) A condition where one gene has several alleles is referred to as pleiotropism</p> <p>(d) A trait is said to be pleiotropic if several genes control it</p> <p>Choose the correct answer from the options given below:</p> <p>(1) (a) and (b) only</p> <p>(2) (a) and (d) only</p> <p>(3) (a), (b) and (c) only</p> <p>(4) (b) ,(c) and (d) only</p>
--	---

- 98.** जीवित विभेदित कोशिकाएँ जो कि अब और विभाजित होने की क्षमता को खो चुकी है, कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है। यह घटना कहलाती है :
- (1) पुनः विभेदन
 - (2) परिपक्वन
 - (3) विभेदन
 - (4) निर्विभेदन
- 99.** सही अनुरूपता का चयन करें
- | | |
|-----------------|-------------------|
| A. नीबू धास तेल | I. बहुलकीय पदार्थ |
| B. रबर | II. टरपीनॉएड |
| C. डाइटरपीन्स | III. आवश्यक तेल |
| D. कैरोटीनॉएड | IV. ड्रग्स |
- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
 - (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
 - (3) A-IV, B-II, C-III, D-I
 - (4) A-II, B-III, C-I, D-IV
- 100.** निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदण्ड आनुवंशिक पदार्थ का नहीं है :
- (1) इनमें विकास के लिए परिवर्तन की सम्भावनाएं नहीं होनी चाहिए।
 - (2) इसे स्वयं मेण्डल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए।
 - (3) अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए।
 - (4) रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए।
- 101.** नीचे दिए गए दो कथन हैं :
- कथन - I :
- 
- एक प्रकार का WBC और भक्षक कोशिका
- कथन - II :
- 
- एक प्रकार का WBC और रक्त के स्कन्दन में सहायता करता है।
- नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें
- (1) दोनों कथन। और कथन II गलत है।
 - (2) कथन I सही परन्तु कथन II गलत है।
 - (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
 - (4) दोनों कथन। और कथन II सही है।
- 98.** The living differentiated cells, that lost the capacity to divide any more, can regain the capacity of division under certain conditions. This Phenomenon is termed as :
- (1) Redifferentiation
 - (2) Maturation
 - (3) Differentiation
 - (4) Dedifferentiation
- 99.** Select the correct match
- | | |
|---------------------|------------------------|
| A. Lemon gross oils | I. Polymeric substance |
| B. Rubber | II. Terpenoids |
| C. Diterpene | III. Essential oils |
| D. Carotenoids | IV. Drugs |
- (1) A-III, B-I, C-II, D-IV
 - (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
 - (3) A-IV, B-II, C-III, D-I
 - (4) A-II, B-III, C-I, D-IV
- 100.** Which one of the following is not a criterion of genetic material :
- (1) Should not provide the scope for changes for evolution
 - (2) Should be able to express itself in the form of Mendelian character
 - (3) Should be able to generate its replica
 - (4) Should be stable chemically and structurally
- 101.** Given below are two statements
- Statement I:**
- 
- A type of WBC and phagocytic cell
- Statement II:**
- 
- A type of WBC and help in blood clotting.
- Choose the correct answer from the option given below:**
- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect
 - (2) Statement I is correct but Statement II is incorrect
 - (3) Statement I is incorrect but Statement II is correct
 - (4) Both Statement I and Statement II are correct

- | | |
|--|---|
| <p>102. निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग जीवाणुवीय रूपान्तरण की खोज के परिणाम के रूप में निकलकर आया?</p> <ol style="list-style-type: none"> S-स्ट्रेन(ताप से मृत) → चूहे में इन्जेक्टेड → चूहा जीवित S-स्ट्रेन(ताप से मृत) + R-स्ट्रेन जीवित → चूहे में इन्जेक्टेड → चूहा जीवित S-स्ट्रेन → चूहे में इन्जेक्टेड → चूहा मृत R-स्ट्रेन → चूहे में इन्जेक्टेड → चूहा जीवित | <p>102. Which one of the following experiments of Frederick Griffith resulted in the discovery of bacterial transformation :</p> <ol style="list-style-type: none"> S-strain(heat-killed) → injected into Mice → Mice lived S-strain (heat killed) + R-strain(live) → injected into Mice → Mice died S-stain → injected into Mice → Mice died R-strain → injected into Mice → Mice lived |
| <p>103. निम्नलिखित में से कौन 'खराब चौकड़ी' के अन्तर्गत आता है :</p> <ol style="list-style-type: none"> आवासीय क्षति और विखण्डन अति-दोहन विदेशी जांति आक्रमण मृत्युदर स्पर्धा | <p>103. Which of the following come under the "EvilQuartet :</p> <ol style="list-style-type: none"> Habitat loss and fragmentation Over-exploitation Alien species invasion Mortality Competition |
| <p>दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a), (c) और (d) (b), (c) और (d) (a), (b) और (c) (a), (d) और (e) | <p>Choose the correct answer from the options given below:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a), (c) and (d) (b), (c) and (d) (a), (b) and (c) (a), (d) and (e) |
| <p>104. नीचे दो कथन दिए गए हैं :</p> <p>कथन I :
सेलुलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसैक्रेइड्स है</p> <p>कथन II :
सेलुलोज का मूलभूत अंग ग्लूकोज अणु होता है।</p> <p>उपरोक्त कथनों के संर्दर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :</p> <ol style="list-style-type: none"> कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है। कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है। कथन I और कथन II दोनों सही हैं। कथन I और कथन II दोनों गलत हैं। | <p>104. Given below are two statements:</p> <p>Statements-I:
Cellulose is a polymeric polysaccharide</p> <p>Statement-II :
The building blocks of cellulose are glucose molecules.</p> <p>In the light of the above statements , choose the correct answer from the options given below:</p> <ol style="list-style-type: none"> Statements-I is correct but statements-II is incorrect Statements-I is incorrect but statements-II is correct Both statements-I and statements-II are correct Both statements-I and Statements -II incorrect |
| <p>105. नीचे दिए गए दो कथन हैं :</p> <p>कथन - I :
जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधिस्थल है।</p> <p>कथन - II :
जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। जहाँ जोड़ आलम्ब का कार्य करते हैं।</p> <p>नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें</p> <ol style="list-style-type: none"> दोनों कथन I और कथन II गलत हैं। कथन I सही परन्तु कथन II गलत है। कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है। दोनों कथन I और कथन II सही हैं। | <p>105. Given below are two statements</p> <p>Statement I :
Joints are points of contact between bones or between bones and cartilages.</p> <p>Statement II :
Force generated by the muscles is used to carry out movement through joints, where the joint act as a fulcrum.</p> <p>Choose the correct answer from the option given below:</p> <ol style="list-style-type: none"> Both Statement I and Statement II are incorrect Statement I is correct but Statement II is incorrect Statement I is incorrect but Statement II is correct Both Statement I and Statement II are correct |

106. निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन (A) से और दूसरा कारण (R) से लेबल्ड है

अभिकथन (A) : बहुकोशकीय जीव की वृद्धि समसूत्री विभाजन के कारण होती है।

कारण (R) : समसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं और यह आनुवंशिक स्थायित्व का प्रयास करती है।

- (1) (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है
- (2) (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है
- (3) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (4) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) का सही व्याख्यान नहीं करता है।

107. अक्षीय कलियाँ किसकी सक्रियता के कारण व्युत्पन्न होती हैं :

- (1) पाश्वीय विभज्योतक
- (2) द्वितीयक विभज्योतक
- (3) शीर्ष विभज्योतक
- (4) अन्तर्वेशी विभज्योतक

108. उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कही और चले गये हैं जाने जाते हैं :

- | | |
|-------------|----------------|
| (1) सम्बन्ध | (2) उत्प्रवासन |
| (3) स्पर्धा | (4) आप्रवासन |

109. सूची I के साथ सूची II को सुमेलित करें:

- | सूची I | सूची II |
|----------------------------|---|
| (a) हिमोफीलिया | (i) जन्मजात उपापचय त्रुटि जिसमें एन्जाइम का अभाव होता है जोकि फिनाइल एलानीन को टाइरोसीन में बदलता है। |
| (b) डाउन सिन्ड्रोम | (ii) लिंग—लग्न अप्रभावी विकार, रक्त स्कन्दन में खराबी |
| (c) फिनाइल कीटोनूरिया | (iii) X-गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रतिलिपि की उपस्थिति |
| (d) क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम | (iv) गुणसूत्र संख्या 21 की अतिरिक्त प्रतिलिपि |

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|----------|-------|-------|-------|
| (1) (ii) | (iv) | (i) | (iii) |
| (2) (iv) | (ii) | (i) | (iii) |
| (3) (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
| (4) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |

106. Given below are two statements : One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R)

Assertion (A): The growth of multicellular organism is due to mitosis

Reason (R) Mitosis is also called as reductional division and it offers genetic stability

In the light of the above statements choose the correct answer from the options given below :

- (1) (A) is correct but (R) is not correct
- (2) (A) is not correct but (R) is correct
- (3) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
- (4) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

107. Axillary buds are derived from the activity of :

- (1) Lateral meristem
- (2) Secondary meristem
- (3) Apical meristem
- (4) Intercalary meristem

108. The process of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration is referred as::

- (1) Association
- (2) Emigration
- (3) Competition
- (4) Immigration

109. Match List-I with List-II :

List-I	List-II
(a) Haemophilia	(i) Inborn error of metabolism which lacks an enzyme that converts phenylalanine into tyrosine
(b) Down's Syndrome	(ii) Sex-linked recessive disorder defect in blood coagulation
(c) Phenylketonuria	(iii) Presence of additional copy of X-chromosome (44+XXY)
(d) Klinefelter's Syndrome	(iv) Additional copy of chromosome number 21

Choose the correct answer from the options given below:

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|----------|-------|-------|-------|
| (1) (ii) | (iv) | (i) | (iii) |
| (2) (iv) | (ii) | (i) | (iii) |
| (3) (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
| (4) (i) | (ii) | (iii) | (iv) |

<p>110. मनुष्य के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिक इन्सुलिन का निर्माण किससे होता है :</p> <ol style="list-style-type: none"> इस्चेरेचिया कोलाई स्युडोमोनास पुटीडा बैसिलस थुरिनजिएन्सीस राइजोबियम मेलीलोटी 	<p>110. Genetically engineered insulin for human is produced from :</p> <ol style="list-style-type: none"> Escherichia coli Pseudomonas putida Bacillus thuringiensis Rhizobium meliloti 																																								
<p>111. शिखाग्र प्रधान्यता का हटना किसके लिए उपयोगी होता है:</p> <ol style="list-style-type: none"> अन्तर्वेशी विभज्योतक की सक्रियता को अवरोधित करने में शीघ्र जरावरथा बाढ़ बनाना खरपतवार रहित घास के मैदान को बनाने में 	<p>111. Removal of apical dominance by decapitation is utilised for:</p> <ol style="list-style-type: none"> Suppressing the activity of intercalary meristem Early senescence Hedge making Preparing weed-free lawns 																																								
<p>112. ट्रेटाप्लॉएड मादा पादप का क्रॉस ट्रेटाप्लॉएड नर पादप के साथ कराने के बाद एक बीज के भ्रूणपोष की क्या प्लॉएडी होगी :</p> <ol style="list-style-type: none"> पेन्टाप्लॉएड हेक्साप्लॉएड डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड 	<p>112. What will be the ploidy of endosperm of a seed produced after crossing tetraploid female plant with tetraploid male plant :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pentaploid Hexaploid Diploid Triploid 																																								
<p>113. निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अपने प्लॉएडी स्तर में हेप्लॉयड होती है :</p> <ol style="list-style-type: none"> युग्मनज लघुबीजाणु मातृकोशिका एक मॉस का प्रोटोनीमल कोशिका द्विबीजपत्री में प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक 	<p>113. Which one of the following structures is haploid in its ploidy level :</p> <ol style="list-style-type: none"> Zygote Microspore Mother cell Protonemal cell of a moss Primary endosperm nucleus in dicot 																																								
<p>114. सूची I के साथ सूची II को सुमेलित करें:</p> <table border="0" data-bbox="198 1447 674 1806"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">सूची I</th> <th style="text-align: center;">सूची II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) ETS कॉम्प्लैक्स-I</td> <td>(i) Cyt bc₁</td> </tr> <tr> <td>(b) ETS कॉम्प्लैक्स-II</td> <td>(ii) Cyt a,a₃ और 2 कॉपर केन्द्र</td> </tr> <tr> <td>(c) ETS कॉम्प्लैक्स-III</td> <td>(iii) NADH डिहाइड्रोजिनेज</td> </tr> <tr> <td>(d) ETS कॉम्प्लैक्स-IV</td> <td>(iv) यूबीक्वीनोन और FADH₂</td> </tr> </tbody> </table>	सूची I	सूची II	(a) ETS कॉम्प्लैक्स-I	(i) Cyt bc ₁	(b) ETS कॉम्प्लैक्स-II	(ii) Cyt a,a ₃ और 2 कॉपर केन्द्र	(c) ETS कॉम्प्लैक्स-III	(iii) NADH डिहाइड्रोजिनेज	(d) ETS कॉम्प्लैक्स-IV	(iv) यूबीक्वीनोन और FADH ₂	<p>114. Match List-I with List II:</p> <table border="0" data-bbox="864 1447 1419 1761"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">List-I</th> <th style="text-align: center;">List-II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) ETS कॉम्प्लैक्स-I</td> <td>(i) Cyt bc₁</td> </tr> <tr> <td>(b) ETS कॉम्प्लैक्स-II</td> <td>(ii) Cyt a,a₃ and 2 copper centres</td> </tr> <tr> <td>(c) ETS कॉम्प्लैक्स-III</td> <td>(iii) NADH dehydrogenase</td> </tr> <tr> <td>(d) ETS कॉम्प्लैक्स-IV</td> <td>(iv) Ubiquinone and FADH₂</td> </tr> </tbody> </table>	List-I	List-II	(a) ETS कॉम्प्लैक्स-I	(i) Cyt bc ₁	(b) ETS कॉम्प्लैक्स-II	(ii) Cyt a,a ₃ and 2 copper centres	(c) ETS कॉम्प्लैक्स-III	(iii) NADH dehydrogenase	(d) ETS कॉम्प्लैक्स-IV	(iv) Ubiquinone and FADH ₂																				
सूची I	सूची II																																								
(a) ETS कॉम्प्लैक्स-I	(i) Cyt bc ₁																																								
(b) ETS कॉम्प्लैक्स-II	(ii) Cyt a,a ₃ और 2 कॉपर केन्द्र																																								
(c) ETS कॉम्प्लैक्स-III	(iii) NADH डिहाइड्रोजिनेज																																								
(d) ETS कॉम्प्लैक्स-IV	(iv) यूबीक्वीनोन और FADH ₂																																								
List-I	List-II																																								
(a) ETS कॉम्प्लैक्स-I	(i) Cyt bc ₁																																								
(b) ETS कॉम्प्लैक्स-II	(ii) Cyt a,a ₃ and 2 copper centres																																								
(c) ETS कॉम्प्लैक्स-III	(iii) NADH dehydrogenase																																								
(d) ETS कॉम्प्लैक्स-IV	(iv) Ubiquinone and FADH ₂																																								
<p>दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:</p> <table border="0" data-bbox="198 1851 515 2093"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">(a)</th> <th style="text-align: center;">(b)</th> <th style="text-align: center;">(c)</th> <th style="text-align: center;">(d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) (ii)</td> <td>(i)</td> <td>(iv)</td> <td>(iii)</td> </tr> <tr> <td>(2) (iv)</td> <td>(iii)</td> <td>(ii)</td> <td>(i)</td> </tr> <tr> <td>(3) (iii)</td> <td>(ii)</td> <td>(i)</td> <td>(iv)</td> </tr> <tr> <td>(4) (iii)</td> <td>(iv)</td> <td>(i)</td> <td>(ii)</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(1) (ii)	(i)	(iv)	(iii)	(2) (iv)	(iii)	(ii)	(i)	(3) (iii)	(ii)	(i)	(iv)	(4) (iii)	(iv)	(i)	(ii)	<p>Choose the correct answer from the options given below:</p> <table border="0" data-bbox="864 1851 1229 2093"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">(a)</th> <th style="text-align: center;">(b)</th> <th style="text-align: center;">(c)</th> <th style="text-align: center;">(d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) (ii)</td> <td>(i)</td> <td>(iv)</td> <td>(iii)</td> </tr> <tr> <td>(2) (iv)</td> <td>(iii)</td> <td>(ii)</td> <td>(i)</td> </tr> <tr> <td>(3) (iii)</td> <td>(ii)</td> <td>(i)</td> <td>(iv)</td> </tr> <tr> <td>(4) (iii)</td> <td>(iv)</td> <td>(i)</td> <td>(ii)</td> </tr> </tbody> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	(1) (ii)	(i)	(iv)	(iii)	(2) (iv)	(iii)	(ii)	(i)	(3) (iii)	(ii)	(i)	(iv)	(4) (iii)	(iv)	(i)	(ii)
(a)	(b)	(c)	(d)																																						
(1) (ii)	(i)	(iv)	(iii)																																						
(2) (iv)	(iii)	(ii)	(i)																																						
(3) (iii)	(ii)	(i)	(iv)																																						
(4) (iii)	(iv)	(i)	(ii)																																						
(a)	(b)	(c)	(d)																																						
(1) (ii)	(i)	(iv)	(iii)																																						
(2) (iv)	(iii)	(ii)	(i)																																						
(3) (iii)	(ii)	(i)	(iv)																																						
(4) (iii)	(iv)	(i)	(ii)																																						

<p>115. निम्नलिखित समीकरण के द्वारा उल्लेखित किया गया है</p>	<p>115. Species Area relationship is described by the following equation.</p>
<p>$\log S = \log C + Z \log A$ जहाँ Z है :</p>	<p>$\log S = \log C + Z \log A$ where Z is: :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) क्षेत्र (2) जांतीय प्रचुरता (3) रेखा का ढलान (4) Y-इन्टरसेप्ट 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Area (2) Species richness (3) Slope of the line (4) Y-intercept
<p>116. अपने उदाहरण के साथ पत्ती लक्षण के गलत अनुरूपित जोड़े का चयन करें:</p>	<p>116. Choose the mismatched pair of leaf character with its example :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) पॉल्मेटली संयुक्त – अल्सटोनिया (2) एकान्तर पर्णविन्यास – गुडहल (3) पत्ती प्रतान – मटर (4) सम्मुख पर्णविन्यास – कैलाट्रॉपिस 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Palmately compound – Alstonia (2) Alternate Phyllotaxy – Chinarose (3) Leaf tendril – Pea (4) Opposite phyllotaxy – Calotropis
<p>117. निम्नलिखित में से कौन सा चरघातांकी वृद्धि का समीकरण है :</p>	<p>117. Which of the following is the correct equation of exponential growth? :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) $N_t = N_0 e^{rnt}$ (2) $N_t = N_0 e^{rpt}$ (3) $N_t = N_0 e^{rst}$ (4) $N_t = N_0 e^{rt}$ 	<ul style="list-style-type: none"> (1) $N_t = N_0 e^{rnt}$ (2) $N_t = N_0 e^{rpt}$ (3) $N_t = N_0 e^{rst}$ (4) $N_t = N_0 e^{rt}$
<p>118. प्रमस्तिष्क बल्कुट रखता है।</p>	<p>118. The cerebral cortex contains</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) संवेदी क्षेत्र (2) मोटर क्षेत्र (3) सहभागी क्षेत्र (4) सभी 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Sensory area (2) Motor area (3) Association area (4) All
<p>119. साइटोक्रोम की पहचान करें जो कि कॉम्प्लैक्स III और IV के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानान्तरण के लिए चलनशील वाहक का काम करता है:</p>	<p>119. Identify the cytochrome which acts as a mobile carrier for the transfer of electrons between complex III and IV :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) साइटोक्रोम a (2) साइटोक्रोम a_3 (3) साइटोक्रोम bc₁ (4) साइटोक्रोम c 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Cytochrome a (2) Cytochrome a_3 (3) Cytochrome bc₁ (4) Cytochrome c
<p>120. निम्नलिखित में से कौन सा पादप केन्द्रीय अक्ष पर सेप्टा के बिना उत्पन्न हुए बीजाण्ड के बीजाण्डासन को रखता है :</p>	<p>120. Which of the following plants possess the placentation of ovules borne on central axis with no septa :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) नीबू (2) मटर (3) गुडहल (4) प्रिमरोज 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Lemon (2) Pea (3) China rose (4) Primrose

<p>121. हाइड्रा के लिए तन्त्रिका तन्त्र के लिए सही विकल्प का चयन करें</p> <ol style="list-style-type: none"> सुविकसित प्रमस्तिष्ठक सुविकसित पश्च मस्तिष्ठक चूरून के जाल से मिलकर बना हुआ कार्पस कैलोसम 	<p>121. Select the correct option for nervous system of hydra</p> <ol style="list-style-type: none"> Well developed fore brain Well developed hind brain Composed of network of neurons Corpus callosum
<p>122. C_4 और C_3 पादपों के बीच कार्बन डाईऑक्साइड स्थिरीकरण का अनुपात है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 : 1 2 : 3 1 : 1 1 : 2 	<p>122. The ratio of carbon dioxide fixation between C_4 plants and C_3 plants is :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 : 1 2 : 3 1 : 1 1 : 2
<p>123. निम्नलिखित में से कौन सा बन्ध एक अमीनो अम्ल कार्बाक्सिल समूह के दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनों समूह के साथ अभिक्रिया के परिणामस्वरूप जल के निष्कासन के साथ बनता है :</p> <ol style="list-style-type: none"> फास्फोडाइएस्टर बन्ध हाइड्रोजन बन्ध ग्लाइकोसाइडिक बन्ध पेप्टाइड बन्ध 	<p>123. Which of the following bond is formed as a result of reaction of carboxyl group of one amino acid with amino group of other amino acid with elimination of water :</p> <ol style="list-style-type: none"> Phosphodiester Bond Hydrogen Bond Glycosidic Bond Peptide Bond
<p>124. निम्नलिखित में से कौन सी फसल उच्च पैदावार के लिए CO_2 से प्रचुर वातावरण में व्यापक रूप से उगायी जाती है :</p> <ol style="list-style-type: none"> केवल चुकन्दर और पत्तागोभी केवल गाजर और टमाटर केवल गेहूँ और चुकन्दर टमाटर और शिमला मिर्च 	<p>124. Following crops have been extensively cultivated in CO_2 rich atmosphere for higher yield: :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sugar beet and Cabbage Carrots and Tomatoes Wheat and Sugar beet Tomatoes and Bell pepper
<p>125. निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन (A) से और दूसरा कारण (R) से लेबल्ड है</p> <p>अभिकथन (A) : rDNA प्रोद्योगिकी में एम्पीसीलीन के साथ ही साथ टेट्रासाइक्लीन वाले माध्यम पर अपुर्नयोगज रूपान्तरित जीवाणु वृद्धि करता है।</p> <p>कारण (R) : पुर्नयोगज प्लाजमीड्स रुचिकर बाहरी जीन नहीं रखता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है। दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) का सही व्याख्यान नहीं करता है। 	<p>125. Given below are two statements: One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).</p> <p>Assertion (A) : In rDNA technology non-recombinants transformed bacteria grow on the medium containing ampicillin as well as medium containing tetracycline</p> <p>Reason (R) : Recombinant plasmids does not contain the foreign gene of interest.</p> <ol style="list-style-type: none"> (A) is correct but (R) is not correct (A) is not correct but (R) is correct Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)


126. निम्नलिखित के बीच कवक की पहचान करें जो कि दूसरे कवक के समूह से ताल्लुक नहीं रखता है:

- (1) सैक-कवक (2) पफबॉल्स
 (3) मशरूम (4) ब्रैकट कवक

127. सही अनुरूपता का चयन करें

- (A) हिमोफीलस I. जीवाणु
 इन्फ्लूएन्जी
 (B) प्लाजमोडीयम II. प्रोटोजोआ
 फैल्सीपेरम
 (C) वुचेरिया बैन्क्रॉफ्टी III. एस्कैहैल्मन्थीज
 (D) HIV IV. विषाणु
 (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-III, B-II, C-IV, D-I
 (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
 (4) A-IV, B-I, C-II, D-III

128. सही अनुरूपता का चयन करें



- (1) केवल A, B, C
 (2) केवल A, B, D
 (3) केवल B, C, D
 (4) सभी


126. Identify the fungi which do not belong to the group of other fungi among the following :

- (1) Sac-fungi (2) Puffballs
 (3) Mushrooms (4) Bracket Fungi

127. Select the correct match


- | | |
|----------------------------|--------------------|
| (A) Haemophilus influenzae | I. Bacteria |
| (B) Plasmodium falciparum | II. Protozoa |
| (C) Wuchereria bancrofti | III. Aschelminthes |
| (D) HIV | IV. Virus |
- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (2) A-III, B-II, C-IV, D-I
 (3) A-I, B-II, C-III, D-IV
 (4) A-IV, B-I, C-II, D-III

128. Select the correct match



- (1) A, B, C only
 (2) A, B, D only
 (3) B, C, D, only
 (4) All

129. निम्नलिखित में से कौन सा समूह दिये गये चित्र के सन्दर्भ में A,B, C और D की सही लेबलिंग को प्रदर्शित करता है।



- (1) A- बीज आवरण, B-भूषणपोष, C- कॉटीलीडन, D -हाइपोकोटाइल
- (2) A -बीज आवरण, B- स्केटुलम, C- भूषणपोष, D -मध्य फलभिति
- (3) A- बीज आवरण, B- स्केटुलम, C- माइक्रोपाइल, D -अन्तः फलभित्ति
- (4) A-फलभित्ती, B - प्रांकुरचोल

130. निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण कोलेनकाइमा ऊतक का नहीं है।

- (1) यह पौधे के वृद्धि कर रहे भाग को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है।
- (2) द्विबीजपत्री पादपों में बाह्यत्वचा के नीचे परतों में पाया जाता है।
- (3) यह सेलूलोज जमाव के कारण मोटे किनारों की कोशिकाओं के बने होते हैं
- (4) यह प्रायः मृत और बिना प्रोटोप्लास्ट के होते हैं


131. प्रथम पुर्नयोगज DNA अणु का निर्माण किस निम्नलिखित जीव के सहज प्लाज्मीड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन के जुड़ने से हो सका था

- (1) इस्चेरिचिया कोलाई
- (2) बैसीलस थुरीनजिएन्सिस
- (3) साल्मोनेला टाइफीम्युरीयम
- (4) एग्रोबैक्टीरियम ट्युमेफिशिएन्स

132. एक जीव के रोवे के रंग को अगर गहरा, रंगों के शेड्स और सफेद माना जाये। एक क्रॉस एक नर (AABBCC) गहरे रोवे रंग का और एक मादा (aabbcc) सफेद रोवे के रंग के साथ क्रॉस कराया जाता है। F₁ पीढ़ी के रोवे के रंग क्या होगा

- (1) सभी माध्यमिक रंग
- (2) रंगों के शेड्स का रेन्ज
- (3) सभी गहरे रंग
- (4) सभी सफेद रंग

129. Which of the following set represents the correct labelling of A,B, C and D with respect to the given diagram :



- (1) A- Seed Coat, B- Endosperm, C- Cotyledon, D -Hypocotyl
- (2) A -Seed Coat, B- Scutellum, C- Endocarp, D -Mesocarp
- (3) A- Seed Coat, B- Scutellum, C- Micropyle, D -Endocarp
- (4) A-Pericarp, B - Coleoptile

130. Which of the following is not a character of collenchyma tissue? :

- (1) They provide mechanical support to the growing part of the plant
- (2) They occur in layers below epidermis in dicotyledonous plants
- (3) They consist of cells with thick corners due to cellulose deposition
- (4) They are usually dead and without protoplasts

131. The construction of the first recombinant emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of which of the following organism?:

- (1) Escherichia coli
- (2) Bacillus thuringiensis
- (3) Salmonella typhimurium
- (4) Agrobacterium tumefaciens

132. Assuming that fur colour of an animal is dark, range of colour shade and white. A cross is made between a male (AABBCC) with dark fur colour and a female (aabbcc) with white fur colour. What would be the fur colour of F₁ generation?:

- (1) All intermediate colour
- (2) Range of colour shade
- (3) All dark colour
- (4) All white colour

<p>133. निम्नलिखित में से कौन सा विकार वायु कूपिकाओं की दीवार के क्षतिग्रस्त होने के कारण श्वसनीय सतह में घटोत्तरी को प्रदर्शित कर रहा है ? :</p>	<p>133. Which of the following disorders represents decrease in respiratory surface due to damaged alveolar walls :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) हाइपोकैपनिया (2) ब्रोनकॉइटिस (3) अस्थमा (4) एम्फाइसिमा 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Hypocapnia (2) Bronchitis (3) Asthma (4) Emphysema
<p>134. निम्नलिखित के बीच हार्मोन मोचक IUDs हैं :</p>	<p>134. The hormone releasing IUDs among the following are :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (a) मल्टीलोड 375 (b) LNG - 20 (c) प्रोजेस्टासर्ट (d) लिपेस लूप (e) वाल्ट्स 	<ul style="list-style-type: none"> (a) Multiload 375 (b) LNG - 20 (c) Progestasert (d) Lippe's loop (e) Vaults
<p>दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) केवल (a) और (d) (2) केवल (c) और (e) (3) केवल (a) और (b) (4) केवल (b) और (c) 	<p>Choose the most appropriate answer from the options given below :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) (a) and (d) only (2) (c) and (e) only (3) (a) and (b) only (4) (b) and (c) only
<p>135. ड्रोसोफिला में, आँखों के रंग और शरीर के रंग का जीन _____ पर स्थित है :</p>	<p>135. In Drosophila, the genes for colour of body and colour of eyes are situated on _____ :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) दोनों लिंग गुणसूत्र (2) समजात गुणसूत्र (3) Y-गुणसूत्र (4) X-गुणसूत्र 	<ul style="list-style-type: none"> (1) both the sex chromosomes (2) autosome chromosomes (3) Y-chromosome (4) X-chromosome
<p>136. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) एकटीन और नियामक प्रोटीन्स पतले तन्तु में स्थित हैं (2) Z-रेखा और मायोसीन (मोटी) तन्तु सार्कोमीयर के किनारे पर होती हैं (3) सार्कोप्लाज्मीक रेटीकुलम एसीटाइलकोलीन संग्रहित करता है (4) मायोसीन क्रॉस सेटु कैलिश्यम बन्धन स्थल रखता है 	<p>136. Which of the following is correct statement :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Actin and regulatory proteins are located in thin filament. (2) Z-lines and myosin (thick) filament to the ends of the sarcomere. (3) Sarcoplasmic reticulum stores acetylcholine. (4) Myosin cross bridges contain calcium binding sites.
<p>137. नीचे दिए गए दो कथन हैं :</p>	<p>137. Given below are two statements :</p>
<p>कथन - I : अन्तःजिल्लिका तन्त्र के जिल्लीबद्ध अंग समन्वय करके कोशिकीय कार्य करते हैं।</p>	<p>Statement - I : Membrane-bound organelles of the endomembrane system coordinate cellular functions.</p>
<p>कथन - II : माइटोकाण्ड्रिया और हरितलवक अन्तःजिल्लिका तन्त्र का एक भाग नहीं जाता है।</p>	<p>Statement - II : Mitochondria and chloroplasts are not considered a part of the endomembrane system.</p>
<p>नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) कथन I सही परन्तु कथन II गलत है। (2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है। (3) दोनों कथन I और कथन II सही हैं। (4) दोनों कथन I और कथन II गलत हैं। 	<p>In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Statement - I is correct but Statement - II is incorrect (2) Statement - I is incorrect but Statement - II is correct (3) Both Statement - I and Statement - II are correct (4) Both Statement - I and Statement - II are incorrect

<p>138. न्यूक्लीयोसोम के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।</p>	<p>138. With respect to nucleosome, Which of the following statements is incorrect :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) न्यूक्लीयोसोम DNA कुण्डली का 120 bp रखता है (2) न्यूक्लीयोसोम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर डोरी पर मोती के रूप में देखा जाता है। (3) DNA धनात्मक रूप से आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपट कर न्यूक्लीयोसोम का निर्माण करता है। (4) न्यूक्लीयोसोम क्रोमेटिन का पुनरावृत्ति करने वाली ईकाई है। 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Nucleosome contains 120 bp of DNA helix (2) Nucleosomes are seen as 'beads' on string' under Electron Microscope (3) DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form nucleosome. (4) Nucleosome is the repeating unit of chromatin
<p>139. एक अभिक्रिया में एक एन्जाइम के द्वारा निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है</p>	<p>139. In a reaction catalyzed by an enzyme, which of the following statements is correct :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) एन्जाइम संक्रियण ऊर्जा को घटाता है संक्रमण अवस्था को बनाने के लिए (2) एन्जाइम क्रियाधार से उत्पाद में संक्रमण को ज्यादा कठिन बनाता है (3) एन्जाइम संक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है संक्रमण अवस्था को बनाने के लिए (4) एन्जाइम – क्रियाधार सम्मिश्र एक अभिक्रिया के दौरान बहुत लम्बे समय के लिए बनता है 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Enzymes decrease the activation energy for formation of transition state. (2) Enzymes make transition from substrate to product more difficult. (3) Enzymes increase the activation energy for formation of transition state. (4) Enzyme-substrate complex formed during a reaction lasts for a very long time.
<p>140. निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्मोन रक्त दाब को कम करता है।</p>	<p>140. Which one of the following hormones reduces the blood pressure :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) एन्टीडाइयुरेटिक हॉर्मोन (2) एट्रीयल नेट्रीयुरेटिक कारक (3) एल्डोस्ट्रीरॉन (4) एन्जीयोटेन्सीन-II 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Antidiuretic hormone (2) Atrial Natriuretic factor (3) Aldosterone (4) Angiotensin-II
<p>141. स्थानीकता जानी जाती है।</p>	<p>141. Endemism refers to:</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) जातीय प्रचुरता (2) जातीय एकरूपता (3) जाती जो उसी क्षेत्र के लिए जानी जाती है (4) जातीय विविधता 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Species richness (2) Species evenness (3) Species confined to that region (4) Species diversity
<p>142. एक कोशिका में, DNA हेलीकेज एन्जाइम DNA स्ट्रैन्ड के अलगाव के लिए लाया गया, जबकि PCR में DNA स्ट्रैन्ड का अलगाव किसके कारण होता है :</p>	<p>142. In a cell, the separation of DNA strands is brought about by the enzyme DNA helicase, whereas in PCR, the separation of DNA strands is due to :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) उच्च तापमान (2) प्राइमर्स के दो समूह (3) टैक DNA पॉलीमरेज (4) डिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड 	<ul style="list-style-type: none"> (1) High temperature (2) Two sets of Primers (3) Taq DNA polymerase (4) Deoxynucleotides

<p>143. एक कम पुनर्संयोजन आवृत्ति संकेत देती है कि जीन होते हैं :</p>	<p>143. A low frequency recombination indicates that the genes are:</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हैं (2) एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं (3) लग्न नहीं होते हैं (4) ढीले तरीके से लग्न 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Located far apart from each other (2) Located close to each other (3) Not linked (4) Loosely linked
<p>144. मानव में कितने Y-गुणसूत्र 2nd ध्रुवीय काय में उपस्थित हैं ।</p>	<p>144. How many Y-chromosomes are present in the 2nd polar body in human beings :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) 01 (2) 00 (3) 23 (4) 02 	<ul style="list-style-type: none"> (1) 01 (2) 00 (3) 23 (4) 02
<p>145. एक जनसंख्या निश्चित संसाधन के साथ लाजिस्टिक वृद्धि वक्र को प्रदर्शित करती है जहाँ घटनाओं का सही क्रम होगा :</p>	<p>145. A population with finite resources shows a logistic growth curve where the correct sequence of events will be :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) स्थायी प्रावस्था → त्वरित प्रावस्था → लैग प्रावस्था → अनन्तस्पर्शी प्रावस्था (2) त्वरित प्रावस्था → मन्दन → अनन्तस्पर्शी प्रावस्था (3) त्वरित प्रावस्था → लैग प्रावस्था → स्थायी प्रावस्था (4) लैग प्रावस्था → त्वरित प्रावस्था → मन्दन → अनन्तस्पर्शी प्रावस्था 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Stationary phase → Acceleration phase → Lag phase → Asymptote (2) Acceleration phase → Deceleration → Asymptote (3) Acceleration phase → Lag phase → Stationaryphase (4) Lag phase → Acceleration phase → Deceleration → Asymptote
<p>146. एयर ब्लैडर पाया जाता है</p>	<p>146. Air bladder is found in :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) ऑस्टीकथीज (2) एब्स (3) साइक्लोस्टोमेटा (4) कॉन्ड्रिकथीज 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Osteichthyes (2) Aves (3) Cyclostomata (4) Chondrichthyes
<p>147. निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान सावित होता है :</p>	<p>147. Which of the following hormones are secreted in women only during pregnancy :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (a) रिलैक्सीन (b) ऑक्सीटोसीन (c) hCG (d) hPL (e) प्रोजेस्टेरॉन 	<ul style="list-style-type: none"> (a) Relaxin (b) Oxytocin (c) hCG (d) hPL (e) Progesterone
<p>दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें :</p>	<p>Choose the most appropriate answer from the options given below :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) केवल (c) , (d) और (e) (2) केवल (b) और (e) (3) केवल (b), (c) और (d) (4) केवल (a) , (c) और (d) 	<ul style="list-style-type: none"> (1) (c) , (d) and (e) only (2) (b) and (e) only (3) (b) , (c) and (d) only (4) (a) , (c) and (d) only

<p>148. श्वसन के नियमन में एक रसायन संवेदी क्षेत्र मस्तिष्क के मेड्यूला क्षेत्र में लय केन्द्र के आस-पास स्थित होता है, अत्यधिक संवेदनशील होता है:</p>	<p>148. In the regulation of respiration, a chemosensitive area adjacent to the rhythm centre in the medulla region of the brain, is highly sensitive to :</p>
<p>(1) HCO_3^- (2) CO_2 (3) O_2 (4) N_2</p>	<p>(1) HCO_3^- (2) CO_2 (3) O_2 (4) N_2</p>
<p>149. गलत अनुरूपता का चयन करें</p>	<p>149. Select the incorrect match</p>
<p>(1) डोसा और इडली – जीवाणु द्वारा किणित (2) सिट्रिक अम्ल – बहुकोशकीय जीव द्वारा उत्पादित (3) एसीटिक अम्ल – एककोशकीय जीव द्वारा उत्पादित (4) साइक्लोस्पोरिन -A – एककोशकीय जीव द्वारा उत्पादित</p>	<p>(1) Dosa and idli – Fermented by bacteria (2) Citric acid – Produced by multicellular organism (3) Acetic acid – Produced by unicellular organism (4) Cyclosporin -A – Produced by unicellular organism</p>
<p>150. निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की उपकला रक्तवाहिकाओं को आस्तरित करती है ?</p>	<p>150. Which of the following types of epithelium lines the walls of blood vessels ?</p>
<p>(1) कशाकीय उपकला (2) शाल्की उपकला (3) घनाकार उपकला (4) स्तम्भाकार उपकला</p>	<p>(1) Ciliated epithelium (2) Squamous epithelium (3) Cuboidal epithelium (4) Columnar epithelium</p>
<p>151. अर्धसूत्री- I के पूर्वावस्था के दौरान पाए जाने वाले घटनाओं के सही क्रम का चयन करें:</p>	<p>151. Select the correct sequence of events occurring during Prophase-I of Meiosis-I</p>
<p>(a) केन्द्रक आवरण का विघटन (b) सिनेपटोनीमल सम्मिश्र का निर्माण (c) गुणसूत्रों का संघनन (d) काएज्मेटा का उपांतीभवन (e) विनिमय</p>	<p>(a) Nuclear envelope breakdown (b) Synaptonemal complex formation (c) Compaction of chromosomes (d) Terminalisation of chiasmata (e) Crossing over</p>
<p>दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:</p>	<p>Choose the most appropriate answer from the options given below:</p>
<p>(1) (c) → (b) → (e) → (d) → (a) (2) (c) → (a) → (b) → (d) → (e) (3) (b) → (c) → (a) → (d) → (e) (4) (c) → (a) → (b) → (e) → (d)</p>	<p>(1) (c) → (b) → (e) → (d) → (a) (2) (c) → (a) → (b) → (d) → (e) (3) (b) → (c) → (a) → (d) → (e) (4) (c) → (a) → (b) → (e) → (d)</p>
<p>152. मानव में तीन परते सभी ऊतकों (अंगों) का व्यस्क में निर्माण करती है। यह तीन परत है</p>	<p>152. In human three layers give rise to all tissues/organs in adults, these three layers are</p>
<p>(a) एक्टोडर्म (b) एण्डोडर्म (c) मीजोडर्म (d) मध्य परत (1) a, b, c (2) a, b, d (3) b, c, d (4) a, c, d</p>	<p>(a) Ectoderm (b) Endoderm (c) Mesoderm (d) Middle layer (1) a, b, c (2) a, b, d (3) b, c, d (4) a, c, d</p>

<p>153. हृदयपेशियों को अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति तीव्र सीने में दर्द के लक्षण का कारण बनती है। यह परिसंचरण तन्त्र का विकार पहचाना जाता है:</p>	<p>153. Inadequate supply of oxygen to heart muscles leads to a symptom of acute chest pain. This disorder of the circulatory system is identified as:</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) एन्जाइना पेक्टोरिस (2) कार्डियक अरेस्ट (3) हृदय फेल (4) कोरोनरी हृदय बीमारी 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Angina pectoris (2) Cardiac arrest (3) Heart failure (4) Coronary Heart Disease
<p>154. निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन (A) से और दूसरा कारण (R) से लेबल्ड है</p> <p>अभिकथन (A): बहुत सारे नेत्रांशक की सहायता के साथ, एक कॉकरोच एक वस्तु का बहुत सारे प्रतिबिम्ब को देखता है उदाहरण मोसैक दृष्टि</p>	<p>154. Given below are two statements: One is labelled a Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R) .</p>
<p>Assertion (A): With the help of several ommatidia, a cockroach can perceive several images of an object, i.e., mosaic vision</p> <p>Reason (R): Mosaic vision gives NO sensitivity but more resolution</p> <p>In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) (A) is correct but (R) is not correct (2) (A) is not correct but (R) is correct (3) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A) (4) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A) 	<p>Assertion (A):</p> <p>Reason (R):</p> <p>In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:</p>
<p>155. नीचे दो कथन दिए गए हैं :</p> <p>कथन I: उभयचर और ज्यादातर सरीसृप 3 कक्षीय हृदय रखते हैं जिसमें दो अलिन्द और एक एकल निलय होता है, और ओविपैरस प्रकृति का होता है।</p>	<p>155. Given below are two statements:</p> <p>Statements-I: Amphibians and mostly reptiles have a 3-chambered heart with two atria and a single ventricle, and oviparous in nature</p>
<p>कथन II: मगरमच्छ एक 4 कक्षीय हृदय दो निलय और दो अलिन्द के साथ रखता है और वीवीपैरस प्रकृति का होता है।</p> <p>उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :</p>	<p>Statements-II: Crocodiles possess a 4 chambered heart with two ventricles and two atria: and viviparous in nature</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है। (2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है। (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं। (4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं। 	<p>In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:</p>
<p>156. शिशु विहीन जोड़ा शिशु को पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक सहायक जनन तकनीक को उपयोग नहीं करेगा</p>	<p>156. Which one of the following is not an Assisted Reproductive Technology (ART) used by childless couples to have children?</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) ZIFT (2) IUD (3) IVF (4) IUT 	<ul style="list-style-type: none"> (1) ZIFT (2) IUD (3) IVF (4) IUT

<p>157. प्रतिरक्षा दमनकारी जले हुए मरीजों अथवा अंग प्रत्यारोपण के दौरान किसको अवरोधित करने के लिए दिया जाता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) जन्मजात प्रतिरक्षा (2) साइटोकाइन उपद्रव (3) ह्यूमोरल प्रतिरक्षा (4) कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा <p>158. कर्ण मोम को स्रावित करने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की उपकला रखती हैं?</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) स्तम्भाकार उपकला (2) बहिस्रावी ग्रन्थिल उपकला (3) संयुक्त उपकला (4) अन्तःस्रावी ग्रन्थिल उपकला <p>159. वृषण से शुक्राणुओं के स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित नर सहायक नलिकाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) अधिवृष्ण (b) स्खलन नलिका (c) शुक्रवाहिकाएँ (d) वृषण जालिकाएँ (e) शुक्र वाहक <p>दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) (d) , (a) , (c) , (e) , (b) (2) (d) , (c) , (e) , (a) , (b) (3) (d) , (c) , (a) , (e) , (b) (4) (d) , (e) , (a) , (c) , (b) <p>160. आनुवंशिक बहाव किसके कारण होता है :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) प्राकृतिक चयन (2) अचानक जनसंख्या स्थानान्तरण (3) लगातार जीन स्थानान्तरण (4) उत्परिवर्तन 	<p>157. Immuno-suppressants are administered to burn patients or during organ transplantation to suppress:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Innate immunity (2) Cytokine storm (3) Humoral immunity (4) Cell-mediated immunity <p>158. Ear wax secreting cells have which type of epithelium?</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Columnar epithelium (2) Exocrine glandular epithelium (3) Compound epithelium (4) Endocrine glandular epithelium <p>159. Arrange the following male sex accessory ducts in the correct sequence for the transport of sperms from the testes</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Epididymis (b) Ejaculatory duct (c) Vasa efferentia (d) Rete testis (e) Vas deferens <p>Choose the most appropriate answer from the options given below:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) (d) , (a) , (c) , (e) , (b) (2) (d) , (c) , (e) , (a) , (b) (3) (d) , (c) , (a) , (e) , (b) (4) (d) , (e) , (a) , (c) , (b) <p>160. Genetic Drift occurs due to :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Natural selection (2) Sudden population migration (3) Continuous gene migration (4) Mutation
---	---

<p>161. मानव शरीर में सामान्य सोने जागने का चक्र किसके स्रावण के द्वारा बनाए रखा जाता है</p>	<p>161. Normal sleep-wake cycle in a human body is maintained by the secretion of:</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) थायराइड ग्रन्थि (2) थाइमस ग्रन्थि (3) पीनियल ग्रन्थि (4) पिट्यूटरी ग्रन्थि 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Thyroid gland (2) Thymus gland (3) Pineal gland (4) Pituitary gland
<p>162. एक आंत्रीय हार्मोन जो कि अग्नाशय को जलीय स्रावण को मुक्त करने के लिए उद्दीपित करता है जो कि बाइकार्बोनेट आयन्स से प्रचुर होता है</p>	<p>162. An intestinal hormone that stimulates the pancreas to release a watery secretion that is rich in bicarbonate ions:</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) कोलीसीस्टोकाइनिन (2) गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड (3) TCT (4) PTH 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Cholecystokinin (2) Gastric Inhibitory Peptide (3) TCT (4) PTH
<p>163. स्थलीय अनुकूलन के लिए किसका उत्पादन आवश्यक है :</p>	<p>163. Terrestrial adaptations necessitated the production of :</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) अत्यधिक विषैला नाइट्रोजिनस अपशिष्ट जैसे कि युरीया और युरीक अम्ल (2) कम विषैला नाइट्रोजिनस अपशिष्ट जैसे कि युरीया और युरीक अम्ल (3) कम विषैला नाइट्रोजिनस अपशिष्ट जैसे कि अमोनिया और युरीया (4) अत्यधिक विषैला नाइट्रोजिनस अपशिष्ट जैसे कि अमोनिया और युरीया 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Highly toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid (2) Lesser toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid (3) Lesser toxic nitrogenous wastes like ammonia and urea (4) Highly toxic nitrogenous wastes like ammonia and urea
<p>164. नीचे दो कथन दिए गए हैं :</p>	<p>164. Given below are two statements:</p>
<p>कथन I: ऊर्जा का पिरैमिड सदैव सीधा होता है और ज्यादा दक्ष होता है।</p>	<p>Statement - I: Pyramid of energy is always upright and is the most efficient</p>
<p>कथन II : समुद्र में जैव मात्रा का पिरैमिड सामान्यतः उल्टा होता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :</p>	<p>Statement-II: Pyramid of biomass in sea is generally inverted.</p>
<ul style="list-style-type: none"> (1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है। (2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है। (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं। (4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं। 	<p>In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Statements-I is correct but statement-II is incorrect (2) Statements-I is incorrect but statement-II is correct (3) Both statement-I and statements-II are correct (4) Both statement-I and statement-II are incorrect

165. rDNA तकनीक में इस्तेमाल होने वाले एक अच्छे वाहक के गुणों की पहचान करें:

- (a) इसके पास उच्च कॉपी संख्या को समर्थन करने वाले प्रतिकृतियन की उत्पत्ति होनी चाहिए
- (b) इसके पास '2' से ज्यादा पहचान स्थल प्राथमिक रूप से होनी चाहिए
- (c) वाहक में प्रतिबन्धन स्थल प्रतिजैविक—प्रतिरोधी जीन्स में होनी चाहिए
- (d) इसके पास उपयुक्त मार्कर जीन्स होना चाहिए
- (e) इसे आसानी से विलगित और शुद्ध किया जा सके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:
 - (1) केवल (a), (c) और (e)
 - (2) केवल (c), (d) और (e)
 - (3) केवल (a), (b) और (c)
 - (4) केवल (a), (c), (d) और (e)

166. आस्ट्रेलियन मारसुपियल के अनुकूली विकिरण के संगत अपरा स्तनधारियों के सम्बन्ध में सही अनुरूपता का चयन करें:

- (1) नम्बैट – उड़न गिलहरी
- (2) टसमेनियन भेड़िया – बाबकैट
- (3) मारसुपियल चूहा – मोल
- (4) स्पॉटेड कस्कस – लिमर

167. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित करें

Sूची - I	Sूची - II
(a) वर्णालिवक	(i) प्रोटीन्स
(b) एमाइलोप्लास्ट	(ii) तेल और वसा
(c) इलाइयोप्लास्ट	(iii) स्टार्च
(d) एल्युरोप्लास्ट	(iv) कैरोटीन

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|----------|-------|-------|------|
| (1) (iv) | (i) | (iii) | (ii) |
| (2) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (3) (iv) | (ii) | (iii) | (i) |
| (4) (iv) | (iii) | (i) | (ii) |

165. Identify the properties of a good vector used in rDNA technology

- (a) It should have origin of replication supporting a high copy number
 - (b) It should have preferably more than '2' recognition sites
 - (c) The restriction sites in vector should be in the antibiotic-resistant genes
 - (d) It should have suitable marker genes
 - (e) It should be easy to isolate and purify
- Choose the most appropriate answer from the options given below:**
- (1) (a), (c) and (e) only
 - (2) (c), (d) and (e) only
 - (3) (a), (b) and (c) only
 - (4) (a), (c), (d) and (e) only

166. Select the correct match regarding adaptive radiation of Australian marsupials corresponding to placental mammals

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (1) Numbat | – Flying Squirrel |
| (2) Tasmanian Wolf | – Bobcat |
| (3) Marsupial mouse | – Mole |
| (4) Spotted Cuscus | – Lemur |

167. Match List - I with List - II

List - I	List - II
(a) Chromoplasts	(i) Proteins
(b) Amyloplasts	(ii) Oil and fats
(c) Elaioplasts	(iii) Starch
(d) Aleuroplasts	(iv) Carotene

Choose the correct answer from the option given below

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|----------|-------|-------|------|
| (1) (iv) | (i) | (iii) | (ii) |
| (2) (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (3) (iv) | (ii) | (iii) | (i) |
| (4) (iv) | (iii) | (i) | (ii) |



168. निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कार्डिट के लिए सही नहीं है :

- (a) हृदय पुष्टीय होता है।
- (b) ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं
- (c) केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र अधरीय ठोस और एकल होता है।
- (d) पश्च—गुदा पुच्छ उपरिथित होता है।
- (e) नोटोकार्ड उपस्थित है।

दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें:

- (1) केवल (e)
- (2) केवल (a), (d) और (c)
- (3) केवल (b) और (c)
- (4) केवल (a) और (c)

169. निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन (A) से और दूसरा कारण (R) से लेबल्ड है

अभिकथन (A) : मानव में, इन्सुलिन एक प्रोहार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है जिसे पूर्ण रूप से परिपक्व और क्रियाशील होने की आवश्यकता होती है।

कारण (R) : इंसुलिन की A- पेप्टाइड और B- पेप्टाइड से अतिरिक्त C- पेप्टाइड के विस्तार को हटाया जाता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में सही चयन करें, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें

- (1) (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है
- (2) (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है
- (3) दोनों (A) और (R) सही है और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (4) दोनों (A) और (R) सही है और (R), (A) का सही व्याख्यान नहीं करता है।

170. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I :

जब एक संक्रमित मादा एनोफलीज मच्छर काटता है, यह स्वरूप व्यक्ति में प्लाजमोडियम की गैमिटोसाइट को मुक्त करता है।

कथन II :

मादा एनोफलीज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति से, मलेरिया से ग्रसित है रक्त भोजन के साथ प्लाजमोडियम की स्पोरोजॉयट को लेता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
- (2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
- (4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

168. Which one of the following features are not true for chordates :

- (a) Heart is dorsal.
- (b) Pharynx is perforated by gill slits.
- (c) Central nervous system is ventral solid and single.
- (d) post-anal tail is present.
- (e) Notochord is present.

Choose the most appropriate answer from the option give below :

- (1) (e) only
- (2) (a), (d) and (c) only
- (3) (b) and (c) only
- (4) (a) and (c) only

169. Give below are two statements : one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) : In human beings, insulin is synthesized as a pro-hormone which needs to be processed before it becomes fully mature and functional.

Reason (R) : The extra stretch of C-peptide is to be removed from A-peptide and B-peptide chain of insulin.

In the light of the above statements, Choose the most appropriate answer from the option given below :

- (1) (A) is correct but (R) is not correct
- (2) (A) is not correct but (R) is correct
- (3) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation or (A)
- (4) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation (A)

170. Give below are two statements :

Statement - I :

When an infected female Anopheles mosquito bite, it release gametocytes of plasmodium into the healthy person.

Statement - II :

The female Anopheles mosquito takes up sporozoites of Plasmodium with blood meal from an infected person, suffering form malaria.

In the light of the above statements, Choose the most appropriate answer from the options give below :

- (1) Statement - I is correct but Statement - II is incorrect
- (2) Statement - I is incorrect but Statement - II is correct
- (3) Both Statement - I and Statement - II are correct
- (4) Both Statement - I and Statement - II are incorrect

<p>171. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित करें</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">सूची - I</th><th style="text-align: center;">सूची - II</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) पक्सीनिया</td><td>(i) सरसों पर परजीवीय कवक</td></tr> <tr> <td>(b) न्यूरोस्पोरा</td><td>(ii) मृत पदार्थ</td></tr> <tr> <td>(c) मृतोपजीवी</td><td>(iii) गेहूँ का किट्ट</td></tr> <tr> <td>(d) एल्ब्युगो</td><td>(iv) जैव रासायनिक और आनुवंशिक कार्य</td></tr> </tbody> </table>	सूची - I	सूची - II	(a) पक्सीनिया	(i) सरसों पर परजीवीय कवक	(b) न्यूरोस्पोरा	(ii) मृत पदार्थ	(c) मृतोपजीवी	(iii) गेहूँ का किट्ट	(d) एल्ब्युगो	(iv) जैव रासायनिक और आनुवंशिक कार्य	<p>171. Match List - I with List - II :</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">List I</th><th style="text-align: center;">List-II</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) Puccinia</td><td>(i) Parasitic fungus on mustard</td></tr> <tr> <td>(b) Neurospora</td><td>(ii) Dead substrates</td></tr> <tr> <td>(c) Saprophytes</td><td>(iii) Wheat rust</td></tr> <tr> <td>(d) Albugo</td><td>(iv) Biochemical and Genetic Work</td></tr> </tbody> </table>	List I	List-II	(a) Puccinia	(i) Parasitic fungus on mustard	(b) Neurospora	(ii) Dead substrates	(c) Saprophytes	(iii) Wheat rust	(d) Albugo	(iv) Biochemical and Genetic Work
सूची - I	सूची - II																				
(a) पक्सीनिया	(i) सरसों पर परजीवीय कवक																				
(b) न्यूरोस्पोरा	(ii) मृत पदार्थ																				
(c) मृतोपजीवी	(iii) गेहूँ का किट्ट																				
(d) एल्ब्युगो	(iv) जैव रासायनिक और आनुवंशिक कार्य																				
List I	List-II																				
(a) Puccinia	(i) Parasitic fungus on mustard																				
(b) Neurospora	(ii) Dead substrates																				
(c) Saprophytes	(iii) Wheat rust																				
(d) Albugo	(iv) Biochemical and Genetic Work																				
<p>दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें:</p>	<p>Choose the correct answer from the option given below</p>																				
<table border="0"> <tr> <th style="text-align: center;">(a)</th><th style="text-align: center;">(b)</th><th style="text-align: center;">(c)</th><th style="text-align: center;">(d)</th></tr> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	<table border="0"> <tr> <th style="text-align: center;">(a)</th><th style="text-align: center;">(b)</th><th style="text-align: center;">(c)</th><th style="text-align: center;">(d)</th></tr> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)												
(a)	(b)	(c)	(d)																		
(a)	(b)	(c)	(d)																		
<table border="0"> <tr> <td>(1)</td><td>(iii)</td><td>(ii)</td><td>(iv)</td></tr> </table>	(1)	(iii)	(ii)	(iv)	<table border="0"> <tr> <td>(i)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	(i)															
(1)	(iii)	(ii)	(iv)																		
(i)																					
<table border="0"> <tr> <td>(2)</td><td>(iii)</td><td>(iv)</td><td>(ii)</td></tr> </table>	(2)	(iii)	(iv)	(ii)	<table border="0"> <tr> <td>(i)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	(i)															
(2)	(iii)	(iv)	(ii)																		
(i)																					
<table border="0"> <tr> <td>(3)</td><td>(i)</td><td>(ii)</td><td>(iii)</td></tr> </table>	(3)	(i)	(ii)	(iii)	<table border="0"> <tr> <td>(iv)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	(iv)															
(3)	(i)	(ii)	(iii)																		
(iv)																					
<table border="0"> <tr> <td>(4)</td><td>(iv)</td><td>(ii)</td><td>(i)</td></tr> </table>	(4)	(iv)	(ii)	(i)	<table border="0"> <tr> <td>(iii)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	(iii)															
(4)	(iv)	(ii)	(i)																		
(iii)																					
<p>172. हल्के और संकर घनत्व वाले DNA अणु का क्या अनुपात होगा, क्रमशः अगर मेसेल्सन और स्टॉल प्रयोग 60 मिनट के लिए लगातार हुआ हो:</p>	<p>172. What would be the proportions of light and hybrid density DNA molecule, respectively if Meselson and Stahl's experiment was continued for 60 minutes :</p>																				
<table border="0"> <tr> <td>(1) 50%, 50%</td><td>(2) 25%, 75%</td></tr> </table>	(1) 50%, 50%	(2) 25%, 75%	<table border="0"> <tr> <td>(1)</td><td>(2)</td></tr> </table>	(1)	(2)																
(1) 50%, 50%	(2) 25%, 75%																				
(1)	(2)																				
<table border="0"> <tr> <td>(3) 75%, 25%</td><td>(4) 100%, 0%</td></tr> </table>	(3) 75%, 25%	(4) 100%, 0%	<table border="0"> <tr> <td>(3)</td><td>(4)</td></tr> </table>	(3)	(4)																
(3) 75%, 25%	(4) 100%, 0%																				
(3)	(4)																				
<p>173. सूची - I को सूची-II के साथ सुमेलित करें</p>	<p>173. Match List-I with List-II:</p>																				
<table border="0"> <tr> <th style="text-align: center;">सूची-I</th><th style="text-align: center;">सूची-II</th></tr> </table>	सूची-I	सूची-II	<table border="0"> <tr> <th style="text-align: center;">List-I</th><th style="text-align: center;">List-II</th></tr> </table>	List-I	List-II																
सूची-I	सूची-II																				
List-I	List-II																				
<table border="0"> <tr> <td>(a) आंसजी सन्धि</td><td>(i) एक रोध को निर्माण करता है। जो कि कोशिकाओं के परत के आर-पार बाह्य कोशिकीय द्रव के रिसाव को रोकता है।</td></tr> </table>	(a) आंसजी सन्धि	(i) एक रोध को निर्माण करता है। जो कि कोशिकाओं के परत के आर-पार बाह्य कोशिकीय द्रव के रिसाव को रोकता है।	<table border="0"> <tr> <td>(a) Adhering junctions</td><td>(i) Establish a barrier that prevents leakage of extracellular fluid across a layer of cells</td></tr> </table>	(a) Adhering junctions	(i) Establish a barrier that prevents leakage of extracellular fluid across a layer of cells																
(a) आंसजी सन्धि	(i) एक रोध को निर्माण करता है। जो कि कोशिकाओं के परत के आर-पार बाह्य कोशिकीय द्रव के रिसाव को रोकता है।																				
(a) Adhering junctions	(i) Establish a barrier that prevents leakage of extracellular fluid across a layer of cells																				
<table border="0"> <tr> <td>(b) दृढ़ सन्धि</td><td>(ii) रीवेट्स की तरह कार्य करता है और कोशिकाओं को एक साथ जकड़ता है। एक मजबूत चादर के रूप में</td></tr> </table>	(b) दृढ़ सन्धि	(ii) रीवेट्स की तरह कार्य करता है और कोशिकाओं को एक साथ जकड़ता है। एक मजबूत चादर के रूप में	<table border="0"> <tr> <td>(b) Tight junctions</td><td>(ii) Functions like rivets and fasten cells together into strong sheets</td></tr> </table>	(b) Tight junctions	(ii) Functions like rivets and fasten cells together into strong sheets																
(b) दृढ़ सन्धि	(ii) रीवेट्स की तरह कार्य करता है और कोशिकाओं को एक साथ जकड़ता है। एक मजबूत चादर के रूप में																				
(b) Tight junctions	(ii) Functions like rivets and fasten cells together into strong sheets																				
<table border="0"> <tr> <td>(c) गैप सन्धि</td><td>(iii) एक कोशिका से दूसरी को तन्त्रिका संचारी के माध्यम से सूचनाओं को भेजता है।</td></tr> </table>	(c) गैप सन्धि	(iii) एक कोशिका से दूसरी को तन्त्रिका संचारी के माध्यम से सूचनाओं को भेजता है।	<table border="0"> <tr> <td>(c) Gap junctions</td><td>(iii) Pass information through neurotransmitters from one cell to another</td></tr> </table>	(c) Gap junctions	(iii) Pass information through neurotransmitters from one cell to another																
(c) गैप सन्धि	(iii) एक कोशिका से दूसरी को तन्त्रिका संचारी के माध्यम से सूचनाओं को भेजता है।																				
(c) Gap junctions	(iii) Pass information through neurotransmitters from one cell to another																				
<table border="0"> <tr> <td>(d) साइनेप्टीक सन्धि</td><td>(iv) एक कोशिका से दूसरी नजदीकी की कोशिका से संचार के लिए कोशिका द्रव्यीय चैनल को प्रदान करता है।</td></tr> </table>	(d) साइनेप्टीक सन्धि	(iv) एक कोशिका से दूसरी नजदीकी की कोशिका से संचार के लिए कोशिका द्रव्यीय चैनल को प्रदान करता है।	<table border="0"> <tr> <td>(d) Synaptic junctions</td><td>(iv) Provide cytoplasmic channels from one cell to an adjacent cell for communication</td></tr> </table>	(d) Synaptic junctions	(iv) Provide cytoplasmic channels from one cell to an adjacent cell for communication																
(d) साइनेप्टीक सन्धि	(iv) एक कोशिका से दूसरी नजदीकी की कोशिका से संचार के लिए कोशिका द्रव्यीय चैनल को प्रदान करता है।																				
(d) Synaptic junctions	(iv) Provide cytoplasmic channels from one cell to an adjacent cell for communication																				
<p>दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें</p>	<p>Choose the correct answer from the options given below</p>																				
<table border="0"> <tr> <th style="text-align: center;">(a)</th><th style="text-align: center;">(b)</th><th style="text-align: center;">(c)</th><th style="text-align: center;">(d)</th></tr> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)	<table border="0"> <tr> <th style="text-align: center;">(a)</th><th style="text-align: center;">(b)</th><th style="text-align: center;">(c)</th><th style="text-align: center;">(d)</th></tr> </table>	(a)	(b)	(c)	(d)												
(a)	(b)	(c)	(d)																		
(a)	(b)	(c)	(d)																		
<table border="0"> <tr> <td>(1) (iv)</td><td>(iii)</td><td>(ii)</td><td>(i)</td></tr> </table>	(1) (iv)	(iii)	(ii)	(i)	<table border="0"> <tr> <td>(i)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	(i)															
(1) (iv)	(iii)	(ii)	(i)																		
(i)																					
<table border="0"> <tr> <td>(2) (i)</td><td>(iii)</td><td>(ii)</td><td>(iv)</td></tr> </table>	(2) (i)	(iii)	(ii)	(iv)	<table border="0"> <tr> <td>(iv)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	(iv)															
(2) (i)	(iii)	(ii)	(iv)																		
(iv)																					
<table border="0"> <tr> <td>(3) (ii)</td><td>(i)</td><td>(iv)</td><td>(iii)</td></tr> </table>	(3) (ii)	(i)	(iv)	(iii)	<table border="0"> <tr> <td>(ii)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	(ii)															
(3) (ii)	(i)	(iv)	(iii)																		
(ii)																					
<table border="0"> <tr> <td>(4) (i)</td><td>(ii)</td><td>(iii)</td><td>(iv)</td></tr> </table>	(4) (i)	(ii)	(iii)	(iv)	<table border="0"> <tr> <td>(iv)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	(iv)															
(4) (i)	(ii)	(iii)	(iv)																		
(iv)																					

174. निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन (A) से और दूसरा कारण (R) से लेबल्ड है

अभिकथन (A) :

एक ट्रॉन्सजेनिक परपोषी में निमैटोड जीवित नहीं रह सकता है। जोकि विशेष अन्तरक्षेपी RNA अभिव्यक्ति करता है।

कारण (R) :

निमैटोड विशिष्ट जीन परपोषी में दोनों सेन्स और एन्टीसेन्स अनुपूरक RNA का निर्माण करता है जो कि परपोषी कोशिका में RNA अन्तरक्षेप की शुरुआत करती है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में सही चयन करें, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें

- (1) (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है
- (2) (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है
- (3) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (4) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) का सही व्याख्यान नहीं करता है।

175. अगर एक DNA अणु 25 क्षार जोड़ी के कम होने से छोट हो जाता है, कितनी कुण्डली घुमाव इसकी संरचना से कम हो जायेगी :

- (1) 1
- (2) 3
- (3) 2.5
- (4) 2

176. सही अनुरूपता का चयन करें

- | | |
|-------------|-------------|
| A. पैन्थेरा | I. चीता |
| B. कैनीस | II. कुत्ता |
| C. फेलीस | III. बिल्ली |
| D. सोलेनम | IV. मकोय |

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-I, C-III, D-IV

174. Given below are two statements : one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) :

The nematode can not survive in a transgenic host which expresses specific interfering RNA.

Reason (R) :

Nematode specific gene introduced in the host produces both sense and antisense complementary RNA which initiate RNA interference in the host cell.

In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below:

- (1) (A) is correct but (R) is not correct
- (2) (A) is not correct but (R) is correct
- (3) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
- (4) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

175. If a DNA molecule is shortened by 25 base pairs, how many helical turns will be reduced from its structure :


- (1) 1
- (2) 3
- (3) 2.5
- (4) 2

176. Select the correct match

- | | |
|--------------------|-----------|
| A. <i>Panthera</i> | I. Tiger |
| B. <i>Canis</i> | II. Dog |
| C. <i>Felis</i> | III. Cat |
| D. <i>Solanum</i> | IV. Makoi |

- (1) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-II, B-I, C-III, D-IV


177. सही अनुरूपता का चयन करे




– युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन



– युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन



– युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन



– बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन


(1) A, B, C

(2) A, B, D

(3) केवल A, B

(4) केवल A, D


178. सही अनुरूपता का चयन करे




– सहारा देना वाला जड़



– अपरथानिक जड़



– मूसला जड़



– सुरक्षा के लिए पत्तियाँ


(1) केवल A, B, C

(2) केवल A, B, D


(3) सभी

(4) केवल A, C, D


177. Select the correct match




– Meiosis in zygote



– Meiosis in zygote



– Meiosis in zygote



– Meiosis in spore mother cell

(1) A, B, C

(2) A, B, D

(3) Only A, B

(4) Only A, D

178. Select the correct match



– Supporting roots



– Adventitious roots



– Tap roots



– Leaves for protection

(1) A, B, C only

(2) A, B, D only

(3) All

(4) A, C, D only

179. पादप कोशिकाओं / ऊतक का चयन करें

रक्षक कोशिका, सहायक कोशिका, लीडीग कोशिकाएं, पैरेनकाइमा, ल्युकोसाइट्स, आवर्धत्वक कोशिकाएं, फ्लोएम, पोडासाइट्स, पर्णमध्योतक, थ्रॉम्बोसाइट्स, स्टॉली कोशिकाएं

- (1) सात
- (2) छः
- (3) पाँच
- (4) आठ

180. स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रन्थियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह दो वर्ग है

- (1) सरल और संयुक्त
- (2) सघन और विशेष
- (3) बहिस्रावी और अन्तःस्रावी
- (4) ढीला और सघन

179. Select the plant cells/tissue

Guard cell, Subsidiary cells, Leydig cells, Parenchyma, Leukocytes, Bulliform cells, Phloem, Podocytes, Mesophyll, Thrombocytes, Sertoli cells

- (1) Seven
- (2) Six
- (3) Five
- (4) Eight

180. On the basis of the mode of pouring of their secretions, glands are divided into two categories these categories are

- (1) Simple and compound
- (2) Dense and special
- (3) Exocrine and endocrine
- (4) Loose and dense

SOLUTION

PHYSICS

1. (4)

[NCERT-XI-I-51]

$$T + m_1 g = m_2 g$$

$$T = (m_2 - m_1)g$$

2. (4)

[NCERT-XI-II-281]

$$\lambda = \frac{360}{500} \text{m}$$

$$\frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

$$\Delta x = .12 \text{m}$$

3. (1)

[NCERT-XI-I-51]

$$m = \frac{|\vec{F}|}{a} = \frac{\sqrt{(6)^2 + (-8)^2 + (10)^2}}{1}$$

$$= 10\sqrt{2} \text{ kg}$$

4. (2)

[NCERT-XI-II-170]

5. (2)

[NCERT-XI-I-134]

$$-G \frac{m}{a/2} - G \frac{m}{a} = -\frac{3Gm}{a}$$

6. (2)

[NCERT-XI-I-38]

$$20 \sin 60 = 10\sqrt{3}$$

7. (2)

[NCERT-XI-I-06]

8. (1)

[NCERT-XII-II-233]

समतापीय प्रसार के लिए

$$P_1(2V) = PV \Rightarrow P_1 = \frac{P}{2}$$

रुद्धोष प्रसार के लिए

$$\frac{P}{2}(2V)^{5/3} = P_F (16V)^{5/3}$$

$$P_F = \frac{P}{64}$$

9. (4)

[NLI Expert]

10. (2)

[NCERT-XI-I-17]

$$0^2 = 10^2 - 2 \times 10 \left(\frac{h}{2} \right)$$

$$h = 10 \text{ m}$$

11. (2)

[Experimental]

1. (4)

[NCERT-XI-I-51]

$$T + m_1 g = m_2 g$$

$$T = (m_2 - m_1)g$$

2. (4)

[NCERT-XI-II-281]

$$\lambda = \frac{360}{500} \text{m}$$

$$\frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

$$\Delta x = .12 \text{m}$$

3. (1)

[NCERT-XI-I-51]

$$m = \frac{|\vec{F}|}{a} = \frac{\sqrt{(6)^2 + (-8)^2 + (10)^2}}{1}$$

$$= 10\sqrt{2} \text{ kg}$$

4. (2)

[NCERT-XI-II-170]

5. (2)

[NCERT-XI-I-134]

$$-G \frac{m}{a/2} - G \frac{m}{a} = -\frac{3Gm}{a}$$

6. (2)

[NCERT-XI-I-38]

$$20 \sin 60 = 10\sqrt{3}$$

7. (2)

[NCERT-XI-I-06]

8. (1)

[NCERT-XII-II-233]

For isothermal expansion

$$P_1(2V) = PV \Rightarrow P_1 = \frac{P}{2}$$

For adiabatic expansion

$$\frac{P}{2}(2V)^{5/3} = P_F (16V)^{5/3}$$

$$P_F = \frac{P}{64}$$

9. (4)

[NLI Expert]

10. (2)

[NCERT-XI-I-17]

$$0^2 = 10^2 - 2 \times 10 \left(\frac{h}{2} \right)$$

$$h = 10 \text{ m}$$

11. (2)

[Experimental]



12. (1)	[NCERT-XI-I-57]	12. (1)	[NCERT-XI-I-57]
$F = m \frac{dv}{dt} + \frac{dm}{dt} v$ $= 0 + 2 Mv$		$F = m \frac{dv}{dt} + \frac{dm}{dt} v$ $= 0 + 2 Mv$	
13. (1)	[NCERT-XI-I-131]	13. (1)	[NCERT-XI-I-131]
14. (1)	[Experimental]	14. (1)	[Experimental]
$0 = 2\pi \times \frac{840}{60} - 11t$ $t = 8 \text{ s}$		$0 = 2\pi \times \frac{840}{60} - 11t$ $t = 8 \text{ s}$	
15. (2)	[PYQ Modified 2019 Odisha]	15. (2)	[PYQ Modified 2019 Odisha]
$R = 2H$ $\frac{2pq}{g} = 2 \frac{q^2}{2g}$ $q = 2p$		$R = 2H$ $\frac{2pq}{g} = 2 \frac{q^2}{2g}$ $q = 2p$	
16. (3)	[NCERT-XII-II-82]	16. (3)	[NCERT-XII-II-82]
$12 = k \frac{(6)}{100} \Rightarrow k = 200 \frac{N}{m}$ $T = 2\pi \sqrt{\frac{2}{200}} = .628$		$12 = k \frac{(6)}{100} \Rightarrow k = 200 \frac{N}{m}$ $T = 2\pi \sqrt{\frac{2}{200}} = .628$	
17. (2)	[PYQ Modified Jhajjar]	17. (2)	[PYQ Modified Jhajjar]
$\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B}$ $= (50\hat{i}) \times (0.5\hat{i} + 3.0\hat{j}) = 150\hat{k} \text{ Nm}$		$\vec{\tau} = \vec{M} \times \vec{B}$ $= (50\hat{i}) \times (0.5\hat{i} + 3.0\hat{j}) = 150\hat{k} \text{ Nm}$	
18. (3)	[NLI Expert]	18. (3)	[NLI Expert]
$N\phi = Li$ $1000 \times 4 \times 10^{-3} = L4$ $L = 1H$		$N\phi = Li$ $1000 \times 4 \times 10^{-3} = L4$ $L = 1H$	
19. (4)	[Experimental]	19. (4)	[Experimental]
$V = \frac{\frac{1}{2} + \frac{2}{1} + \frac{3}{1}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}} = 2V$		$V = \frac{\frac{1}{2} + \frac{2}{1} + \frac{3}{1}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}} = 2V$	
20. (3)	[Modified PYQ Manipur-2021]	20. (3)	[Modified PYQ Manipur-2021]
$x = a \sin \frac{2\pi}{T} t$ $t = \frac{T}{8} \text{ पर}$ $= a \sin \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{8} = \frac{a}{\sqrt{2}}$		$x = a \sin \frac{2\pi}{T} t$ $\text{at } t = \frac{T}{8}$ $= a \sin \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{8} = \frac{a}{\sqrt{2}}$	

21. (2)	[Experimental]	21. (2)	[Experimental]
$\frac{10\mu C}{C} = \frac{(10+20)\mu C}{kC}$ k = 3		$\frac{10\mu C}{C} = \frac{(10+20)\mu C}{kC}$ k = 3	
22. (4)	[PYQ Modified NEET-2023]	22. (4)	[PYQ Modified NEET-2023]
$v = \frac{c}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1.3 \times 2.14}} = 1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$		$v = \frac{c}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1.3 \times 2.14}} = 1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$	
23. (2)	[NLI Expert]	23. (2)	[NLI Expert]
अंतिम प्रतिबिम्ब वस्तु के साथ संपाती होगा यदि लेंस से अपवर्तित किरणे दर्पण पर लम्बवत् पड़े।		Final image will coincide with object when refracted ray from lens falls on mirror normally.	
$\frac{1}{v} - \frac{1}{-25} = \frac{1}{10} \Rightarrow v = \frac{50}{3}$ $\frac{50}{3} = 2.66 + 2f$ $f = 7 \text{ cm}$		$\frac{1}{v} - \frac{1}{-25} = \frac{1}{10} \Rightarrow v = \frac{50}{3}$ $\frac{50}{3} = 2.66 + 2f$ $f = 7 \text{ cm}$	
24. (1)	[NCERT-XII-I-47]	24. (1)	[NCERT-XII-I-47]
25. (3)	[Experimental]	25. (3)	[Experimental]
$R_{EC} = \frac{R}{8}$ $\frac{1}{R} = \frac{8}{R} + \frac{8}{7R} = \frac{56+8}{7R} = \frac{64}{7R}$ $R = \frac{7R}{64}$		$R_{EC} = \frac{R}{8}$ $\frac{1}{R} = \frac{8}{R} + \frac{8}{7R} = \frac{56+8}{7R} = \frac{64}{7R}$ $R = \frac{7R}{64}$	
26. (3)	[NCERT-XII-I-250]	26. (3)	[NCERT-XII-I-250]
$i = \frac{E_{rms}}{X_c}$ $X_c = \frac{1}{100 \times 10^{-6}} = 10^4$ $i = \frac{200}{10^4} = 20 \text{ mA}$		$i = \frac{E_{rms}}{X_c}$ $X_c = \frac{1}{100 \times 10^{-6}} = 10^4$ $i = \frac{200}{10^4} = 20 \text{ mA}$	
27. (1)	[NCERT-XII-II-233]	27. (1)	[NCERT-XII-II-233]
$\frac{E - 0.3}{200} = 6 \times 10^{-3}$ $E = 1.5 \text{ V}$		$\frac{E - 0.3}{200} = 6 \times 10^{-3}$ $E = 1.5 \text{ V}$	

28. (2)	[NCERT-XII-II-14]	28. (2)	[NCERT-XII-II-14]
$E_n = \frac{13.6}{n^2} = -13.6 + 12.1$ $n = 3$		$E_n = \frac{13.6}{n^2} = -13.6 + 12.1$ $n = 3$	
रेखाओं की संख्या = $\frac{3(3-1)}{2} = 3$		No of lines = $\frac{3(3-1)}{2} = 3$	
29. (3)	[NCERT-XII-II-232]	29. (3)	[NCERT-XII-II-232]
$m = +3$ $m = \frac{f}{f+u}$ $3 = \frac{12}{12+u}$		$m = +3$ $m = \frac{f}{f+u}$ $3 = \frac{12}{12+u}$	
$u = -8 \text{ cm}$		$u = -8 \text{ cm}$	
30. (3)	[NCERT-XII-I-157]	30. (3)	[NCERT-XII-I-157]
31. (2)	[NLI Expert]	31. (2)	[NLI Expert]
32. (3)	[PYQ Modified]	32. (3)	[PYQ Modified]
$60 = \frac{200 \times s \times 20 + 200 \times 1 \times 80}{200 \times s + 200 \times 1}$ $s = \frac{1}{2}$		$60 = \frac{200 \times s \times 20 + 200 \times 1 \times 80}{200 \times s + 200 \times 1}$ $s = \frac{1}{2}$	
33. (2)	[Experimental]	33. (2)	[Experimental]
$\frac{q}{C} = 4$ $\frac{q}{kC} = 2$ $k = 2$		$\frac{q}{C} = 4$ $\frac{q}{kC} = 2$ $k = 2$	
34. (3)	[NLI Expert]	34. (3)	[NLI Expert]
35. (2)	[NCERT-XII-I-47]	35. (2)	[NCERT-XII-I-47]
36. (2)	[NLI Expert]	36. (2)	[NLI Expert]
37. (4)	[PYQ Modified-2021]	37. (4)	[PYQ Modified-2021]
38. (4)	[NCERT-XII-II-]	38. (4)	[NCERT-XII-II-]
चंद्रमा पर वातावरण नहीं है इसलिए ध्वनि आगे संचरित नहीं होगी।		No atmosphere on the moon hence, sound will not propagatge.	
39. (2)	[NLI Expert]	39. (2)	[NLI Expert]
$MG - F_B - f = 0$ $\Rightarrow MG - \frac{MG}{2} - f = 0$ $\therefore f = \frac{MG}{2}$		$MG - F_B - f = 0$ $\Rightarrow MG - \frac{MG}{2} - f = 0$ $\therefore f = \frac{MG}{2}$	

40. (3)

[NCERT-XII-II-276]

$$\frac{hc}{\lambda} = \phi + eV \Rightarrow \frac{hc}{\lambda} = 1 + 2 = 3eV \dots\dots\dots(1)$$

$$\frac{hc}{\lambda/2} = 6 = 1 + k_{\max} \therefore k_{\max} = 5eV$$

41. (3)


[NCERT-XII-II-265]

42. (2)

[NLI Expert]

43. (1)

[NCERT-XI-I-83]



टकराने से पहले A का वेग

$$u = \sqrt{2g \frac{R}{2}} = \sqrt{gR}$$

टकराने के तुरंत बाद माना A और B के वेग v_1 और v_2 हैं।
 \therefore COM से :

$$mu = mv_1 + \frac{m}{2}v_2$$

$$2v_1 + v_2 = 2u \quad \dots\dots(i)$$

$$e = 1 = \frac{v_2 - v_1}{u}$$

$$\Rightarrow v_2 - v_1 = u \quad \dots\dots(ii)$$

$$\Rightarrow 3v_1 = u \Rightarrow v_1 = \frac{u}{3} = \frac{1}{3}\sqrt{gR}$$

44. (1)

[NTA]

45. (2)

[NCERT-XII-II-310]

40. (3)

[NCERT-XII-II-276]

$$\frac{hc}{\lambda} = \phi + eV \Rightarrow \frac{hc}{\lambda} = 1 + 2 = 3eV \dots\dots\dots(1)$$

$$\frac{hc}{\lambda/2} = 6 = 1 + k_{\max} \therefore k_{\max} = 5eV$$

41. (3)


[NCERT-XII-II-265]

42. (2)

[NLI Expert]

43. (1)

[NCERT-XI-I-83]



Velocity of A just before hitting:

$$u = \sqrt{2g \frac{R}{2}} = \sqrt{gR}$$

Just after collision, let velocity of A and B are v_1 and v_2 respectively:

\therefore by COM:

$$mu = mv_1 + \frac{m}{2}v_2$$

$$2v_1 + v_2 = 2u \quad \dots\dots(i)$$

$$e = 1 = \frac{v_2 - v_1}{u}$$

$$\Rightarrow v_2 - v_1 = u \quad \dots\dots(ii)$$

$$\Rightarrow 3v_1 = u \Rightarrow v_1 = \frac{u}{3} = \frac{1}{3}\sqrt{gR}$$

44. (1)

[NTA]

45. (2)

[NCERT-XII-II-310]

C H E M I S T R Y

46. (1)

[NCERT-XII-I-47]

कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है।

47. (3)

[NCERT-XI-II-301]

48. (4)

[NCERT-XI-II-321]

कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

49. (4)

[NCERT-XII-I-13]

यदि A-B इंटरेक्शन > A-A या B-B इंटरेक्शन तो मिश्रण राउल्ट के नियम से नकारात्मक विचलन दिखता है।

हेक्सेन + हेप्टेन : कोई विचलन नहीं

बेंजीन + टाल्वीन : कोई विचलन नहीं

जल + एथेनाल : +ve विचलन

नाइट्रिक अम्ल + जल : -ve विचलन

50. (4)

[NCERT-XI-I-156]

उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ हैं उष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। अम्लीय शक्ति $\propto \Delta H_{\text{उदासीनीकरण}}$ (ऋणात्मक मान) इस प्रकार अम्लीय शक्ति का क्रम है –

B > D > A > C

51. (4)

[NCERT-XII-II-213, 233, 242, 253]

सही मिलान है :


- a. फिनॉल
- b. एसिटिक अम्ल
- c. फार्मलिडहाइड
- d. टाल्वीन

- रीमर-ठीमर
- हेल वोल्हार्ड जेलिस्की
- कैनीजारो
- इर्टाड

52. (4)

[NCERT-XII-II-232]

विभिन्न क्रम में (D) उत्पाद को पहचाने।



53. (2)

[NCERT-XII-I-110]

लैथेनाइड की स्थिर आक्सीकरण आवस्था +3 है। Ce⁴⁺ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके +3 अवस्था में बदलने के लिए सवीकार करता है। इसलिए यह एक अच्छे ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है।

Eu²⁺ में लैथेनाइड की अधिक स्थिर +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खोने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह एक मजबूत कम करने वाला एजेंट है।

46. (1)

[NCERT-XII-I-47]

Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).

47. (3)

[NCERT-XI-II-301]

48. (4)

[NCERT-XI-II-321]

Both Statement I and Statement II are correct.

49. (4)

[NCERT-XII-I-13]

If A-B interactions > A-A or B-B interactions then mixture shows negative deviation from Raoult's law.

Hexane + Heptane : No deviation

Benzene + Toluene : No deviation

Water + Ethanol : +ve deviation

Nitric acid + Water : -ve deviation

50. (4)

[NCERT-XI-I-156]

Neutralisation reactions are exothermic in nature. Acidic strength $\propto \Delta H_{\text{neutralisation}}$ (negative value) Thus, acidic strength order is:

B > D > A > C

51. (4)

[NCERT-XII-II-213, 233, 242, 253]


Correct matches are:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| a. Phenol | Reimer-Tiemann |
| b. Acetic acid | Hell-Volhard-Zelinsky |
| c. Formaldehyde | Canniozzaro |
| d. Toluene | Etard |

52. (4)

[NCERT-XII-II-232]

Identify the product (D) in the following reaction sequence:





53. (2)



[NCERT-XII-I-110]

The stable oxidation state of lanthanoids is +3. Ce⁴⁺ tends to accept an electron to change to +3 state. Hence, it acts as a good oxidising agent.


Eu²⁺ has a strong tendency to lose an electron to attain the more stable +3 oxidation state of lanthanoids. Hence, it is a strong reducing agent.



54. (1) [NCERT-XII-I-37, 101] कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।	54. (1) [NCERT-XII-I-37, 101] Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
55. (2) [NCERT-XII-I-109] कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।	55. (2) [NCERT-XII-I-109] Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).
56. (2) [NCERT-XII-I-129] [Co(NH ₃) ₆] ³⁺ , में Co, Co ³⁺ ऑक्सीकरण अवश्या रखता है। ²⁷ Co : [Ar], 3d ⁷ , 4s ² Co ³⁺ : [Ar], 3d ⁶ ; यह d ² sp ³ आन्तरिक कक्षक यौगिक है, जिसमें 6d-इलेक्ट्रानों में 3 इलेक्ट्रान युग्म है।	56. (2) [NCERT-XII-I-129] In [Co(NH ₃) ₆] ³⁺ , Co exists as Co ³⁺ ²⁷ Co : [Ar], 3d ⁷ , 4s ² Co ³⁺ : [Ar], 3d ⁶ ; It is d ² sp ³ inner orbital complex with 3 electron pairs of 6d-electrons.
57. (4) [NCERT-XII-I-04] मोलरता = $\frac{\text{Mass \%} \times 10 \times d}{\text{GMM}}$	57. (4) [NCERT-XII-I-04] Molarity = $\frac{\text{Mass \%} \times 10 \times d}{\text{GMM}}$
58. (3) [NCERT-XI-I-61] n = 4, l = 3, M = +1, S = +1/2	58. (3) [NCERT-XI-I-61] n = 4, l = 3, M = +1, S = +1/2
59. (2) [NCERT-XI-I-45] $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ (3 → 2) $\frac{1}{\lambda} = 1.09 \times 10^7 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1.09 \times 10^7 \left(\frac{9-4}{9 \times 4} \right)$ $\lambda = \frac{36}{5 \times 1.09} \times 10^{-7} = \frac{3600}{5 \times 1.09} nm = 660nm$	59. (2) [NCERT-XI-I-45] $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ (3 → 2) $\frac{1}{\lambda} = 1.09 \times 10^7 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 1.09 \times 10^7 \left(\frac{9-4}{9 \times 4} \right)$ $\lambda = \frac{36}{5 \times 1.09} \times 10^{-7} = \frac{3600}{5 \times 1.09} nm = 660nm$
60. (4) [NCERT-XII-II-201] $\text{CH}_3\text{OH} + \text{PCl}_5 \xrightarrow{(P)} \text{CH}_3\text{Cl} \xrightarrow{(i) \text{ Mg}, \text{ (ii) Dry ether}} \text{CH}_3\text{MgCl} \xrightarrow{\text{HCHO}} \text{CH}_3\text{OMgCl}$ $\text{H}-\overset{\text{OMgCl}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{CH}_3-\text{CH}_2\text{OH}$ (S)	60. (4) [NCERT-XII-II-201] $\text{CH}_3\text{OH} + \text{PCl}_5 \xrightarrow{(P)} \text{CH}_3\text{Cl} \xrightarrow{(i) \text{ Mg}, \text{ (ii) Dry ether}} \text{CH}_3\text{MgCl} \xrightarrow{\text{HCHO}} \text{CH}_3\text{OMgCl}$ $\begin{array}{c} \text{OMgCl} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{H} \end{array} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{CH}_3-\text{CH}_2\text{OH}$ (S)
61. (1) [NCERT-XI-I-112] कथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं और कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या है।	61. (1) [NCERT-XI-I-112] Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
62. (1) [NCERT-XII-I-80] $\log k = \log A - \frac{E^*}{2.303 RT}$ 	62. (1) [NCERT-XII-I-80] $\log k = \log A - \frac{E^*}{2.303 RT}$ 

63. (2)	[NCERT-XII-I-129]	प्रजातियों में से Ni के संकरण अवस्थाओं में क्रमशः है – sp^3 , dsp^2 , sp^3	63. (2)	[NCERT-XII-I-129]	Among $[Ni(CO)_4]$, $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Ni(Cl)_4]^{2-}$ species, the hybridisation states of the Ni is, respectively sp^3 , dsp^2 , sp^3
64. (2)	[NCERT-XII-I-102]	d^5 विन्यास ; पाँच अयुग्मित इलेक्ट्रानद्व, चुम्बकीय आघूर्ण (μ) = $\sqrt{n(n+2)}$ B.M., $\mu = \sqrt{5(5+2)} = 5.92$ BM	64. (2)	[NCERT-XII-I-102]	d^5 configuration (five unpaired electrons). The magnetic moment, μ is $\mu = \sqrt{5(5+2)} = 5.92$ BM
65. (2)	[NCERT-XII-I-17]	C_1 (यूरिया) = C_2 (अज्ञात विलेय) $\left[\frac{w_B \times 1000}{m_B \times V} \right]_{\text{urea}} = \left[\frac{w_B \times 1000}{m_B \times V} \right]_{\text{unknown solute}}$ $\frac{10 \times 1000}{60 \times 1000} = \frac{5 \times 1000}{m_B \times 100} \quad m_B = 300 \text{ g mol}^{-1}$	65. (2)	[NCERT-XII-I-17]	C_1 (urea) = C_2 (unknown solute) $\left[\frac{w_B \times 1000}{m_B \times V} \right]_{\text{urea}} = \left[\frac{w_B \times 1000}{m_B \times V} \right]_{\text{unknown solute}}$ $\frac{10 \times 1000}{60 \times 1000} = \frac{5 \times 1000}{m_B \times 100} \quad m_B = 300 \text{ g mol}^{-1}$
66. (3)	[NCERT-XI-II-284]	हाइड्राजीन	66. (3)	[NCERT-XI-II-284]	Hydrazine
67. (2)	[NCERT-XII-I-126]		67. (2)	[NCERT-XII-I-126]	
68. (2)	[NCERT-XII-I-38]		68. (2)	[NCERT-XII-I-38]	
69. (4)	[NCERT-XI-I-205]		69. (4)	[NCERT-XI-I-205]	
		$M_2X_3(s) \rightleftharpoons 2M^{3+}(aq) + 3X^{2-}(aq)$ $\begin{array}{ccc} 1-y & 2y & 3y \end{array}$ $K_{sp} = [M^{3+}]^2 [X^{2-}]^3$ $= (2y)^2 (3y)^3$ $K_{sp} = 108 y^5$			$M_2X_3(s) \rightleftharpoons 2M^{3+}(aq) + 3X^{2-}(aq)$ $\begin{array}{ccc} 1-y & 2y & 3y \end{array}$ $K_{sp} = [M^{3+}]^2 [X^{2-}]^3$ $= (2y)^2 (3y)^3$ $K_{sp} = 108 y^5$
70. (2)	[NCERT-XI-I-150]	$-393.5 - 285.8 \times 2 + 890.3 = -74.8 \text{ kJ/mol}$	70. (2)	[NCERT-XI-I-150]	$-393.5 - 285.8 \times 2 + 890.3 = -74.8 \text{ kJ/mol}$
71. (4)	[NCERT-XI-II-271]	$CH_3 - \overset{+}{CH} - OCH_3$ ध्नायनित कार्बन पर इलेक्ट्रान विमोचन समूह इस कार्बोकेटायन को स्थिर करता है, इसलिए स्थिरता क्रम है :	71. (4)	[NCERT-XI-II-271]	$CH_3 - \overset{+}{CH} - OCH_3$ has electron releasing group at cationic carbon stabilize this carbocation, therefore stability order is :
		$CH_3 - \overset{+}{CH} - OCH_3 > CH_3 - \overset{+}{CH} - CH_3 >$ $CH_3 - \overset{+}{CH} - COCH_3$			$CH_3 - \overset{+}{CH} - OCH_3 > CH_3 - \overset{+}{CH} - CH_3 >$ $CH_3 - \overset{+}{CH} - COCH_3$
72. (2)	[NCERT-XI-II-266]		72. (2)	[NCERT-XI-II-266]	
		5-एमीनो-4-हाइड्रॉक्सी मेथिल-1-2-नाइट्रोबेंजलिडहाइड			5-amino-4-hydroxymethyl-1-(2-nitrobenzylidene)benzaldehyde

<p>73. (3) [NCERT-XI-I-18]</p> <table border="0"> <tr><td>1.6 g CH₄</td><td>n = 0.1</td></tr> <tr><td>16 g CH₄</td><td>n = 1</td></tr> <tr><td>16 मोल CH₄</td><td>n = 16 अधिकतम मोल, अधिकमत अणु</td></tr> <tr><td>16 mg CH₄</td><td>n = 10⁻³</td></tr> </table> <p>74. (3) [NCERT/XII/121]</p> $T = nt_{\frac{1}{2}}$ $\frac{2.303}{K} \log\left(\frac{100}{12.5}\right) = n\left(\frac{2.303}{K} \log\frac{100}{50}\right)$ $n = \frac{\log\left(\frac{100}{12.5}\right)}{\log 2} = 3$ <p>75. (1) [NCERT-XII-I-36]</p> <p>$\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ cell If E^ocell = -ve then $\Delta G^\circ = +ve$ ie, $\Delta G^\circ > 0$ $\Delta G^\circ = -nRT \log K_{eq}$ for $\Delta G^\circ = +ve$, $K_{eq} = -ve$ ie, $K_{eq} < 1$</p> <p>76. (1) [NCERT-XII-I-128] Electronic configurations of Co³⁺ ion</p> <p style="text-align: center;">3d <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table></p> <p>[CoF₆]³⁻ ion</p> <p style="text-align: center;">3d 4s 4p 4d <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr></table> sp³d² hybridisation</p> <p>F⁻, being a weak ligand cannot cause forcible pairing of electrons within d subshell and forms outer orbital octahedral complex.</p> <p>[Co(NH₃)₆]³⁺ ion :</p> <p style="text-align: center;">3d 4s 4p 4d <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> d²sp³ hybridisation</p> <p>[Fe(CN)₆]³⁻ ion :</p> <p style="text-align: center;">3d 4s 4p 4d <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> d²sp³ hybridisation</p> <p>[Cr(NH₃)₆]³⁺ ion</p>	1.6 g CH ₄	n = 0.1	16 g CH ₄	n = 1	16 मोल CH ₄	n = 16 अधिकतम मोल, अधिकमत अणु	16 mg CH ₄	n = 10 ⁻³	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x			1	1	1	1	1	x	x	x	x					1	1	1	1	1	x	x	x	x				
1.6 g CH ₄	n = 0.1																																																			
16 g CH ₄	n = 1																																																			
16 मोल CH ₄	n = 16 अधिकतम मोल, अधिकमत अणु																																																			
16 mg CH ₄	n = 10 ⁻³																																																			
1	1	1	1	1																																																
1	1	1	1	1																																																
x	x	x	x																																																	
x	x																																																			
1	1	1	1	1																																																
x	x	x	x																																																	
1	1	1	1	1																																																
x	x	x	x																																																	



NH_3 एवं CN^- प्रबल लिगेण्ड हैं इसलिये ये अन्तः कक्षक अष्टफलकीय संकूल बनाते हैं।

77. (4) [NCERT-XI-I-204]


$$\text{विलेयता गुणनफल} = M_2X = K_{sp} = 4s^3$$

$$MX = K_{sp} = s^2$$

$$MX_3 = K_{sp} = 27s^4$$

78. (1) [NCERT-XII-I-56]

Pb 14वें समूह का सदस्य है और यह +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन निष्क्रिय जोड़ी प्रभाव के कारण Pb^{+2} Pb^{+4} की तुलना में अधिक स्थिर है। इसलिए Pb(IV) यौगिक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्योंकि Pb^{+4} आसानी से अधिक स्थायी Pb^{+2} में अपचयित हो जाता है।



PbO_2 का उपयोग लेड स्टोरेज बैटरियों में किया जाता है जहां PbO_2 के साथ पैक किए गए लेड की ग्रिड कथोड के रूप में कार्य करती है और साथ ही यह प्रकृति में उभयचर है।

79. (1) [NCERT-XII-I-102]

$$[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-} - 2.82 \text{ B.M.}$$

$$[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} - 0 \text{ B.M.}$$

$$[\text{FeF}_6]^{3-} - 5.92 \text{ B.M.}$$


$$[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-} - 1.73 \text{ B.M.}$$

80. (4) [NCERT-XI-II-244]


अभिक्रिया (4), $\text{NO}_2(+4)$ का $\text{NO}_2^- (+3)$ व $\text{NO}_3^- (+5)$ में असमानुपातन अभिक्रिया करती है।

81. (2) [NCERT-XI-I-115]


a. ClF_3





b. PCl_5



c. IF_5



d. CCl_4



NH_3 and CN^- are strong ligands, so they form inner orbital octahedral complex.

77. (4) [NCERT-XI-I-204]

$$\text{Solubility product} = M_2X = K_{sp} = 4s^3$$

$$MX = K_{sp} = s^2$$

$$MX_3 = K_{sp} = 27s^4$$

78. (1) [NCERT-XII-I-56]

Pb is a member of 14th group and it shows +2 and +4 oxidation state but due to inert pair effect, Pb^{+2} is more stable than Pb^{+4} . So Pb(IV) compounds are strong oxidising agent as Pb^{+4} gets easily reduced to more stable Pb^{+2} .



PbO_2 is used in lead storage batteries where as a grid of lead packed with PbO_2 acts as cathode and also it is amphoteric in nature.

79. (1) [NCERT-XII-I-102]

$$[\text{Ni}(\text{Cl})_4]^{2-} - 2.82 \text{ B.M.}$$

$$[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-} - 0 \text{ B.M.}$$

$$[\text{FeF}_6]^{3-} - 5.92 \text{ B.M.}$$


$$[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-} - 1.73 \text{ B.M.}$$

80. (4) [NCERT-XI-II-244]

The reaction (4), involves disproportionation of $\text{NO}_2(+4)$ into $\text{NO}_2^- (+3)$ and $\text{NO}_3^- (+5)$.

81. (2) [NCERT-XI-I-115]


a. ClF_3



$$3\sigma + 2 \text{ lp} = 5 \text{ sp}^3\text{d}$$

(T-Shaped)


b. PCl_5



$$(5\sigma) = \text{sp}^3\text{d}$$

(Trigonal bipyramidal)


c. IF_5



$$(5\sigma + 1 \text{ lp}) = 6 \text{ sp}^3\text{d}^2$$

(वर्ग द्विपिरामीडी)

d. CCl_4




$$4\sigma (\text{sp}^3)$$

(Tetrahedral)



e. XeF_4



$$4\sigma + 2 \text{ lp} = 6 (\text{sp}^3\text{d}^2)$$

(वर्ग समतलीय)

82. (3)


[NCERT-XII-I-65]

$$\frac{d[\text{N}_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 10^{-4} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ mol lit}^{-1} \text{ sec}^{-1}$$

83. (3)

[NCERT-XII-II-218]



84. (2)

[NCERT-XII-I-65]

$$\text{अभिक्रिया की दर होगी } -\frac{1}{5} \frac{d[\text{Br}^-]}{dt} = -\frac{1}{6} \frac{d[\text{H}^+]}{dt}$$

85. (1)

[Mod. NCERT-XII]

कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

86. (3)

[NCERT-XII-106]

KMnO_4 ऑक्सिलिक अम्ल के साथ समीकरण अनुसार अभिक्रिया करता है :

$2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$. यहां, 0.1 M KMnO_4 का 20 mL बराबर है 50 mL का 0.1 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$

87. (2)

[NCERT-XI-II-177]

$$K_c = \frac{[\text{NO}]^2}{[\text{N}_2] \times [\text{O}_2]}$$

$$\frac{(2.8 \times 10^{-3})^2}{(3.0 \times 10^{-3}) \times (4.2 \times 10^{-3})} = 0.622$$

88. (4)


[NCERT XII-I-50]

$$\begin{aligned} \Lambda_m^\infty(\text{HA}) &= \alpha_{\text{HCl}} + \alpha_{\text{NaA}} - \alpha_{\text{NaCl}} \\ &= 425.9 + 100.5 - 126.4 \\ &= 400 \text{ s cm}^2 \text{ mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\Lambda_m(\text{HA}) = \frac{K \times 1000}{M} = 5 \times 10^{-5} \times \frac{1000}{0.001} = 50$$

$$\alpha = \frac{\Lambda_m(\text{HA})}{\Lambda_m^\infty(\text{HA})} = \frac{50}{400} = 0.125$$

e. XeF_4



$$4\sigma + 2 \text{ lp} = 6 (\text{sp}^3\text{d}^2)$$

(Square planer)

82. (3)


[NCERT-XII-I-65]

$$\frac{d[\text{N}_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[\text{NH}_3]}{dt}$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 10^{-4} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ mol lit}^{-1} \text{ sec}^{-1}$$

83. (3)

[NCERT-XII-II-218]



84. (2)

[NCERT-XII-I-65]

$$\text{Rate of reaction will be } -\frac{1}{5} \frac{d[\text{Br}^-]}{dt} = -\frac{1}{6} \frac{d[\text{H}^+]}{dt}$$

85. (1)

[Mod. NCERT-XII]

Both Statement I and Statement II are incorrect.

86. (3)

[NCERT-XII-106]

KMnO_4 reacts with oxalic acid according to the equation,



Here, 20 mL of 0.1 M KMnO_4 is equivalent to 50 mL of 0.1 M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$

87. (2)

[NCERT-XI-II-177]

$$K_c = \frac{[\text{NO}]^2}{[\text{N}_2] \times [\text{O}_2]}$$

$$\frac{(2.8 \times 10^{-3})^2}{(3.0 \times 10^{-3}) \times (4.2 \times 10^{-3})} = 0.622$$

88. (4)

[NCERT XII-I-50]

$$\begin{aligned} \Lambda_m^\infty(\text{HA}) &= \alpha_{\text{HCl}} + \alpha_{\text{NaA}} - \alpha_{\text{NaCl}} \\ &= 425.9 + 100.5 - 126.4 \\ &= 400 \text{ s cm}^2 \text{ mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\Lambda_m(\text{HA}) = \frac{K \times 1000}{M} = 5 \times 10^{-5} \times \frac{1000}{0.001} = 50$$



$$\alpha = \frac{\Lambda_m(\text{HA})}{\Lambda_m^\infty(\text{HA})} = \frac{50}{400} = 0.125$$



<p>89. (4)</p> <p>सही मिलान है :</p> <p>A → 2; B → 3; C → 1; D → 2.</p> <p>छठे आवर्त [Z = 58 से Z = 71] तक और सातवें आवर्त [Z = 90 से Z = 103] दोनों के 14 तत्वों को क्रमशः लैन्थेनाइड और एकिटनायड के रूप में जाना जाता है।</p>	<p>[XI-NCERT-I Page No-79]</p>	<p>89. (4)</p> <p>The correct match is</p> <p>A → 2; B → 3; C → 1; D → 2.</p> <p>14 elements of both sixth period [from Z = 58 to Z = 71] and seventh period [from Z = 90 to Z = 103] are known as lanthanoids and actinoids respectively.</p>	<p>[XI-NCERT-I Page No-79]</p>
<p>90. (4)</p> <p>गिलसरॉल को इस दाब में आसवन द्वारा साबुन उद्योग में खर्च किए गए लाइ से अलग किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि गिलसरॉल अपने क्वथनांक पर विघटित हो जाता है।</p>	<p>[XI-NCERT-II Page No-280]</p>	<p>90. (4)</p> <p>Glycerol can be separated from spent-lye in soap industry by distillation under reduced pressure. This method is used because glycerol decomposes at its boiling point.</p>	<p>[XI-NCERT-II Page No-280]</p>



BIOLOGY

<p>91. (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. सिङ्गर b. एडिएन्टम c. स्फेगनम d. मारकेन्शिया <p>92. (1)</p> <p>प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद है :</p> <p>(1) ATP, NADPH और O₂</p> <p>93. (4)</p> <p>जाइगोटीन— अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था I में, गुणसूत्र के एक साथ युग्मन और साइनेप्सिस घटित होता है।</p> <p>94. (2)</p> <p>पुष्प में पुमंग के सम्बन्ध में सही कथन है</p> <ul style="list-style-type: none"> a. अप्रजायी पुंकेशर स्टेमिनोड कहलाता है। b. जब पुंकेशर पेटल्स से जुड़ता है। ये इपीपेटल्स कहलाते हैं। c. मोनोएडेल्फस गुड़हल में देखा जाता है। d. डाईडेल्फस मटर में देखी जाती है। e. सरसों में तन्तु की लम्बाई में विभिन्नता देखने को मिलती है। <p>95. (3)</p> <p>सुसाध्य विसरण के लिए सही कथन है</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) झिल्ली की विशेष प्रोटीन्स इस प्रक्रिया में सहायता करती है। (2) अणुओं का चलन सान्द्रता प्रवणता के ही दिशा में पाया जाता है। (4) ATP इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। <p>96. (1)</p> <p>ह्यूमस के गुणों के सन्दर्भ में सही कथन है</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है (b) गहरे—रंग के एमॉरफस पदार्थ (d) पोषक तत्वों का भण्डार (e) अपघटन में बहुत धीमी गति से जाता है। <p>97. (1)</p> <p>बहुप्रभाविता के सन्दर्भ में सही कथन है</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) एक जीन को बहुप्रभावी कहेंगे अगर यह एक से ज्यादा विशेषक को प्रभावित करती है। (b) फिनाइलकीटोन्यूरिया एक बहुप्रभाविता का उदाहरण है। 	<p>91. (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cedrus b. Adiantum c. Sphagnum d. Marchantia <p>92. (1)</p> <p>[NCERT-I-138 to 140]</p> <p>The products of light reaction in photosynthesis are :</p> <p>(1) ATP, NADPH and O₂</p> <p>93. (4)</p> <p>[NCERT-I-126]</p> <p>Zygotene – In prophase I of Meiosis, chromosomes start pairing together and synapsis takes place.</p> <p>94. (2)</p> <p>[NCERT-I-64]</p> <p>The correct statements related to the androecium in the flower</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The sterile stamens are called staminodes b. When stamens are attached to petals they are called epipetalous c. Monoadelphous is seen in China-rosed. d. Didelphous is seen in Pea e. Variation in the length of filaments is seen in Mustard <p>95. (3)</p> <p>[NCERT-I-94]</p> <p>The statements about facilitated diffusion is incorrect</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Special proteins of the membrane help in this process (2) Movement of molecule the occurs along the concentration gradient (4) ATP is not required for this process <p>96. (1)</p> <p>[NCERT-II-207,208]</p> <p>The statements with regard to properties of humus</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Highly resistant to microbial action (b) Dark-colored amorphous substance (d) Reservoir of nutrients (e) Undergoes decomposition very slow <p>97. (1)</p> <p>[NCERT-II-69]</p> <p>the correct statements with respect to pleiotropism</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) A gene is said to be pleiotropy if it affects more than one trait (b) Phenylketonuria is an example of pleiotropy
--	--

<p>98. (4) [NCERT-I-172]</p> <p>जीवित विभेदित कोशिकाएँ जो कि अब और विभाजित होने की क्षमता को खो चुकी है, कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है। यह घटना निर्विभेदन कहलाती है</p>	<p>98. (4) [NCERT-I-172]</p> <p>The living differentiated cells, that lost the capacity to divide any more, can regain the capacity of division under certain conditions. This Phenomenon is termed as Dedifferentiation</p>																
<p>99. (1) [NCERT-I-108]</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">A. नीबू घास तेल</td> <td style="width: 50%;">III. आवश्यक तेल</td> </tr> <tr> <td>B. रबर</td> <td>I. बहुलकीय पदार्थ</td> </tr> <tr> <td>C. डाइटरपीन्स</td> <td>II. टरपीनॉएड</td> </tr> <tr> <td>D. कैरोटीनॉएड</td> <td>IV. झग्स</td> </tr> </table>	A. नीबू घास तेल	III. आवश्यक तेल	B. रबर	I. बहुलकीय पदार्थ	C. डाइटरपीन्स	II. टरपीनॉएड	D. कैरोटीनॉएड	IV. झग्स	<p>99. (1) [NCERT-I-108]</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">A. Lemon gross oils</td> <td style="width: 50%;">III. Essential oils</td> </tr> <tr> <td>B. Rubber</td> <td>I. Polymeric substance</td> </tr> <tr> <td>C. Diterpene</td> <td>II. Terpenoids</td> </tr> <tr> <td>D. Carotenoids</td> <td>IV. Drugs</td> </tr> </table>	A. Lemon gross oils	III. Essential oils	B. Rubber	I. Polymeric substance	C. Diterpene	II. Terpenoids	D. Carotenoids	IV. Drugs
A. नीबू घास तेल	III. आवश्यक तेल																
B. रबर	I. बहुलकीय पदार्थ																
C. डाइटरपीन्स	II. टरपीनॉएड																
D. कैरोटीनॉएड	IV. झग्स																
A. Lemon gross oils	III. Essential oils																
B. Rubber	I. Polymeric substance																
C. Diterpene	II. Terpenoids																
D. Carotenoids	IV. Drugs																
<p>100. (1) [NCERT-II-87]</p> <p>आनुवंशिक पदार्थ का मापदण्ड है</p> <p>(1) इनमें विकास के लिए परिवर्तन की सम्भावनाएं होनी चाहिए।</p> <p>(2) इसे स्वयं मेण्डल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए।</p> <p>(3) अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए।</p> <p>(4) रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए।</p>	<p>100. (1) [NCERT-II-87]</p> <p>The criterion of genetic material :</p> <p>(1) Should provide the scope for changes for evolution</p> <p>(2) Should be able to express itself in the form of Mendelian character</p> <p>(3) Should be able to generate its replica</p> <p>(4) Should be stable chemically and structurally</p>																
<p>101. (2) [NCERT-I-194]</p> <p>कथन - I :</p>  <p>→ एक प्रकार का WBC और भक्षक कोशिका</p>	<p>101.(2) [NCERT-I-194]</p> <p>Statement I :</p>  <p>→ A type of WBC and phagocytic cell</p>																
<p>कथन - II :</p>  <p>→ प्लेटलेट्स और रक्त के स्कन्दन में सहायता करता है।</p>	<p>Statement II :</p>  <p>→ Platelets and help in blood clotting.</p>																
<p>102.(2) [NCERT-II-84,85]</p> <p>(2) S-स्ट्रेन(ताप से मृत) + R-स्ट्रेन जीवित → चूहे में इन्जेक्टेड → चूहा जीवित</p>	<p>102.(2) [NCERT-II-84,85]</p> <p>S-strain (heat killed) + R-strain(live) → injected into Mice → Mice died</p>																
<p>103.(3) [NCERT-II-222,223]</p> <p>'खराब चौकड़ी' के अन्तर्गत आता है :</p> <p>आवासीय क्षति और विखण्डन</p> <p>अति-दोहन</p> <p>विदेशी जांति आक्रमण</p> <p>सहविलुप्तता</p>	<p>103.(3) [NCERT-II-222,223]</p> <p>the following come under the "EvilQuarter" :</p> <p>Habitat loss and fragmentation</p> <p>Over-exploitation</p> <p>Alien species invasion</p> <p>Co-extinction</p>																

104.(3)	[NCERT-I-110,111]	104.(3)	[NCERT-I-110,111]
कथन I : सेलुलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसैक्रेइड्स है		Statements-I: Cellulose is a polymeric polysaccharide	
कथन II : सेलुलोज का मूलभूत अंग ग्लूकोज अणु होता है।		Statement-II : The building blocks of cellulose are glucose molecules.	
105.(4)	[NCERT-I-227]	105.(4)	[NCERT-I-227]
कथन - I : जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधिस्थल है।		Statement I : Joints are points of contact between bones or between bones and cartilages.	
कथन - II : जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। जहाँ जोड़ आलम्ब का कार्य करते हैं।		Statement II : Force generated by the muscles is used to carry out movement through joints, where the joint act as a fulcrum.	
106.(1)	[NCERT-I-125]	106.(1)	[NCERT-I-125]
(1) (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है		(1) (A) is correct but (R) is not correct	
107.(3)	[Old NCERT-I]	107.(3)	[Old NCERT-I]
अक्षीय कलियाँ शीर्ष विभज्योतक सक्रियता के कारण व्युत्पन्न होती हैं		Axillary buds are derived from the activity of Apical meristem	
108.(4)	[NCERT-II-193]	108.(4)	[NCERT-II-193]
उसी जांति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कही और चले गये हैं आप्रवासन जाने जाते हैं		The process of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration is referred as Immigration	
109.(1)	[NCERT-II-73 to 76]	109.(1)	[NCERT-II-73 to 76]
(a) हिमोफीलिया	(ii) लिंग—लग्न अप्रभावी विकार, रक्त स्कन्दन में खराबी	(a) Haemophilia	(ii) Sex-linked recessive disorder defect in blood coagulation
(b) डाउन सिन्ड्रोम	(iv) गुणसूत्र संख्या 21की अतिरिक्त प्रतिलिपि	(b) Down's Syndrome	(iv) Additional copy of chromosome number 21
(c) फिनाइल कीटोनूरिया	(i) जन्मजात उपापचय त्रुटि जिसमें एन्जाइम का अभाव होता है जोकि फिनाइल एलानीन को टाइरोसीन में बदलता है।	(c) Phenylketonuria	(i) Inborn error of metabolism which lacks an enzyme that converts phenylalanine into tyrosine
(d) क्लाइनफेल्टर	(iii) X-गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रतिलिपि की उपस्थिति	(d) Klinefelter's Syndrome	(iii) Presence of additional copy of X-chromosome (44+XXY)
110.(1)	[NCERT-II-181,182]	110.(1)	[NCERT-II-181,182]
मनुष्य के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिक इन्सुलिन का निर्माण इस्चेरेचिया कोलार्ड से होता है		Genetically engineered insulin for human is produced from Escherichia coli	
111.(3)	[NCERT-I-175]	111.(3)	[NCERT-I-175]
शिखाग्र प्रधान्यता का हटना बाड़ बनाना लिए उपयोगी होता है।		Removal of apical dominance by decapitation is utilised for Hedge making	

112.(2)	[NCERT-II-18]	112.(2) Hexaploid is the ploidy of endosperm of a seed produced after crossing tetraploid female plant with tetraploid male plant
113.(3)	[NCERT-I-28 to 32]	113.(3) Protonemal cell of a moss – Gametophyte or haploid
एक मॉस का प्रोटोनीमल कोशिका – हैप्लॉड अथवा गैमिटोफाइट		
114.(4)	[NCERT-I-159,160]	114.(4) [INCERT-I-159,160]
(a) ETS कॉम्प्लैक्स-I	(iii) NADH डिहाइड्रोजिनेज	(a) ETS complex-I (iii) NADH dehydrogenase
(b) ETS कॉम्प्लैक्स-II	(iv) यूबीकीनोन और FAD डिहाइड्रोजिनेज	(b) ETS complex-II (iv) Ubiquinone and FADH dehydrogenase
(c) ETS कॉम्प्लैक्स-III	(i) Cyt bc ₁	(c) ETS complex III (i) Cyt bc ₁
(d) ETS कॉम्प्लैक्स-IV	(ii) Cyt a,a ₃ और 2 कॉपर केन्द्र	(d) ETS complex-IV (ii) Cyt a,a ₃ and 2 copper centres
115.(3)	[NCERT-II-220]	115.(3) [NCERT-II-220]
$\log S = \log C + Z \log A$ जहाँ Z है		Species Area relationship is described by the following equation.
(3) रेखा का ढलान		$\log S = \log C + Z \log A$ where Z is Slope of the line
116.(1)	[Old NCERT-I] [NCERT-I-60,61]	116.(1) [Old NCERT-I] [NCERT-I-60,61]
(1) पॉल्मेटली संयुक्त	— सिल्क कॉटन	(1) Palmately compound – Silk Cotton
(2) एकान्तर पर्णविन्यास	— गुडहल	(2) Alternate Phyllotaxy – Chinarose
(3) पत्ती प्रतान	— मटर	(3) Leaf tentdril – Pea
(4) समुख पर्णविन्यास	— कैलाट्रॉपिस	(4) Opposite phyllotaxy – Calotropis
117.(4)	[NCERT-II-194]	117.(4) [NCERT-II-194]
चरघातांकी वृद्धि का समीकरण है		the correct equation of exponential growth
(4) $N_t = N_0 e^{rt}$		(4) $N_t = N_0 e^{rt}$
118.(4)	[NCERT-I-236]	118.(4) [NCERT-I-236]
प्रस्तिष्ठक वल्कुट रखता है।		The cerebral cortex contains
(1) संवेदी क्षेत्र		(1) Sensory area
(2) मोटर क्षेत्र		(2) Motor area
(3) सहभागी क्षेत्र		(3) Association area
119.(4)	[NCERT-I-159,160]	119.(4) [NCERT-I-159,160]
साइटोक्रोम c कॉम्प्लैक्स III और IV के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानान्तरण के लिए चलनशील वाहक का काम करता है		Cytochrome c – the cytochrome which acts as a mobile carrier for the transfer of electrons between complex III and IV
120.(4)	[NCERT-I-65]	120.(4) [NCERT-I-65]
प्रिमरोज – पादप केन्द्रीय अक्ष पर सेप्टा के बिना उत्पन्न हुए बीजाण्ड के बीजाण्डासन को रखता है		Primrose– plants possess the placentation of ovules borne on central axis with no septa
121.(3)	[NCERT-I-231]	121.(3) [NCERT-I-231]
न्यूरॉन के जाल से मिलकर बना हुआ – हाइड्रा का तन्त्रिका तन्त्र		Composed of network of neurons – nervous system of hydra
122.(1)	[NCERT-I-142 to 145]	122.(1) [NCERT-I-142 to 145]
C_4 और C_3 पादपों के बीच कार्बन डाईऑक्साइड स्थिरीकरण का अनुपात 2 : 1 है।		The ratio of carbon dioxide fixation between C_4 plants and C_3 plants is – 2 : 1

<p>123.(4) [NCERT-I-109] पेप्टाइड बन्ध – एक अमीनो अम्ल कार्बोक्सिल समूह के दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के साथ अभिक्रिया के परिणामस्वरूप जल के निष्कासन के साथ बनता है</p>	<p>123.(4) [NCERT-I-109] Peptide Bond– formed as a result of reaction of carboxyl group of one amino acid with amino group of other amino acid with elimination of water</p>
<p>124.(4) [NCERT-I-150] फसल उच्च पैदावार के लिए CO_2 से प्रचुर वातावरण में व्यापक रूप से उगायी जाती है (4) टमाटर और शिमला मिर्च</p>	<p>124.(4) [NCERT-I-150] Tomatoes and Bell pepper – crops have been extensively cultivated in CO_2 rich atmosphere for higher yield</p>
<p>125.(1) [NCERT-II-168 to 170] (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है</p>	<p>125.(1) [NCERT-II-168 to 170] (A) is correct but (R) is not correct</p>
<p>126.(1) [NCERT-I-17,18] सैक–कवक – एस्कोमाइसिटीज पफबॉल्स, मशरूम, ब्रैकट कवक – बेसिडियो माइसिटीज</p>	<p>126.(1) [NCERT-I-17,18] Sac-fungi – Ascomycetes Puffballs, Mushrooms, Bracket Fungi – Basidiomycetes</p>
<p>127.(3) [NCERT-II-130 to 138] (A) हिमोफीलस इन्फ्लूएन्जी (B) प्लाजमोडीयम फैल्सीपेरम (C) बुचेरिया बैन्क्रॉफ्टी (D) HIV</p>	<p>127.(3) [NCERT-II-130 to 138] I. जीवाणु II. प्रोटोजोआ III. एस्कैहैल्मिन्थीज IV. विषाणु</p> <p>I. Bacteria II. Protozoa III. Aschelminthese IV. Virus</p>
<p>128.(4) [NCERT-II-142,143]</p>	<p>128.(4) [NCERT-II-142,143]</p>
<p>A.  – पैपेवर सोम्नीफेरम</p>	<p>A.  – Papaver somniferum</p>
<p>B.  – कैनाबीस सेटाइवा</p>	<p>B.  – Cannabis sativa</p>
<p>C.  – धतूरा</p>	<p>C.  – Datura</p>
<p>D.  – कुछ खिलाड़ियों के द्वारा दुरुपयोग</p>	<p>D.  – Abused by some sports person</p>



129.(1)	[NCERT-II-21]	129.(1)	[NCERT-II-21]
A- बीज आवरण, B-भूषणपोष, C- कॉटीलीडन, D -हाइपोकोटाइल		A- Seed Coat, B- Endosperm, C- Cotyledon, D - Hypocotyl	
130.(4)	[Old NCERT-I]	130.(4)	[Old NCERT-I]
कोलेनकाइमा ऊतक का लक्षण है। (1) यह पौधे के वृद्धि कर रहे भाग को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। (2) द्विबीजपत्री पादपों में बाह्यत्वचा के नीचे परतों में पाया जाता है। (3) यह सेलूलोज जमाव के कारण मोटे किनारों की कोशिकाओं के बने होते हैं। (4) यह जीवित ऊतक होते हैं।	The character of collenchyma tissue? : (1) They provide mechanical support to the growing part of the plant (2) They occur in layers below epidermis in dicotyledonous plants (3) They consist of cells with thick corners due to cellulose deposition (4) They are living tissue		
131.(3)	[NCERT-II-164]	131.(3)	[NCERT-II-164]
प्रथम पुर्नयोगज DNA अणु का निर्माण साल्मोनेला टाइफीस्युरीयमके सहज प्लाज्मीड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन के जुड़ने से हो सका था।	The construction of the first recombinant emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of <i>Salmonella typhimurium</i>		
132.(1)	[NCERT-II-69]	132.(1)	[NCERT-II-69]
133.(4)	[NCERT-I-190]	133.(4)	[NCERT-I-190]
एम्फाइसिमा – विकार वायु कूपिकाओं की दीवार के क्षतिग्रस्त होने के कारण श्वसनीय सतह में घटोत्तरी को प्रदर्शित कर रहा है।	Emphysema– disorders represents decrease in respiratory surface due to damaged alveolar walls		
134.(4)	[NCERT-II-44,45]	134.(4)	[NCERT-II-44,45]
हार्मोन मोचक IUDs है (b) LNG - 20 (c) प्रोजेस्टासर्ट	The hormone releasing IUDs (b) LNG - 20 (c) Progestasert		
135.(4)	[NCERT-II-67,68]	135.(4)	[NCERT-II-67,68]
ड्रोसोफिला में, आँखों के रंग और शरीर के रंग का जीन X-गुणसूत्र पर स्थित है।	In <i>Drosophila</i> , the genes for colour of body and colour of eyes are situated on X-chromosome		
136.(1)	[NCERT-I-219 to 223]	136.(1)	[NCERT-I-219 to 223]
एकटीन और नियामक प्रोटीन्स पतले तन्तु में स्थित है।	Actin and regulatory proteins are located in thin filament.		
137.(3)	[NCERT-I-94,95]	137.(3)	[NCERT-I-94,95]
कथन - I : अन्तःश्लिलिका तन्त्र के श्लिलीबद्ध अंग समन्वय करके कोशिकीय कार्य करते है। कथन - II : माइटोकाण्ड्रिया और हरितलवक अन्तःश्लिलिका तन्त्र का एक भाग नहीं जाता है।	Statement - I : Membrane-bound organelles of the endomembrane system coordinate cellular functions. Statement - II : Mitochondria and chloroplasts are not considered a part of the endomembrane system.		
138.(1)	[NCERT-II-83,84]	138.(1)	[NCERT-II-83,84]
न्यूक्लीयोसोम के सन्दर्भ में कथन सही है। (1) न्यूक्लीयोसोम DNA कुण्डली का 200 bp रखता है। (2) न्यूक्लीयोसोम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर डोरी पर मोती के रूप में देखा जाता है। (3) DNA धनात्मक रूप से आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपट कर न्यूक्लीयोसोम का निर्माण करता है। (4) न्यूक्लीयोसोम क्रोमेटिन का पुनरावृत्ति करने वाली ईकाई है।	With respect to nucleosome, The correct statements are (1) Nucleosome contains 200 bp of DNA helix (2) Nucleosomes are seen as 'beads' on string' under Electron Microscope (3) DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form nucleosome. (4) Nucleosome is the repeating unit of chromatin		

139.(1)	[NCERT-I-112 to 116]	139.(1)	[NCERT-I-112 to 116]
एन्जाइम संक्रियण ऊर्जा को घटाता है संक्रमण अवस्था को बनाने के लिए		Enzymes decrease the activation energy for formation of transition state.	
140.(2)	[NCERT-I-212]	140.(2)	[NCERT-I-212]
एट्रीयल नेट्रीयुरेटिक कारक – हॉर्मोन रक्त दाब को कम करता है।		Atrial Natriuretic factor– hormones reduces the blood pressure	
141.(3)	[NCERT-II-224]	141.(3)	[NCERT-II-224]
स्थानीकता जानी जाती है। (3) जाँती जो उसी क्षेत्र के लिए जानी जाती है		Endemism refers to Species confined to that region	
142.(1)	[NCERT-II-172,173]	142.(1)	[NCERT-II-172,173]
एक कोशिका में, DNA हेलीकेज एन्जाइम DNA स्ट्रैन्ड के अलगाव के लिए लाया गया, जबकि PCR में DNA स्ट्रैन्ड का अलगाव उच्च तापमान के कारण होता		In a cell, the separation of DNA strands is brought about by the enzyme DNA helicase, whereas in PCR, the separation of DNA strands is due to High temperature	
143.(2)	[NCERT-II-67,68]	143.(2)	[NCERT-II-67,68]
एक कम पुनर्संयोजन आवृत्ति संकेत देती है कि जीन होते हैं (2) एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं		A low frequency recombination indicates that the genes are Located close to each other	
144.(2)	[NCERT-II-32,33]	144.(2)	[NCERT-II-32,33]
मानव में Y-गुणसूत्र 2nd ध्रुवीय काय में उपस्थित नहीं होता है।		No Y-chromosomes are present in the 2nd polar body in human beings	
145.(4)	[NCERT-II-195,196]	145.(4)	[NCERT-II-195,196]
एक जनसंख्या निश्चित संसाधन के साथ लाजिस्टिक वृद्धि वक्र को प्रदर्शित करती है जहाँ घटनाओं का सही क्रम होगा (4) लैग प्रावस्था → त्वरित प्रावस्था → मन्दन → अनन्तस्पर्शी प्रावस्था		A population with finite resources shows a logistic growth curve where the correct sequence of events will be (4) Lag phase → Acceleration phase → Deceleration → Asymptote	
146.(1)	[NCERT-I-48]	146.(1)	[NCERT-I-48]
एयर ब्लैडर ऑस्टीकथीज में पाया जाता है		Air bladder is found in Osteichthyes	
147.(4)	[NCERT-II-37]	147.(4)	[NCERT-II-37]
हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान स्रावित होता है: (a) रिलैक्सीन (c) hCG (d) hPL		The hormones are secreted in women only during pregnancy : (a) Relaxin (c) hCG (d) hPL	
148.(2)	[NCERT-I-190]	148.(2)	[NCERT-I-190]
श्वसन के नियमन में एक रसायन संवेदी क्षेत्र मस्तिष्क के मेड्यूला क्षेत्र में लय केन्द्र के आस-पास स्थित होता है, अत्यधिक संवेदनशील CO_2 के लिए होता है		In the regulation of respiration, a chemosensitive area adjacent to the rhythm centre in the medulla region of the brain, is highly sensitive to HCO_3^-	
149.(4)	[NCERT-II-151 to 153]	149.(4)	[NCERT-II-151 to 153]
(1) डोसा और इडली (2) सिट्रिक अम्ल (3) एसीटिक अम्ल (4) साइक्लोस्पोरिन -A	– जीवाणु द्वारा किणित – बहुकोशकीय जीव द्वारा उत्पादित – एककोशकीय जीव द्वारा उत्पादित – बहुकोशकीय जीव द्वारा उत्पादित	(1) Dosa and idli (2) Citric acid (3) Acetic acid (4) Cyclosporin -A	– Fermented by bacteria – Produced by multicellular organism – Produced by unicellular organism – Produced by multicellular organism

150.(2)	[Old NCERT-I]	150.(2)	[Old NCERT-I]
शल्की उपकला— उपकला रक्तवाहिकाओं को आस्तरित करती है		Squamous epithelium— types of epithelium lines the walls of blood vessels	
151.(1)	[NCERT-I-126]	151.(1)	[NCERT-I-126]
(c) → (b) → (e) → (d) → (a)		(c) → (b) → (e) → (d) → (a)	
152.(1)	[NCERT-II-37,38]	152.(1)	[NCERT-II-37,38]
मानव में तीन परते सभी ऊतकों (अंगों) का व्यस्क में निर्माण करती है। यह तीन परत है		In human three layers give rise to all tissues/organs in adults these three layers are	
(a) एक्टोडर्म		(a) Ectoderm	
(b) एण्डोडर्म		(b) Endoderm	
(c) मीजोडर्म		(c) Mesoderm	
153.(1)	[NCERT-I-203]	153.(1)	[NCERT-I-203]
हृदयपेशियों को अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति तीव्र सीने में दर्द के लक्षण का कारण बनती है। यह परिसंचरण तन्त्र का विकार एन्जाइना पेक्टोरिस के रूप में पहचाना जाता है		Inadequate supply of oxygen to heart muscles leads to a symptom of acute chest pain. This disorder of the circulatory system is identified as Angina pectoris	
154.(1)	[Old NCERT-I]	154.(1)	[Old NCERT-I]
(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है		(A) is correct but (R) is not correct	
155.(1)	[NCERT-I-48,49]	155.(1)	[NCERT-I-48,49]
कथन I: उभयचर और ज्यादातर सरीसृप 3 कक्षीय हृदय रखते हैं जिसमें दो अलिन्द और एक एकल निलय होता है, और ओविपैरस प्रकृति का होता है।		Statements-I: Amphibians and mostly reptiles have a 3-chambered heart with two atria and a single ventricle, and oviparous in nature	
कथन II: मगरमच्छ एक 4 कक्षीय हृदय दो निलय और दो अलिन्द के साथ रखता है और वीवीपैरस प्रकृति का होता है।		Statements-II: Crocodiles possess a 4 chambered heart with two ventricles and two atria: and viviparous in nature	
156.(2)	[NCERT-II-44 to 48]	156.(2)	[NCERT-II-44 to 48]
IUD – एक प्रकार का गर्भनिरोधक		IUD – a type of contraceptive	
157.(4)	[NCERT-II-135 to 137]	157.(4)	[NCERT-II-135 to 137]
प्रतिरक्षा दमनकारी जले हुए मरीजों अथवा अंग प्रत्यारोपण के दौरान कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा को अवरोधित करने के लिए दिया जाता है		Immuno-suppressants are administered to burn patients or during organ transplantation to suppress Cell-mediated immunity	
158.(2)	[Old NCERT-I]	158.(2)	[Old NCERT-I]
कर्ण मोम को सावित करने वाली कोशिकाएं बहिस्रावी ग्रन्थिल उपकला रखती हैं		Ear wax secreting cells have Exocrine glandular epithelium	
159.(3)	[NCERT-II-27,28]	159.(3)	[NCERT-II-27,28]
(3) (d) , (c) , (a) , (e) , (b)		(3) (d) , (c) , (a) , (e) , (b)	
160.(2)	[NCERT-II-121]	160.(2)	[NCERT-II-121]
आनुवंशिक बहाव अचानक जनसंख्या स्थानान्तरण के कारण होता है		Genetic Drift occurs due to Sudden population migration	
161.(3)	[NCERT-I-242]	161.(3)	[NCERT-I-242]
मानव शरीर में सामान्य सोने जागने का चक्र पीनियल ग्रन्थि के स्रावण द्वारा बनाए रखा जाता ह		Normal sleep-wake cycle in a human body is maintained by the secretion of Pineal gland	
162.(1)	[NCERT-I-247]	162.(1)	[NCERT-I-247]
कोलीसीस्टोकाइनिन – एक आंत्रीय हार्मोन जो कि अग्नाशय को जलीय स्रावण को मुक्त करने के लिए उद्दीपित करता है जो कि बाइकार्बोनेट आयन्स से प्रचुर होता है		Cholecystokinin – An intestinal hormone that stimulates the pancreas to release a watery secretion that is rich in bicarbonate ions	

163.(2)	[NCERT-I-205]	163.(2)	[NCERT-I-205]
	स्थलीय अनुकूलन के लिए कम विषेला नाइट्रोजिनस अपशिष्ट जैसे कि युरिया और युरिक अम्ल के उत्पादन आवश्यक हैं		Terrestrial adaptations necessitated the production of Lesser toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid
164.(3)	[NCERT-II-211 to 213]	164.(3)	[NCERT-II-211 to 213]
कथन I :	ऊर्जा का पिरैमिड सदैव सीधा होता है और ज्यादा दक्ष होता है।	Statement - I:	Pyramid of energy is always upright and is the most efficient
कथन II :	समुद्र में जैव मात्रा का पिरैमिड सामान्यतः उल्टा होता है।	Statement-II:	Pyramid of biomass in sea is generally inverted.
165.(4)	[NCERT-II-168 to 170]	165.(4)	[NCERT-II-168 to 170]
rDNA तकनीक में इस्तेमाल होने वाले एक अच्छे वाहक के गुण हैं	(a) इसके पास उच्च कॉपी संख्या को समर्थन करने वाले प्रतिकृतियन की उत्पत्ति होनी चाहिए (c) वाहक में प्रतिबन्धन स्थल प्रतिजैविक-प्रतिरोधी जीन्स में होनी चाहिए (d) इसके पास उपयुक्त मार्कर जीन्स होना चाहिए (e) इसे आसानी से विलगित और शुद्ध किया जा सक	the properties of a good vector used in rDNA technology	(a) It should have origin of replication supporting a high copy number (c) The restriction sites in vector should be in the antibiotic- resistant genes (d) It should have suitable marker genes (e) It should be easy to isolate and purify
166.(4)	[NCERT-II-116 to 118]	166.(4)	[NCERT-II-116 to 118]
स्पॉटेड कर्स्कस – लिमर	Spotted Cuscus – Lemur	Spotted Cuscus	– Lemur
167.(2)	[NCERT-I-97,98]	167.(2)	[NCERT-I-97,98]
(a) वर्णालवक (b) एमाइलोप्लास्ट (c) इलाइयोप्लास्ट (d) एल्युरोप्लास्ट	(iv) कैरोटीन (iii) स्टार्च (ii) तेल और वसा (i) प्रोटीन्स	(a) Chromoplasts (b) Amyloplasts (c) Elaioplasts (d) Aleuroplasts	(iv) Carotene (iii) Starch (ii) Oil and fats (i) Proteins
168.(4)	[NCERT-I-45,46]	168.(4)	[NCERT-I-45,46]
कार्डिट के लिए सही लक्षण हैं :	The features are true for chordates :		
(a) हृदय अधरीय होता है। (b) ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं (c) केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र पृष्ठीय खोखला और एकल होता है। (d) पश्च-गुदा पुच्छ उपस्थित होता है। (e) नोटोकार्ड उपस्थित है।	(a) Heart is ventral (b) Pharynx is perforated by gill slits. (c) Central nervous system is dorsal hollow and single. (d) post-anal tail is present. (e) Notochord is present.		
169.(3)	[NCERT-II-181,182]	169.(3)	[NCERT-II-181,182]
दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।	Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation or (A)		

170.(4)	[NCERT-II-131,132]	170.(4)	[NCERT-II-131,132]
कथन I :		Statement - I : When an infected female Anopheles mosquito bite, it release sporozoites of plasmodium into the healthy person.	
जब एक संक्रमित मादा एनोफलीज मच्छर काटता है, यह स्वस्थ व्यक्ति में प्लाजमोडियम की स्पोरोजॉयट को मुक्त करता है।		Statement - II : The female Anopheles mosquito takes up gametocytes of Plasmodium with blood meal from an infected person, suffering form malaria.	
कथन II :			
मादा एनोफलीज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति से, मलेरिया से ग्रसित है रक्त भोजन के साथ प्लाजमोडियम की गैमिटोसाइट को लेता है।			
171.(2)	[NCERT-I-16 to 18]	171.(2)	[NCERT-I-16 to 18]
(a) पक्सीनिया	(iii) गेहूँ का किट्ट	(a) Puccinia	(iii) Wheat rust
(b) न्यूरोस्पोरा	(iv) जैव रासायनिक और आनुवंशिक कार्य	(b) Neurospora	(iv) Biochemical and Genetic Work
(c) मृतोपजीवी	(ii) मृत पदार्थ	(c) Saprophytes	(ii) Dead substrates
(d) एल्ब्युगो	(i) सरसो पर परजीवीय कवक	(d) Albugo	(i) Parasitic fungus on mustard
172.(3)	[NCERT-II-88,89]	172.(3)	[NCERT-II-88,89]
75%, 25% – हल्के और संकर घनत्व वाले DNA अणु का अनुपात होगा, क्रमशः अगर मेसेल्सन और स्टॉल प्रयोग 60 मिनट के लिए लगातार हुआ हो		The proportions of light and hybrid density DNA molecule, respectively if Meselson and Stahl's experiment was continued for 60 minutes – 75%, 25%	
173.(3)	[Old NCERT-I]	173.(3)	[Old NCERT-I]
(a) आंसजी सन्धि	(ii) रीवेट्स की तरह कार्य करता है और कोशिकाओं को एक साथ जकड़ता है। एक मजबूत चादर के रूप में	(a) Adhering junctions	(ii) Functions like rivets and fasten cells together into strong sheets
(b) दृढ़ सन्धि	(i) एक रोध को निर्माण करता है। जो कि कोशिकाओं के परत के आर-पार बाह्य कोशिकीय द्रव के रिसाव को रोकता है।	(b) Tight junctions	(i) Establish a barrier that prevents leakage of extracellular fluid across a layer of cells
(c) गैप सन्धि	(iv) एक कोशिका से दूसरी नजदीक की कोशिका से संचार के लिए कोशिका द्रव्यीय चैनल को प्रदान करता है।	(c) Gap junctions	(iv) Provide cytoplasmic channels from one cell to an adjacent cell for communication
(d) साइनेप्टीक सन्धि	(iii) एक कोशिका से दूसरी को तन्त्रिका संचारी के माध्यम से सूचनाओं को भेजता है।	(d) Synaptic junctions	(iii) Pass information through neurotransmitters from one cell to another

<p>174.(3) [NCERT-II-180] (3) दोनों (A) और (R) सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।</p>	<p>174.(3) [NCERT-II-180] (3) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)</p>
<p>175.(3) [NCERT-II-80 to 82] 176.(2) [NCERT-I-6 to 8]</p>	<p>175.(3) [NCERT-II-80 to 82] 176.(2) [NCERT-I-6 to 8]</p>
<p>A. पैथेरा B. कैनीस C. फेलीस D. सोलेनम</p>	<p>I. चीता II. कुत्ता III. बिल्ली IV. मकोय</p>
<p>177.(2) [NCERT-I-24 to 30]</p>	<p>177.(2) [NCERT-I-24 to 30]</p>
<p>A.  – युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन</p> <p>B.  – युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन</p> <p>C.  – युग्मनज में समसूत्री विभाजन</p> <p>D.  – बीजाणु मातृ कोशिका में</p>	<p>A.  – Meiosis in zygote</p> <p>B.  – Meiosis in zygote</p> <p>C.  – Mitosis in zygote</p> <p>D.  – Meiosis in spore mother cell</p>
<p>178.(3) [Old NCERT-I][NCERT-I-58]</p>	<p>178.(3) [Old NCERT-I][NCERT-I-58]</p>
<p>A.  – सहारा देना वाला जड़</p> <p>B.  – अपस्थानिक जड़</p> <p>C.  – मूसला जड़</p> <p>D.  – सुरक्षा के लिए पत्तियाँ</p>	<p>A.  – Supporting roots</p> <p>B.  – Adventitious roots</p> <p>C.  – Tap roots</p> <p>D.  – Leaves for protection</p>

<p>179.(2) [Old NCERT-I][NCERT-I-71 to 77]</p> <p>पादप कोशिकाएँ/ ऊतक हैं</p> <p>रक्षक कोशिका, सहायक कोशिका, पैरेनकाइमा, आवर्धत्वक कोशिकायें, फ्लोएम, , पर्णमध्योतक, थ्रॉन्बोसाइट्स,</p> <p>180.(3) [Old NCERT-I]</p> <p>स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रन्थियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह दो वर्ग है</p> <p>(3) बहिस्रावी और अन्तःस्रावी</p>	<p>179.(2) [Old NCERT-I][NCERT-I-71 to 77]</p> <p>The plant cells/tissue</p> <p>Guard cell, Subsidiary cells, Parenchyma, Bulliform cells, Phloem, Mesophyll</p> <p>180.(3) [Old NCERT-I]</p> <p>On the basis of the mode of pouring of their secretions, glands are divided into two categories these categories are Exocrine and endocrine</p>
---	---